



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

---

सं. 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 20—अक्टूबर 26, 2012 (आश्विन 28, 1934)  
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20—OCTOBER 26, 2012 (ASVINA 28, 1934)

---

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

---

भाग III—खण्ड 4  
[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]  
[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by  
Statutory Bodies]

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुंबई-400001, दिनांक 26 सितम्बर 2012

संदर्भ बैंपवि. सं. आइबीडी. 4591/23.13.030/2012-13--भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप-धारा (6) के खण्ड (ग) के अनुसरण में भारतीय रिज़र्व बैंक इसके द्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्तन किये जाएं :--

“ओमान इंटरनेशनल बैंक एस.ए.ओ.जी.” शब्दों के स्थान पर “एचएसबीसी बैंक ओमान एस.ए.ओ.जी.” शब्द होंगे।

बी. महापात्रा  
कार्यपालक निदेशक

## भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान

कानपुर-208001, दिनांक 11 जुलाई 2012

## चार्टर्ड अकाउंटेंट्स

3सीसीए(4)(1)/2011-2012 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में भारत के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20(1)(ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों के नामों को, उनके द्वारा विहित फीस का संदाय न करने के कारण निम्नलिखित 1 अक्टूबर, 2011 से संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया है :--

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम
1.	002887	श्री नागपाल बुआ दास	गाजियाबाद
2.	007166	श्री शाह अमानत	लखनऊ
3.	008323	श्री मित्रा सुब्रता कुमार	धनबाद
4.	009735	श्री देशपांडे मधुकर बलवंत	बीकानेर
5.	011975	श्री मलिक विपिन कुमार	इंदौर
6.	013332	श्री गौर शिवराज सिंह	नई दिल्ली
7.	014101	श्री के एम लालवानी	रायपुर
8.	014123	श्री बियानी वल्लभ प्रसाद	नवी मुंबई
9.	014652	श्री घोरुई कनई लाल	नोएडा
10.	014801	श्री गुप्ता श्री प्रकाश	मेरठ
11.	015516	श्री घोष ज्योतिमय	सिंघभूम
12.	016572	श्री जगदीश मल लोढा	जोधपुर
13.	016649	श्री राणा गणेश कुमार	जयपुर
14.	016988	श्री सैगल मोहित कुमार	नई दिल्ली
15.	017052	श्री मोदी रामजी लाल	अलवर
16.	017513	श्री गुप्ता राधा मोहन	मुंबई
17.	018558	श्री कुरुविला कुरियाकोज़	नोएडा

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम
18.	018574	श्री धवन प्रमोद कुमार	शिकोहाबाद
19.	020885	श्री कृष्ण एच	बिलासपुर (सीएच)
20.	021475	श्री सुब्रमनियन पी आर	नोएडा
21.	022553	श्री वेकटचलम ए	भोपाल
22.	022635	श्री माधव मोहन पी	नोएडा
23.	026413	श्री वर्मा असीम	इलाहाबाद
24.	032190	श्री मोमाया सुभाषचन्द्र मणिलाल	नोएडा
25.	034039	श्री ईरानी माहीयार असपी	इंदौर
26.	036189	श्री मुलानी गोपाल हरीचंद	मुंबई
27.	036217	श्री साबू बजरंग कुमार	कोटा
28.	040312	श्री सलीम मेयाजी	उदयपुर
29.	042848	श्री पातोदिया राम अवतार	जयपुर
30.	043050	श्री जैन राजेश	भीलवाड़ा
31.	043117	श्री सोमानी संजय कुमार	रामगढ़
32.	045354	श्री सोनी आनंद कुमार	जयपुर
33.	046878	श्री सिंघवी संदीप	जोधपुर
34.	047366	सुश्री मृदुला मालपानी	टोंक
35.	049251	श्री रंगटा जगदीश जी	बीरगंज

36.	050425	श्री कुलवाल प्रहबद राय	जयपुर
37.	051387	श्री झांवर कैलाश चन्द्र	नागदा
38.	053627	श्री इनापाकुर्ति रंगानाधम	सीधि
39.	054289	श्री आबिद हुसैन	गाजियाबाद
40.	054676	श्री मिश्रा अरुण कुमार	पटना
41.	055541	श्री जलान संदीप कुमार	वाराणसी
42.	056553	श्री घोष सुजीबन	गाजियाबाद
43.	056898	श्री अग्रवाल मनोज कुमार	रायगढ़
44.	057090	श्री भारती संगमेश्वर	ठाणे
45.	057272	श्री अग्रवाल विकास	रायपुर
46.	057305	श्री पारिख नितिन	इंदौर
47.	058085	श्री चौधरी बिकास	पटना
48.	058380	श्री मनीष कुमार	मुजफ्फरपुर
49.	059115	श्री जाजु सुनील कुमार	सतना
50.	060226	श्री अजय कुमार शाह	नोएडा
51.	060364	सुश्री सिंह जया	लखनऊ
52.	060600	श्री सन्याल अनिरुद्ध	नोएडा
53.	060771	श्री धूत निशांत	जमशेदपुर
54.	060790	श्री राठी राकेश	नई दिल्ली
55.	060903	श्री धानुका विनीत	नोएडा
56.	061213	श्री प्रशांत दोकानिया	पटना
57.	061312	श्री तुलसियान विकास कुमार	धनबाद
58.	061903	श्री बोधरा सुशील कुमार	कोलकाता
59.	062804	श्री अग्रवाल मनोज कुमार	पटना
60.	062993	श्री अग्रवाल आभा	चिरकुंदा
61.	063355	श्री अतुल कुमार	भोपाल
62.	063391	श्री बियानी नितिन	कोलकाता
63.	063882	श्री बाजपेयी मनीष कुमार	भोपाल
64.	064584	श्री राज कुमार शाह	बस्ती
65.	065052	श्री बिनोद कुमार	कोलकाता
66.	065278	सुश्री सीमा तिवारी	कोलकाता
67.	066303	सुश्री श्वेता करनानी	जयपुर

68.	066304	श्री रोहित कासत	धनबाद
69.	066476	श्री संतोष कुमार गुप्ता	रक्सौल
70.	066971	श्री नंद लाल प्रसाद	पटना
71.	067331	श्री रियाजुद्दीन अहमद	बोकारो स्टील सिटी
72.	067495	श्री आलोक भगत	जबलपुर
73.	067551	श्री रवि भूषण सिंह	नवी मुंबई
74.	067676	श्री विवेक बंका	जमशेदपुर
75.	068345	श्री सत्य प्रकाश	मोतिहारी
76.	069264	श्री बिकास पटवारी	दुमका
77.	069272	श्री सौरभ सोन्थालिया	जमशेदपुर
78.	070173	श्री नीरज कुमार	मुजफ्फरनगर
79.	070286	श्री जैन महेन्द्र कुमार	किशनगढ़
80.	070323	श्री भंडारी विक्रम कुमार	सतना
81.	070378	श्री मेहरोत्रा दिनेश	बरेली
82.	070478	श्री सिंह अशोक कुमार	रांची
83.	070489	श्री गुप्ता सुशील कुमार	कानपुर
84.	070524	श्री हर्ष मोहन	कानपुर
85.	070653	श्री टंडन मुकेश	नोएडा
86.	070770	श्री अग्रवाल गोपाल	इंदौर
87.	070792	श्री गुप्ता मुकट बिहारी	अलवर
88.	070810	श्री सनाधय चन्द्र प्रकाश	उदयपुर
89.	070831	श्री शर्मा सुशील प्रकाश	जयपुर
90.	070859	श्री सिंह सेवेन्द्र बहादुर	कानपुर
91.	070953	श्री बक्शी रेणु	गाजियाबाद
92.	071003	श्री आर्य महेश चंद	भरतपुर
93.	071123	श्री सोनी महेश कुमार	अजमेर
94.	071175	श्री मोहता सत्यनारायण	कोटा
95.	071343	श्री गर्ग शैलेन्द्र नाथ	हापुड
96.	071388	श्री गंगोपाध्याय आलोक कुमार	रांची
97.	071457	श्री खेतावत विजय	भोपाल
98.	071482	श्री गर्ग सतीश कुमार	नोएडा

99.	071553	श्री रंगा पन्ना लाल	जोधपुर
100.	071566	श्री पवन कुमार	देहरादून
101.	071703	श्री निर्मल कुमार जैन	भीलवाड़ा
102.	072019	श्री घोष अमिताभ	भोपाल
103.	072142	श्री खेमका बिनोद कुमार	इंदौर
104.	072175	श्री माथुर विनय नारायण	जयपुर
105.	072242	श्री हर्ष मोहन सिंह दुआ	लखनऊ
106.	072402	श्री श्रीवास्तव ब्रिजेश कुमार	इंदौर
107.	072438	श्री महेश्वरी श्याम	मुरैना
108.	072468	श्री महेश्वरी कुमोद कुमार	मोदीनगर
109.	072473	श्री गोयल रवि कुमार	गाजियाबाद
110.	072600	श्री अग्रवाल किशोर कुमार	मथुरा
111.	072656	श्री महाजन जगदीश चन्द्र	खारगौन
112.	072668	श्री सोलंकी धर्मेन्द्र	जयपुर
113.	072681	श्री अशोक कुमार	गाजियाबाद
114.	072727	श्री अग्रवाल अशोक कुमार	गोरखपुर
115.	072748	श्री मेठानी गोपीचंद	रायपुर
116.	072876	श्री काचोलिया शरद	इंदौर
117.	072927	श्री सिंघवी वीरेन्द्र	जोधपुर
118.	072972	श्री गोयल अतुल भूषण	ऋषिकेश
119.	073012	श्री रविन्द्र सिंह सिंघवी	वडोदरा
120.	073067	श्री जैन सौरभ	नोएडा
121.	073072	श्री अग्रवाल संजीव	दिल्ली
122.	073114	श्री मित्तल अतुल	लखनऊ
123.	073209	श्री नेनावती महेन्द्र सिंह	जयपुर
124.	073281	श्री भार्गव श्याम नारायण	अलवर
125.	073468	श्री गुप्ता शिरीष कुमार	गोरखपुर
126.	073537	श्री भंडारी प्रदीप कुमार	जोधपुर
127.	073579	श्री विजय पाल सिंह	मेरठ
128.	073615	श्री राम किशोर महेश्वरी	बयावर

129.	073628	श्री अरोड़ा सुनील कुमार	मेरठ
130.	073864	श्री श्रींगी अभय प्रकाश	अलवर
131.	073903	श्री सोदानी अरुण	इंदौर
132.	073910	श्री गुप्ता राजु मल	लुधियाना
133.	073912	श्री चोपड़ा ललित कुमार	रायपुर
134.	073942	श्री खंडेलवाल विवेक	जयपुर
135.	074012	श्री हमदानी जैनुल अबेदिन टी	इंदौर
136.	074086	श्री कपूर मनीष	वाराणसी
137.	074097	श्री पंकज सोमानी	जयपुर
138.	074116	श्री युगल किशोर	आगरा
139.	074145	श्री व्यास मुकेश कुमार	जोधपुर
140.	074260	श्री जैन राजेन्द्र	जयपुर
141.	074288	श्री मित्तल राजेश	भोपाल
142.	074342	श्री सुरेन्द्र कुमार	धनबाद
143.	074388	श्री भोमेश्वर	जयपुर
144.	074459	श्री मिश्रा जयंत	भोपाल
145.	074542	श्री राठी राम	जोधपुर
146.	074718	सुश्री संगीता गोयल	इंदौर
147.	074751	श्री प्रमोद सिंह	इंदौर
148.	074764	श्री राधे श्याम वैष्णव	जोधपुर
149.	074865	श्री अग्रवाल विकास कुमार	सहारनपुर
150.	075147	श्री जैन पंकज कुमार	कोटा
151.	075313	श्री गुप्ता प्रमोद कुमार	रावत भाटा
152.	075361	श्री खन्ना मुकेश	मेरठ
153.	075417	श्री अनिल कुमार सिंह	रांची
154.	075426	श्री अनुपम कृष्णा	लखनऊ
155.	075535	श्री अग्रवाल तरुण	जयपुर
156.	075537	श्री गुप्ता राकेश कुमार	भरतपुर
157.	075612	श्री शर्मा राम प्रसाद	जयपुर
158.	075657	श्री शर्मा नवल किशोर	जयपुर
159.	075672	श्री अग्रवाल कमल कुमार	रामपुर
160.	075689	श्री राजीव शर्मा	जयपुर



161.	075723	श्री गुप्ता कृष्ण कुमार	जयपुर
162.	075747	श्री सेठी अंशुल	जयपुर
163.	075865	श्री केडिया आलोक	रांची
164.	075889	श्री शाह महेश कुमार	जयपुर
165.	075897	श्री गुप्ता सुरेन्द्र कुमार	जयपुर
166.	075934	श्री कलिका प्रसाद	आगरा
167.	075995	श्री शाह पराग	मुजफ्फरनगर
168.	076002	श्री गुप्ता अजय कुमार	उन्नाव
169.	076114	श्री जैन विकास	गाजियाबाद
170.	076137	श्री खंडेलवाल अश्वनी कुमार	मथुरा
171.	076157	श्री अग्रवाल बजरंग लाल	झुंझुनु
172.	076201	श्री कासेरा विवेक	गाजियाबाद
173.	076205	श्री भगत गिरजेश कुमार	कानपुर
174.	076267	श्री गुप्ता अतुल	देहरादून
175.	076316	श्री बाफना संजय	रायपुर
176.	076446	श्री पुनिया रघुवीर सिंह	जयपुर
177.	076553	श्री अग्रवाल मनोज	जयपुर
178.	076568	श्री मेहता मनीष	इंदौर
179.	076569	श्री टेकचंदानी जीतेन्द्र	जोधपुर
180.	076632	श्री अरोड़ा शिव कुमार	रुद्रपुर
181.	076634	सुश्री इंतोदिया दीपा	उदयपुर
182.	076643	श्री मित्तल नितिन	गाजियाबाद
183.	076649	श्री सुनील कुमार	चित्तौड़गढ़
184.	076674	सुश्री सक्सेना रीतू	कानपुर
185.	076696	श्री प्रगीत कुंवर	गाजियाबाद
186.	076728	श्री खंडेलवाल अशोक कुमार	जयपुर
187.	076762	सुश्री कोडवानी दीपा	भीलवाड़ा
188.	076798	श्री तरुण पोरवाल	उदयपुर
189.	076801	श्री संजीव कुमार	रांची
190.	076851	श्री जैन प्रवल	देहरादून
191.	076869	श्री सिंह अजय कुमार	कोरबा
192.	076914	श्री गुप्ता संजय	कोटा
193.	076946	श्री जैन सुमेन्द्र	नोएडा
194.	077057	श्री शर्मा रवि	जयपुर

195.	077077	श्री भंडारी हेमंत	जयपुर
196.	077094	श्री मेहता हेमंत	जयपुर
197.	077104	श्री चावला रिमपाल	भोपाल
198.	077148	श्री अग्रवाल अजय कुमार	अकबरपुर (उ.प्र.)
199.	077172	श्री राठी प्रशांत	ग्वालियर
200.	077185	श्री रजित मल्होत्रा	नोएडा
201.	077193	श्री विकास यादव	गाजियाबाद
202.	077219	श्री रुपचंदानी राजेश	कोटा
203.	077327	श्री जैन संजीव कुमार	दुर्ग
204.	077387	श्री सुरेन्द्र कुमार	मुंबई
205.	077418	श्री अग्रवाल अनुप	विजयनगर
206.	077420	श्री गुप्ता दिनेश कुमार	जयपुर
207.	077422	श्री नंदवाना ललित	जयपुर
208.	077520	सुश्री जैन निवेदिता	ग्वालियर
209.	077603	सुश्री पूर्णिमा एम	जमशेदपुर
210.	077648	श्री आशिष पुंडीर	जयपुर
211.	077728	श्री मेहता तिरुपत	मुंबई
212.	077729	श्री गुप्ता सचिन	जयपुर
213.	077747	सुश्री विजय लक्ष्मी	नोएडा
214.	077756	श्री नरुला पुनीत	नोएडा
215.	077841	श्री मौर्या अजय कुमार	लखनऊ
216.	077927	श्री अमित मोदानी	जयपुर
217.	077966	श्री परवल विजय	जयपुर
218.	078144	सुश्री कनोडिया शिल्पा	बरेली
219.	078198	श्री राठी अमित	ग्वालियर
220.	078329	श्री जैन योगेश	जोधपुर
221.	078368	श्री तुलसियानी अशोक कुमार	जयपुर
222.	078396	सुश्री घरयानी संगीता	अजमेर
223.	078407	श्री हरिओम दीक्षित	आगरा
224.	078416	श्री पोरवाल राकेश	उदयपुर
225.	078483	श्री शर्मा हरि नारायण	जयपुर
226.	078506	सुश्री शोभना सिंह	वाराणसी
227.	078551	श्री मंत्री राकेश	मेरठ सिटी
228.	078596	श्री अग्रवाल राजेन्द्र	जयपुर
229.	078612	श्री अग्रवाल विनीत	गुडगांव
230.	078641	श्री झांवर सुरेश कुमार	नोएडा

231.	078711	श्री पारिख सुनील कुमार	भीलवाड़ा
232.	078712	सुश्री भंडारी अपर्णा	जोधपुर
233.	078754	श्री ब्रिजेश कुमार	गाजियाबाद
234.	078766	श्री जोशी नीरज	उज्जैन
235.	078866	सुश्री गुप्ता दीपाली	कानपुर
236.	078952	श्री जैसवाल मुकुल	वाराणसी
237.	078957	श्री बालिया विकास	जोधपुर
238.	078968	श्री वार्ष्णेय कुमार हेमन्द्र	देहरादून
239.	078973	श्री प्रशांत न्याती	उदयपुर
240.	079029	सुश्री सिंघाई मोनिका	जबलपुर
241.	079178	सुश्री पावा जीनू	नोएडा
242.	079230	श्री अग्रवाल ज्ञानेन्द्र कुमार	आगरा
243.	079274	श्री गोयनका राहुल	मऊ
244.	079380	श्री विश्णोई विभोर	नोएडा
245.	079433	श्री सचिन त्यागी	मेरठ
246.	079492	श्री कसलीवाल आलोक	जयपुर
247.	079508	सुश्री लंगर पारुल	जयपुर
248.	079513	श्री मिश्रा शरद	उदयपुर
249.	079595	श्री जैन अमित	गाजियाबाद
250.	079598	सुश्री बंसल पारुल	आगरा
251.	079686	श्री मेहता संजय	जयपुर
252.	079735	श्री बंसल अभिषेक	जयपुर
253.	079841	श्री आशिष अस्थाना	लखनऊ
254.	079881	श्री अजय महेश्वरी	नैनीताल
255.	079906	श्री वासवानी जीतेन्द्र कुमार	रुद्रपुर
256.	079930	श्री राजेश बिहारी श्रीवास्तव	जगदलपुर
257.	079973	सुश्री खाबिया मीनाक्षी	इंदौर
258.	079993	श्री गरोदिया विजय कुमार	वाराणसी
259.	080646	श्री बंसल परवीन कुमार	पणजी गोवा
260.	081426	श्री कौशिक महावीर प्रसाद	नोएडा
261.	081626	श्री धर्मेन्द्र भंडारी	जयपुर
262.	081886	श्री अग्रवाल हरीश	गाजियाबाद
263.	082577	श्री राजेश कुमार	कानपुर
264.	082584	श्री जैन राकेश कुमार	भिवाड़ी

265.	082699	श्री रापरिया सुनील कुमार	आगरा
266.	082862	श्री माथुर अरविन्द कुमार	जयपुर
267.	083669	सुश्री राय ओइन्दरिला	नोएडा
268.	084007	श्री गोपालकृष्णन मदन मोहन	जगयापेट
269.	085723	श्री सक्सेना आलोक	गाजियाबाद
270.	085954	श्री अवस्थी कमल	रायबरेली
271.	086610	श्री बाजपेयी तुमुल	ग्रेटर नोएडा
272.	086995	श्री गोविल सचिन्द्र	जयपुर
273.	087064	श्री माथुर संजय	नोएडा
274.	087398	श्री हीतेन्द्र पाल सिंह	नई दिल्ली
275.	088234	श्री लाढा राजेश	किशनगढ़
276.	088551	श्री शर्मा अशोक दीप	मोदीनगर
277.	088665	श्री अग्रवाल प्रवीन कुमार	मुंबई
278.	088706	श्री शर्मा दिनेश कुमार	नोएडा
279.	088714	सुश्री भंसाली निवेदिता	हरिद्वार
280.	089302	श्री भारत भूषण	रायसिंह नगर
281.	089630	श्री दीपक शर्मा	देहरादून
282.	089698	श्री मोहम्मद नजीम	खुर्जा
283.	090402	श्री शर्मा राजीव	गाजियाबाद
284.	090477	सुश्री खुराना मधु	लखनऊ
285.	090671	श्री नीरज गुप्ता	भिलाई
286.	090751	श्री बंका विनोद कुमार	कुशीनगर
287.	091427	श्री संघु स्वर्ण सिंह	जयपुर
288.	091622	श्री अग्रवाल अनिल कुमार	नोएडा
289.	091638	श्री मित्तल माहिम	नोएडा
290.	092483	श्री गोयल राजीव	नोएडा
291.	092535	श्री शर्मा राजेश कुमार	भिलाई
292.	092727	श्री धानुका संजय कुमार	लखनऊ
293.	092735	श्री सिंघल अजय कुमार	लखनऊ
294.	092916	श्री गुप्ता राजीव कुमार	श्रीगंगानगर
295.	093122	श्री जैन वर्धमान	नोएडा

296.	093258	श्री राज कुमार	गाजियाबाद
297.	093275	श्री अग्रवाल आशिष	नोएडा
298.	093587	श्री भारद्वाज आलोक	भोपाल
299.	093670	श्री मेहरा राजेश	गाजियाबाद
300.	094509	सुश्री बी मृदुला वानी	गाजियाबाद
301.	094872	श्री संजीव कुमार गुप्ता	भोपाल
302.	094908	श्री अरोड़ा महेश कुमार	नोएडा
303.	094962	श्री बाजपेयी विकास	नोएडा
304.	095063	श्री शर्मा रबिन्द्र कुमार	नोएडा
305.	095064	श्री बयाहुत अजोय कुमार	सिहौर
306.	095084	श्री सूद रोहित	नोएडा
307.	095183	श्री सिंघानिया अमिताभ	कानपुर
308.	095242	श्री अग्रवाल सुनील	गाजियाबाद
309.	095437	श्री वर्मा प्रदीप कुमार	नई दिल्ली
310.	095479	श्री अग्रवाल मयंक	गाजियाबाद
311.	095688	श्री माथुर सौरभ	जयपुर
312.	095757	श्री विश्वनाथन वी	गाजियाबाद
313.	095791	श्री अग्रवाल आशिष	नोएडा
314.	096560	श्री गुप्ता सुभाष चन्द्र	साहिबाबाद
315.	096726	श्री महेश्वरी विपुल कुमार	कासगंज
316.	096841	श्री विकास चन्द्र	हजारीबाग
317.	097014	श्री कथुरिया राजीव	नोएडा
318.	097421	श्री दादू नितिन	नोएडा
319.	097945	श्री वी महेश्वर	नोएडा
320.	098009	सुश्री सिन्हा राय संचिता	नई दिल्ली
321.	098150	श्री पात्रो तनुज	गुडगांव
322.	098185	श्री गर्ग प्रदीप कुमार	खुर्जा
323.	098363	श्री अनवानी नारायण	नोएडा
324.	098411	श्री चावला समीर	नोएडा
325.	098531	श्री बंसल दीपक	भिवाड़ी
326.	098616	श्री गोयल विपुल	गाजियाबाद
327.	099032	श्री मून प्रवीन	नोएडा
328.	099255	श्री शर्मा सज्जन	नोएडा
329.	099330	श्री बागनल जसपाल सिंह	जमशेदपुर
330.	099752	श्री गुप्ता संजीव कुमार	गाजियाबाद

331.	099854	श्री झा अशोक कुमार	रांची
332.	103898	श्री आशुतोष परसरामपुरिया	इंदौर
333.	104850	श्री कोठारी आलोक कुमार	जयपुर
334.	105266	श्री पीती विनोद कुमार	जोधपुर
335.	105348	श्री ऋषि तलवार	जयपुर
336.	105668	श्री वीरवानी आकाश हरिराम	भिलाई
337.	106614	सुश्री राठी बरखा मनीष	रायपुर
338.	106838	श्री नाहर प्रकाश	जयपुर
339.	108706	श्री संजेश कुमार	नोएडा
340.	108862	श्री विशाल एस जैन	भोपाल
341.	109030	श्री गोवर्धन पन्ना सिंह	भोपाल
342.	109290	श्री मनोज अग्रवाल	जयपुर
343.	109770	श्री रजनीश सुवलका	भीलवाड़ा
344.	112976	श्री संवारी जुल्फिकार अली	उदयपुर
345.	113471	सुश्री स्वाति सिद्धार्थ मित्तल	जयपुर
346.	113591	श्री अरुण कुमार सिंह	जमशेदपुर
347.	116664	सुश्री खुराना हेमलता सौरभ	गाजियाबाद
348.	119036	सुश्री नेहा अशोक अरोड़ा	मुंबई
349.	119422	सुश्री कंचन विपिन मल्होत्रा	नागपुर
350.	120082	श्री धर्मवीर सिंह	रांची
351.	121076	श्री अभिषेक सिंह	रीवा
352.	121244	सुश्री रुश्दा वसीम खान	भोपाल
353.	122199	श्री योगेश रायपुरिया	अजमेर
354.	122949	श्री उदय चन्द्रकांत चौरसिया	शहडोल
355.	123396	श्री अमित मुन्द्रा	उज्जैन
356.	123565	श्री आफताब गुमानी	उदयपुर
357.	123935	श्री सुनील रामवतार शाह	अररिया
358.	127057	श्री विनीत कुमार जलान	हरिद्वार

359.	127299	सुश्री सुविधा नरोत्तम पारिख	जयपुर
360.	127909	श्री खालिक अहमद	पीपरसिटी
361.	128092	श्री मुरतजा अली मोती	उदयपुर
362.	130136	सुश्री सपना प्रतीक गोलचा	रायपुर
363.	130973	श्री अमित दादाराव महाले	जयपुर
364.	132024	सुश्री लक्ष्मी सुजाना राव	जमशेदपुर
365.	132642	श्री रोहित सुनील गांधी	प्रतापगढ़
366.	134450	श्री चन्द्र शेखर परमेश्वर साह	मुंबई
367.	136922	श्री सौरभ जैन	अजमेर
368.	137555	श्री मयंक अग्रवाल	सागर
369.	139891	श्री नवनीत कुमार सोनी	जोधपुर
370.	203787	सुश्री विधि मनीहार	जयपुर
371.	205843	श्री प्रदीप भंसाली	जयपुर
372.	207257	श्री प्रवीन कुमार टी	निजामाबाद
373.	211343	श्री संदीप सुराना	जयपुर
374.	211847	श्री पुनीत चढ्ढा	जयपुर
375.	213811	सुश्री अनुषा आर जैन	इंदौर
376.	214660	सुश्री विनिता केडिया	गुडगांव
377.	218565	श्री राजीव कुमार सिंह	सहारनपुर
378.	223288	श्री अमरेन्द्र कुमार	रांची
379.	400018	श्री बंसल कुलेश	इंदौर
380.	400020	श्री ईश्वर चंद राय	लखनऊ
381.	400030	सुश्री सिंघल रुचि	आगरा
382.	400070	सुश्री खन्ना पालुक	बंगलौर
383.	400114	श्री कपिल जैन	इंदौर
384.	400115	श्री पंवार हंस राज	जोधपुर
385.	400239	श्री अमित चन्द्र जैन	ललितपुर
386.	400245	सुश्री पारेख रितु	जयपुर
387.	400270	श्री शर्मा कमल कांत	इंदौर
388.	400301	श्री अवरस्थी सुदेश कुमार	कानपुर
389.	400307	सुश्री अग्रवाल श्वेता	नोएडा
390.	400328	श्री अभिषेक वेद	इंदौर
391.	400367	श्री राठी आशिष	उज्जैन
392.	400368	श्री राठी मनीष	उज्जैन

393.	400387	सुश्री तायल पारुल	नोएडा
394.	400388	श्री निमिशेख वेद	इंदौर
395.	400427	श्री सेंगर प्रवीन सिंह	लखनऊ
396.	400431	श्री सुदीप मोहन	नोएडा
397.	400455	सुश्री मेहता तृप्ति	कानपुर
398.	400476	श्री गुप्ता वरुण	देहरादून
399.	400519	सुश्री अग्रवाल पूजा	पटना
400.	400532	श्री गुटगुटिया नीरज	धनबाद
401.	400569	श्री जीतेन्द्र ताडी	जयपुर
402.	400597	श्री निरंजन कुमार समारिया	उदयपुर
403.	400623	श्री जैन अविनाश	जयपुर
404.	400677	श्री निर्मल कुमार अग्रवाल	जयपुर
405.	400699	श्री शर्मा सुमित	इंदौर
406.	400723	श्री छाजेड जयंत	इंदौर
407.	400762	सुश्री अदिती राय दस्तीदार	रांची
408.	400773	सुश्री अग्रवाल विभूति	जयपुर
409.	400778	सुश्री साहल मुग्धा	जोधपुर
410.	400800	सुश्री दारुका मनीषा	मुंबई
411.	400889	श्री मिश्रा अनुराग	नई दिल्ली
412.	400898	श्री खत्री समीर	कानपुर
413.	400994	श्री मुबीन खान	जबलपुर
414.	401023	श्री अल्पेश सुराना	उदयपुर
415.	401040	श्री शर्मा धीरज	इंदौर
416.	401050	श्री अग्रवाल सौरभ	कानपुर
417.	401076	श्री गुप्ता भावेश	कानपुर
418.	401123	श्री महेश्वरी अमित	जयपुर
419.	401140	श्री अरोड़ा रोहित	गुडगांव
420.	401151	सुश्री पूजा अरोड़ा	लखनऊ
421.	401211	श्री सौरभ विष्णु अग्रवाल	पटना
422.	401217	सुश्री अग्रवाल दुर्गा	बीकानेर
423.	401242	श्री सोमानी विनोद	जयपुर
424.	401264	श्री गुप्ता ललित कुमार	शाहजहांपुर
425.	401276	श्री स्वामी हेमकांत	ग्वालियर
426.	401284	श्री मालपानी भवानी शंकर	जयपुर
427.	401288	श्री जोशी अभिषेक	उदयपुर
428.	401326	श्री अभिषेक कुमार	पटना
429.	401336	श्री गुप्ता अमित	अहमदाबाद

430.	401398	श्री अकदास हुसैन	उदयपुर
431.	401459	श्री अमित कुमार	लखनऊ
432.	401487	श्री राठौड़ दुश्यंत सिंह	उदयपुर
433.	401512	सुश्री महेश्वरी राधिका	जयपुर
434.	401514	श्री महेश्वरी मनीष	जयपुर
435.	401545	श्री मोहम्मद शकील खान	राजसमंद
436.	401565	श्री विजय विनोद कुमार	जयपुर
437.	401580	श्री गौरव वल्लभ	जमशेदपुर
438.	401594	सुश्री अग्रवाल पारुल	गाजियाबाद
439.	401628	श्री चौधरी रवि	भागलपुर
440.	401631	श्री लीनिका सिंह	कानपुर
441.	401687	श्री कौशिक रीतेश	भोपाल
442.	401709	श्री रस्तोगी नवीन	जयपुर
443.	401723	श्री शक्ति सिंह शेखावत	जयपुर
444.	401827	श्री गुप्ता अमित कुमार	आगरा
445.	401864	श्री मोहम्मद फुरकान वारसी	इलाहाबाद
446.	401868	श्री बजाज अभिषेक	सहारनपुर
447.	401874	श्री कपूर सन्नी	जयपुर
448.	401875	श्री काकर विक्रम	जयपुर
449.	401965	श्री राठौड़ भूलेश कुमार	खारगौन
450.	401966	श्री सक्सेना मनमोहन कुमार	चंदौसी
451.	401967	सुश्री सुरजीत कौर	हनुमानगढ़ टाउन
452.	401978	श्री गोयल कमलेश कुमार	सीकर
453.	401983	श्री परवीन कुमार बजाज	बिजनौर
454.	402011	श्री मुकेश कुमार चौधरी	जयपुर
455.	402021	सुश्री मोदानी पूजा	जयपुर
456.	402023	श्री बरियावल बासिल	जयपुर
457.	402085	श्री श्रीवास्तव सचिन आशा	नई दिल्ली
458.	402102	सुश्री खंडेलवाल शिल्पी	अलवर

459.	402171	सुश्री जोशी आर्ची	उदयपुर
460.	402227	श्री छाजेड अनंत	इंदौर
461.	402245	श्री बोथरा राजेश	बीकानेर
462.	402264	सुश्री अग्रवाल रुचि	बरेली
463.	402266	श्री दारुका अमित कुमार	भुवनेश्वर
464.	402295	श्री अजीत मुन्द्रा	बयावर
465.	402316	श्री कोहली भुवन	अजमेर
466.	402368	श्री जैन अमित	जयपुर
467.	402406	श्री निखिल अग्रवाल	इंदौर
468.	402439	सुश्री गुप्ता शिप्रा	जयपुर
469.	402459	श्री अग्रवाल अभय	कानपुर
470.	402474	सुश्री मोदी मंजरी	रांची
471.	402484	श्री अग्रवाल सुमित	जयपुर
472.	402507	श्री शेखावत नरेन्द्र सिंह	जयपुर
473.	402510	श्री सपना तुलसियान	डालटनगंज
474.	402546	सुश्री गोयल श्वेता	नोएडा
475.	402634	श्री महेश्वरी मनीष	गुडगांव
476.	402635	श्री मनीष गुप्ता	अलवर
477.	402648	श्री राणावत मनोज	मंदसौर
478.	402687	सुश्री गोयल अंजली	भोपाल
479.	402696	श्री गुप्ता मोहित	कोटा
480.	402803	श्री मोदी अजय	मधुपुर
481.	402821	श्री जैन गौरव कुमार	इंदौर
482.	402828	श्री गुप्ता अभिनन्दन	मुंबई
483.	402866	श्री हबलानी सुशील	मुंबई
484.	402922	श्री मिश्रा प्रदीप कुमार	जबलपुर
485.	402926	श्री श्रीवास्तव विशाल	लखनऊ
486.	402977	सुश्री वाघवानी रुचि	कानपुर
487.	402978	श्री तिवारी बिपिन	नोएडा
488.	403062	श्री खंडेलवाल ऋषि कुमार	जयपुर
489.	403075	सुश्री कंवलजीत कौर खुराना	अजमेर
490.	403088	श्री गोयल रोहित	गाजियाबाद
491.	403104	श्री अग्रवाल राहुल	जयपुर
492.	403106	श्री अग्रवाल सुनील	जयपुर
493.	403108	श्री तुलसियान रवि	लखनऊ
494.	403136	श्री गुप्ता नितिन	देहरादून
495.	403148	श्री चन्द्रा चन्दन	जयपुर

496.	403162	श्री शर्मा प्रतीक	कोटा
497.	403169	श्री सिंह विशाल	रांची
498.	403176	श्री गुप्ता राकेश कुमार	अलवर
499.	403196	श्री मुक्ति लाल	जयपुर
500.	403233	श्री कुशवाहा सुनील कुमार सिंह.	इलाहाबाद
501.	403265	सुश्री शाह नीरा आशिष	उज्जैन
502.	403271	श्री जैन नेमी चंद	जयपुर
503.	403273	श्री बदया गिरिधर कुमार	जयपुर
504.	403304	श्री होजफा राशिद सैफुद्दीन	उदयपुर
505.	403318	श्री नागपाल अमित	गुडगांव
506.	403344	सुश्री जैन मीतू	जयपुर
507.	403380	श्री जैन सुभाष कुमार	जयपुर
508.	403444	सुश्री यादव दिशा	जयपुर
509.	403465	श्री मुबारक आबिद हुसैन ताज	दोहा
510.	403517	श्री दीपक सीरुवानी	ग्वालियर
511.	403536	श्री जैन रुपक	गुडगांव
512.	403553	श्री विजय शर्मा	रतलाम
513.	403564	श्री सिरोथिया शरद	नोएडा
514.	403576	श्री जैठलिया मुकेश	अहमदाबाद
515.	403609	श्री बाजपेयी पदमेश कुमार	कानपुर
516.	403611	सुश्री वर्मा श्वेता	लखनऊ
517.	403626	श्री गुलाटी गौरव	आगरा
518.	403656	श्री चौबे सतीश	ग्वालियर
519.	403684	सुश्री सचदेव हनी	उदयपुर
520.	403720	श्री इमतियाज शैख	भोपाल
521.	403731	श्री अस्थाना अभिषेक	लखनऊ
522.	403761	श्री कपूर सुमित	आगरा
523.	403879	श्री जैन सचिन	झांसी
524.	403888	श्री चंदक निर्मल	मुंबई
525.	403920	श्री सोधानी हिमांशु	जयपुर
526.	404016	श्री आल्या अंकुर	भोपाल
527.	404034	श्री नकवी शाबाब हैदर	इलाहाबाद
528.	404057	श्री लोढा आशिष	मुंबई
529.	404068	श्री जैन अरविन्द	जोधपुर
530.	404083	श्री रंगटा राहुल	उदयपुर

531.	404087	श्री जैन नीतेश कुमार	उज्जैन
532.	404102	सुश्री विद्या रंजानी	भोपाल
533.	404140	श्री अजित कुमार	पटना
534.	404154	श्री अग्रवाल राम किशन	जयपुर
535.	404175	सुश्री गडिया सुलभा	रतलाम
536.	404190	श्री ऐरेन प्राखर	इंदौर
537.	404200	श्री मिश्रा अरुण कुमार	भिलाई
538.	404204	सुश्री खुटेता सुरभि	नई दिल्ली
539.	404212	श्री सिद्धिकी अकरम वासिम	रायपुर
540.	404294	श्री गुप्ता नितिन	साहिबाबाद
541.	404311	सुश्री प्रियंका सिंघल	जयपुर
542.	404318	सुश्री खंडेलवाल शिवा	जयपुर
543.	404334	श्री वाघ संतोष	इंदौर
544.	404343	श्री खान मोहम्मद फावद	रीवा
545.	404397	श्री बंसल अनिल	उदयपुर
546.	404408	श्री सिंह गगन दीप	कोटा
547.	404428	सुश्री जैन वैशाली	भोपाल
548.	404441	श्री गुप्ता हेमंत	जबलपुर
549.	404460	सुश्री पुरी चिटवान	देहरादून
550.	404467	श्री सिंघवी अजय	जोधपुर
551.	404562	श्री अग्रवाल अनिरुद्ध	जयपुर
552.	404586	श्री जैन नितिन सज्जन	उदयपुर
553.	404587	श्री जैन राहुल हीरालाल	बांसवाड़ा
554.	404608	सुश्री अग्रवाल मोनिका	देहरादून
555.	404614	श्री गुलाटी सुमित	चेन्नई
556.	404626	सुश्री दारुका निधि	भीलवाड़ा
557.	404705	श्री जोशी हेमंत	जयपुर
558.	404736	श्री दीपक भाटिया	इंदौर
559.	404738	श्री खातेर अंकुर	जयपुर
560.	404763	श्री अजमेरा सचिन	जयपुर
561.	404814	सुश्री बिरला प्रियंका	चित्तौड़गढ़
562.	404826	श्री अश्वनी प्रदीप	जयपुर
563.	404831	श्री मनोज हबलानी	इंदौर
564.	404835	सुश्री जैन अपेक्षा	आगरा
565.	404852	सुश्री दानी प्रियंका	जयपुर

566.	404854	श्री गोयल विजय	जोधपुर
567.	404862	श्री नाहर प्रणय महेन्द्र	मुंबई
568.	404868	सुश्री संगोई रेणु	रायपुर
569.	404901	सुश्री गोलचा विजया	रायपुर
570.	404938	श्री अग्रवाल मनीष	बुलन्दशहर
571.	404964	श्री अग्रवाल अजय	अजमेर
572.	404977	श्री मेहरोत्रा पंकज	कोटा
573.	404983	श्री पितलिया विमल	उदयपुर
574.	404989	श्री प्रियेश मनदोवारा	इंदौर
575.	405115	श्री रस्तोगी रजत	रांची
576.	405130	श्री खान शारिक	जयपुर
577.	405138	सुश्री अग्रवाल विजेता	जयपुर
578.	405204	श्री गर्ग विपिन	लखनऊ
579.	405283	श्री दंगायच गिरिश	जयपुर
580.	405320	श्री युवराज चौधरी	नोएडा
581.	405369	श्री दिनेश कुमार वर्मा	भोपाल
582.	405390	सुश्री नेहा वेद	भोपाल
583.	405399	श्री संजय कुमार शर्मा	जयपुर
584.	405420	सुश्री दीपा बंसल	श्रीगंगानगर
585.	405464	श्री अनुराग जगीसैंत	बांसवाडा
586.	405468	श्री किशोर हबलानी	इंदौर
587.	405499	श्री प्रवीन कुमार जैन	इंदौर
588.	405518	सुश्री आयुशी सिंह	रांची
589.	405545	श्री विवेक गोयल	भरतपुर
590.	405549	सुश्री अंकिता जैन	गाजियाबाद
591.	405565	श्री आशिष लोढा	जयपुर
592.	405586	सुश्री प्रगति गोयल	नोएडा
593.	405591	श्री आनंद सोनी	जोधपुर
594.	405597	श्री दीपक गर्ग	श्रीगंगानगर
595.	405606	सुश्री मीनाक्षी अग्रवाल	भीलवाड़ा
596.	405608	श्री विपिन करनानी	जयपुर
597.	405615	श्री समरजीत मित्रा	रायपुर
598.	405629	श्री गौरव कुमार श्रीवास्तव	नोएडा
599.	405646	श्री कमलेश झालानी	जयपुर
600.	405658	श्री अनुराग शर्मा	उदयपुर
601.	405678	श्री राजकुमार राठी	मुंबई
602.	405690	सुश्री डी चन्द्रवती	जमशेदपुर
603.	405700	श्री नितिन हुंडिया	जयपुर
604.	405708	श्री राकेश कुमार अग्रवाल	रांची

605.	405755	श्री अमित गोयल	मुजफ्फरनगर
606.	405765	श्री विपिन कुमार श्रीवास्तव	चंडीगढ़
607.	405780	श्री वरुण विनय गर्ग	आगरा
608.	405796	श्री निशांत टंडन	बरेली
609.	405797	श्री अंकित टंडन	कानपुर
610.	405872	श्री राकेश कुमार जैन	मालपुरा
611.	405931	श्री चितिन सपारिया	हाथरस
612.	405970	श्री अनुराग कुमार श्रीवास्तव	कानपुर
613.	405974	श्री सुनील कुमार पांडेय	नोएडा
614.	405978	सुश्री शिखा पांडेय	लखनऊ
615.	406000	श्री बृजेश कुमार पांडे	इलाहाबाद
616.	406021	श्री मनीष गोयल	बरेली
617.	406026	श्री भुवन आहूजा	आगरा
618.	406068	श्री सचिन अग्रवाल	आगरा
619.	406128	सुश्री पूजा खंडेलवाल	जयपुर
620.	406156	सुश्री शीला परवानी	ग्वालियर
621.	406157	सुश्री निकिता पोद्दार	इंदौर
622.	406168	श्री विवेक कलानी	गुडगांव
623.	406201	श्री विशाल अरोड़ा	दिल्ली
624.	406306	श्री प्रवीन कलानी	जयपुर
625.	406307	श्री अनिल कुमार खंडेलवाल	जयपुर
626.	406308	श्री सुनील कुमार अग्रवाल	जयपुर
627.	406336	श्री नितिन बजाज	इंदौर
628.	406344	श्री कपिल जोशी	मुंबई
629.	406345	श्री आदित्य केडिया	हनुमानगढ़ टाउन
630.	406348	श्री रोहित गुप्ता	गाजियाबाद
631.	406353	श्री विवेक कुमार गुप्ता	श्रीगंगानगर
632.	406371	श्री कपिल शर्मा	गाजियाबाद
633.	406376	श्री कपिल कुमार भारद्वाज	अजमेर
634.	406388	सुश्री शालिनी जैन	श्रीगंगानगर
635.	406392	श्री विजय दाशोरे	इंदौर
636.	406396	श्री अनुराग त्यागी	गाजियाबाद
637.	406411	श्री योगेश कुमार यादव	जयपुर
638.	406413	श्री धर्मवीर कुमार	पटना

639.	406424	श्री पराग अग्रवाल	गुडगांव
640.	406433	श्री दीपक सिंघी	नई दिल्ली
641.	406453	श्री अजय गूम्बर	भरतपुर
642.	406455	श्री मुकेश कुमार चौरसिया	छत्तरपुर
643.	406460	श्री पुनीत चावला	नोएडा
644.	406500	श्री गिरिश शिवारामाकृष्णा	जमशेदपुर
645.	406543	सुश्री अर्पिता खंडेलवाल	आगरा
646.	406544	श्री मयंक गुप्ता	आगरा
647.	406557	श्री साकेत विजयवर्गीय	मुंबई
648.	406581	श्री फुलेश बंसल	उदयपुर
649.	406585	सुश्री नेहा तुलसियान	मुंबई
650.	406591	सुश्री सरिता रोह्वानी	उज्जैन
651.	406609	श्री आशुतोष बगाडिया	जयपुर
652.	406612	श्री घनश्याम गुप्ता	पुणे
653.	406622	श्री पीयूष नीमा	जबलपुर
654.	406670	श्री योगेश कुमार अग्रवाल	मुंबई
655.	406684	सुश्री नीता तालेसरा	जोधपुर
656.	406736	सुश्री खुशबू कपूर	गुडगांव
657.	406748	श्री संदीप कुमार	गाजियाबाद
658.	406750	सुश्री सुधा शर्मा	गुडगांव
659.	406754	श्री बाल किशन बगला	पानीपत
660.	406773	श्री विभोर राजवंशी	मेरठ
661.	406785	सुश्री स्वीटी लुनिया	इंदौर
662.	406797	श्री सिबी जोसफ	मुंबई
663.	406806	श्री अशोक कुमार सिंह	इलाहाबाद
664.	406813	श्री काजल कुमार सिंह	धनबाद
665.	406839	सुश्री भावना गुप्ता	अजमेर
666.	406846	सुश्री निवृत्ती मिश्रा	भोपाल
667.	406864	श्री गौरव अग्रवाल	बहराइच
668.	406898	श्री प्रियंक कुमार जैन	इंदौर
669.	406906	श्री इमतिआज अहमद सिद्दिकी	इलाहाबाद
670.	406917	श्री कौसतुभ कुमार मित्तल	जयपुर

671.	406923	सुश्री विजेता शर्मा	जयपुर
672.	406992	श्री सौरभ महेश्वरी	आगरा
673.	407011	सुश्री अदिती अग्रवाल	आगरा
674.	407016	सुश्री राशि अग्रवाल	झांसी
675.	407032	सुश्री समृद्धि पारिख	जयपुर
676.	407054	श्री प्रभात कुमार	पटना
677.	407062	श्री अनुज कुमार	गाजियाबाद
678.	407074	श्री मोहम्मद हसन जैदी	लखनऊ
679.	407087	सुश्री रीना लछीरामका	मधुपुर
680.	407091	सुश्री स्वाति तिवारी	ग्वालियर
681.	407094	श्री गोरा गोस्वामी	रामगढ़
682.	407125	श्री अनुज गुप्ता	झांसी
683.	407140	श्री संदीप तायल	गाजियाबाद
684.	407147	श्री कान सिंह	जोधपुर
685.	407180	सुश्री रेखा सोभानी	जयपुर
686.	407243	श्री आशिष गुप्ता	अजमेर
687.	407270	श्री गगनधीर सिंह खुराल	जबलपुर
688.	407279	श्री अरुण जैन	उदयपुर
689.	407287	श्री नितिन जैन	मुंबई
690.	407289	श्री आशिष जैन	इंदौर
691.	407290	श्री सुमित अग्रवाल	बरवानी
692.	407301	श्री मनोज कुमार गुप्ता	सतना
693.	407312	श्री वैभव भगत	कानपुर
694.	407355	श्री नितिन जलान	गोरखपुर
695.	407358	सुश्री तनीषा बांगर	भीलवाड़ा
696.	407361	श्री मृगंक सिन्हा	गाजियाबाद
697.	407375	श्री अभिनन्दन केदावत	जयपुर
698.	407381	श्री सुजीत कुमार	पटना
699.	407400	श्री रश्मि मेहता	जोधपुर
700.	407404	श्री प्रवीण जैसवाल	इंदौर
701.	407406	श्री राजेश बिरला	जयपुर
702.	407490	श्री अंकित पारिख	चेन्नई
703.	407522	श्री सरफराज अहमद	रांची
704.	407568	श्री मोहित अग्रवाल	आगरा
705.	407595	श्री संदीप मिश्रा	कानपुर
706.	407618	सुश्री रश्मि भंसाली	जयपुर
707.	407633	श्री विकास जैन	जयपुर



708.	407642	सुश्री सोनल केजरीवाल	कानपुर
709.	407647	श्री जय कुमार साहनी	बंगलौर
710.	407671	श्री राहुल रस्तोगी	लखनऊ
711.	407707	श्री नितिन कुमार गुप्ता	आगरा
712.	407710	श्री विरेन्द्र कुमार शर्मा	दुंडला
713.	407743	श्री जॉय दास	गाजियाबाद
714.	407756	श्री अंशु शर्मा	लखनऊ
715.	407761	श्री शिवा जैसवाल	गुड़गांव
716.	407765	श्री हिमांशु नागपाल	गुड़गांव
717.	407798	श्री विपिन बोहरा	सोजत सिटी
718.	407803	श्री मनीष अग्रवाल	बीकानेर
719.	407848	श्री निखिल गुप्ता	जयपुर
720.	407926	श्री आशिष जैन	जयपुर
721.	408017	श्री कुहू सोनी	रायसन
722.	408020	श्री नवीन जैन	बंगलौर
723.	408023	श्री अंकित अजमेरा	जयपुर
724.	408053	श्री प्रियांशु जैन	फिरोजाबाद
725.	408059	श्री शिवेन्द्र	भिवाड़ी
726.	408063	श्री वरुण तोमर	लखनऊ
727.	408117	श्री सौरभ मेहता	जोधपुर
728.	408128	श्री मनोहर सिंह राठौड़	जोधपुर
729.	408175	श्री आशुतोष साहु	इलाहाबाद
730.	408177	श्री कुलदीप चौहान	इंदौर
731.	408201	श्री दीपक बब्बर	बुंदी
732.	408203	श्री मंजीत कुमार	लखनऊ
733.	408206	श्री सचिन कपूर	बरेली
734.	408214	श्री अचिन कुमार भाटी	मुंबई
735.	408277	श्री मनीष जैन	चित्तौड़गढ़
736.	408279	श्री पारुल अग्रवाल	गुड़गांव
737.	408309	श्री आशिष अग्रवाल	जयपुर
738.	408343	श्री मोहम्मद अर्शद	लखनऊ
739.	408385	श्री विशाल जैसवाल	लखनऊ
740.	408423	श्री महेश कुमार गोयल	नौहर
741.	408424	श्री जीतेन्द्र ज्ञानमानी	अजमेर
742.	408456	श्री अजय जैन	नई दिल्ली

743.	408463	श्री अनुज कुमार माथुर	जयपुर
744.	408475	श्री गौरव गुप्ता	आगरा
745.	408492	श्री मुकेश कुमार अग्रवाल	अलवर
746.	408497	सुश्री नूपुर गुप्ता	अलवर
747.	408500	श्री प्रदीप कलाथिल	जयपुर
748.	408504	सुश्री निधि खन्ना	जबलपुर
749.	408509	श्री प्रियंक अग्रवाल	बरेली
750.	408519	श्री वसीम मोहम्मद खान	मुंबई
751.	408537	श्री संदीप कुमार जेठालिया	इंदौर
752.	408547	सुश्री निधि कक्कड़	मुंबई
753.	408585	श्री अमित अग्रवाल	नोएडा
754.	408588	श्री मनीष कुमार गर्ग	गाजियाबाद
755.	408651	श्री हीतेश धादधा	जोधपुर
756.	408684	श्री सुमित शर्मा	जयपुर
757.	408693	श्री प्रशांत सचान	बीकानेर
758.	408706	श्री पुनीत कुमार अग्रवाल	अनूपशहर
759.	408740	श्री आलोक पांडेय	इलाहाबाद
760.	408765	श्री राहुल गुप्ता	मेरठ
761.	408772	श्री जतिन्द्र पाल सिंह	नई दिल्ली
762.	408809	श्री अजय कृष्णा हरित	चुरु
763.	408823	श्री सतेन्द्र कुमार राय	वाराणसी
764.	408843	श्री हरप्रीत सिंह	नई दिल्ली
765.	408920	श्री गौरव गुप्ता	खड़गपुर
766.	408946	श्री नितिन अग्रवाल	मथुरा
767.	408960	श्री मनोज कुमार धुरेजा	इंदौर
768.	408963	श्री मयंक खंडेलवाल	बरवाहा
769.	408967	श्री राजीव अग्रवाल	ग्वालियर
770.	408971	श्री अनिल कुमार जैन	जयपुर
771.	408986	सुश्री शीतल केजरीवाल	सीकर
772.	408997	श्री अंकुर मेहरोत्रा	जमशेदपुर
773.	409022	श्री संकल्प के अग्रवाल	हैदराबाद
774.	409025	श्री नितिन शर्मा	जयपुर
775.	409027	श्री मनीष कुमार कायल	नई दिल्ली

776.	409040	श्री नीलिमा खंडेलवाल	कानपुर
777.	409041	सुश्री अपर्णा अग्रवाल	वाराणसी
778.	409042	श्री दीपक भाटिया	गाजियाबाद
779.	409085	श्री अमित अग्रवाल	जयपुर
780.	409092	श्री समीर निझावन	गुडगांव
781.	409113	श्री शशि कांत	पटना
782.	409128	सुश्री अगया खुरडेलिया	भोपाल
783.	409137	सुश्री सुमन ज़िंदल	जयपुर
784.	409139	श्री संजय पीडी बरनवाल	गोमिया
785.	409143	श्री सचिन जैन	मेरठ
786.	409159	श्री अनिल कुमार शर्मा	जबलपुर
787.	409167	सुश्री आंचल सेठ	जबलपुर
788.	409169	सुश्री नेहा अग्रवाल	नोएडा
789.	409171	श्री नीरज पाठक	रांची
790.	409172	श्री अभिषेक	इलाहाबाद
791.	409176	श्री यासेर शाहिद	दरभंगा
792.	409181	श्री श्रीकांत के	दुर्ग
793.	409208	सुश्री मनप्रीत कौर टुटेजा	इंदौर
794.	409215	सुश्री करुणा भामभानी	अजमेर
795.	409223	श्री शुभदीप जौहरी	बरेली
796.	409236	सुश्री शीतल सांखला	नागडा
797.	409262	श्री सुधीर कुमार	जमशेदपुर
798.	409293	श्री विष्णु खंडेलवाल	जयपुर
799.	409311	सुश्री कामना निगम	भोपाल
800.	409356	श्री विक्रम कुमार	शिओगंज
801.	409364	श्री सुशील कुमार	फैजाबाद
802.	409399	सुश्री रुचिका अग्रवाल	जमशेदपुर
803.	409422	श्री सर्वेश मित्तल	मथुरा
804.	409426	श्री दीपक पगारिया	चित्तौदगढ़
805.	409486	श्री अनु पोपली	जयपुर
806.	409569	श्री कपिल बोकाडिया	उदयपुर
807.	409581	श्री ज्ञानेन्द्र स्वर्णकार	भोपाल
808.	409611	सुश्री शिखा जैन	जयपुर
809.	409630	श्री कमलेश मनपुरिया	रांची
810.	409664	श्री रुचिर जैन	जयपुर
811.	409707	श्री महेश मनीहार	जोधपुर

812.	409712	श्री मयंक वार्ष्णेय	चंदौसी
813.	409730	श्री दीपक नेनवानी	भोपाल
814.	409767	श्री कृष्णा शर्मा	जयपुर
815.	409789	श्री अंशुल जैन	जयपुर
816.	409798	सुश्री निधि मलानी	जयपुर
817.	409827	श्री संजय कुमार शर्मा	सीकर
818.	409870	श्री राहुल ओझा	इंदौर
819.	409880	श्री विकास अग्रवाल	लखीमपुर खीरी
820.	409904	सुश्री राधिका अरोड़ा	गुडगांव
821.	409906	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता	गुडगांव
822.	409921	श्री प्रमोद कुमार जैन	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
823.	409925	श्री राज कुमार नादर	नई दिल्ली
824.	409959	श्री फिरोज अली बरनागरवाला	इंदौर
825.	409999	श्री गौरव भाटिया	आगरा
826.	410023	श्री कुमार सौरभ	लखनऊ
827.	410036	श्री ज्ञानदीप मित्तल	कानपुर
828.	410064	श्री गजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	मथुरा
829.	410079	श्री आशुतोष जोशी	जयपुर
830.	410174	श्री जीतेन्द्र कुमार खंडेलवाल	जयपुर
831.	410182	सुश्री शिखा शर्मा	अलवर
832.	410187	श्री निखिल मेहता	जोधपुर
833.	410192	श्री राजुल दुबे	कानपुर
834.	410214	श्री गौरव पंचोलिया	पुणे
835.	410242	श्री गौरव लोढा	जयपुर
836.	410246	सुश्री विनीता मेहरा	वाराणसी
837.	410247	श्री शिवेन्द्र कुमार गुप्ता	वाराणसी
838.	410255	श्री श्रेणिक जैन	भीलवाड़ा
839.	410292	सुश्री पूजा जैन	जोधपुर
840.	410300	श्री मिर्जा जमीर बेग	गुडगांव
841.	410301	श्री अक्षय अग्रवाल	बरेली
842.	410320	श्री संजीव कुमार मंगल	भोपाल
843.	410327	श्री संजीव कुमार पोद्दार	जमशेदपुर
844.	410328	सुश्री नेहा ठाकुर	रांची

845.	410329	श्री कृत्य जैन	जयपुर
846.	410330	श्री रीतेश कोठारी	भोपाल
847.	410349	श्री महेश कुमार बिरला	इंदौर
848.	410358	श्री शशांक गुप्ता	नई दिल्ली
849.	410368	श्री दुर्गेश सचदेव	कानपुर
850.	410401	श्री शशांक गर्ग	कोटा
851.	410410	श्री संजीव कुमार वाष्ण्य	अलीगढ़
852.	410489	श्री पीयूष मित्तल	नई दिल्ली
853.	410490	श्री सुमित कुमार	जोधपुर
854.	410541	श्री विशाल कुमार	धनबाद
855.	410547	श्री विवेक कुमार अरोड़ा	मेरठ
856.	410559	श्री राहुल जैन	इंदौर
857.	410565	श्री शुभम अग्रवाल	भोपाल
858.	410567	श्री विनोद कुमार पांडेय	इलाहाबाद
859.	410575	श्री राम सिंह यादव	जयपुर
860.	410579	सुश्री पल्लवी झाझरिया	कानपुर
861.	410629	श्री अंकुर वाघवा	जयपुर
862.	410641	श्री अविनाश गोयल	अलवर
863.	410653	सुश्री रेखा भंसाली	जोधपुर
864.	410654	श्री विकास कुमार जैन	इंदौर
865.	410661	श्री अरविन्द कुमार जैसवाल	गोरखपुर
866.	410684	श्री नूपुर गर्ग	इलाहाबाद
867.	410688	श्री मुकेश सोनी	छिंदवाड़ा
868.	410699	श्री हेमंत भंडारी	झाबुआ
869.	410701	श्री पवन गुप्ता	मेरठ
870.	410711	श्री भारत कुमार गोयल	अलवर
871.	410718	श्री बिनय कृष्णा	पटना
872.	410727	सुश्री प्रियांशी गोयल	जयपुर
873.	410730	सुश्री ज्योति चौहान	इंदौर
874.	410746	श्री मुकुल जैन	मुजफ्फरनगर
875.	410763	श्री ओम प्रकाश पांडेय	जमशेदपुर
876.	410784	श्री नीता शिवकानी	नई दिल्ली
877.	410789	श्री सुशील कुमार देवता	ठाणे

878.	410877	श्री अंकित जैन	लखनऊ
879.	410883	सुश्री वंदना महेश्वरी	इंदौर
880.	410900	सुश्री श्वेता अग्रवाल	कानपुर
881.	410922	श्री राकेश अग्रवाल	जोधपुर
882.	410948	श्री दीपक बगरेचा	गांधीधाम
883.	410990	श्री प्रवीन कुमार सिंह	कानपुर
884.	410996	सुश्री शिप्रा खंडेलवाल	जयपुर
885.	411015	श्री हुसैन हैदरी	इंदौर
886.	411036	श्री दीपक गुप्ता	लखनऊ
887.	411108	श्री सौरभ हरलालका	इंदौर
888.	411130	श्री गिरिश गोयल	मुंबई
889.	411175	सुश्री जया मनसुखानी	भोपाल
890.	411186	श्री विजय कुमार	भदोही
891.	411203	सुश्री श्वेता मेहता	गाजियाबाद
892.	411206	श्री गौरव सोमानी	मुंबई
893.	411219	श्री अभिनव शर्मा	जयपुर
894.	411246	श्री चंदन माथुर	जोधपुर
895.	411251	श्री मुकेश राठी	नथद्वारा
896.	411287	श्री नवीन कुमार	जयपुर
897.	411290	श्री विरेन्द्र सिंह सौलंकी	धार
898.	411325	श्री मोहम्मद फहद खालिद	लखनऊ
899.	411369	श्री नरेश मेघानी	जयपुर
900.	411380	सुश्री मीनल लोढा	जोधपुर
901.	411399	सुश्री करिश्मा जैन	जशपुर नगर
902.	411474	श्री रमनदीप मधोक	पुणे
903.	411487	श्री गौरव अग्रवाल	अजमेर
904.	411495	श्री शशिकांत पलादिया	भिलाई
905.	411533	श्री अतुल जैन	दमोह
906.	411617	श्री पद्मनीत सिंह सलूजा	इंदौर
907.	411637	श्री आशिष रायकवार	सागर
908.	411714	श्री ऋषि प्रकाश	इलाहाबाद
909.	411742	श्री अरुण सिंह	जयपुर
910.	411765	श्री प्रतिक्षित पारिख	जयपुर
911.	411768	श्री अमरतांश दूबे	इंदौर
912.	411771	सुश्री श्वेता शर्मा	जयपुर
913.	411791	श्री संतोष काग	मुंबई
914.	411802	श्री रवि रंजन	मुजफ्फरपुर

915.	411834	श्री अमित नाथ	रांची
916.	411836	श्री करण मित्तल	जयपुर
917.	411852	श्री आशिष जैन	इंदौर
918.	411862	श्री उची छाबड़ा	लखनऊ
919.	411869	श्री नंदी वर्धन मेहता	जोधपुर
920.	411884	सुश्री मीनाक्षी चेलानी	अजमेर
921.	411889	श्री प्रीतेश महाजन	खारगौन
922.	411917	श्री ललित मखानी	सहारनपुर
923.	411974	सुश्री सोनल जैन	जयपुर
924.	411981	श्री अभिषेक अग्रवाल	सीकर
925.	412006	श्री मनीष जैन	इंदौर
926.	412054	सुश्री पूजा बटवाल	इंदौर
927.	412062	सुश्री पूजा श्रीवास्तव	जबलपुर
928.	412075	श्री अभिषेक बाहेती	ठाणे
929.	412087	श्री गौरव गर्ग	आगरा
930.	412091	श्री अश्वनी कुमार जैन	टोंक
931.	412105	श्री गगनदीप सिंह	सहारनपुर
932.	412156	श्री हिमानी अरोड़ा	जयपुर
933.	412168	श्री गणेश कुमार केसरी	आराह
934.	412212	सुश्री नेहा जैन	बंगलौर
935.	412223	श्री गजेश भंडारी	जोधपुर
936.	412255	श्री तारकेशवर सिंह	त्रिसुर
937.	412257	सुश्री राधा जाजू	मैनपुरी
938.	412267	सुश्री पूजा अग्रवाल	हैदराबाद
939.	412287	श्री राहुल जैन	जयपुर
940.	412297	श्री प्रभात गुप्ता	कोटा
941.	412304	श्री नीरज खत्री	इंदौर
942.	412370	सुश्री निधि अजमेरा	मुंबई
943.	412396	श्री दीप्ति हेमनानी	उदयपुर
944.	412426	श्री रजनीश जैसवाल	इंदौर
945.	412475	श्री आकाश जाजू	बूंदी
946.	412496	श्री अभिषेक हरदेव	लखनऊ
947.	412611	श्री भवानी शंकर मोदी	झुंझुनु
948.	412701	श्री शरद गोविन्दलाल अग्रवाल	इंदौर
949.	412734	श्री अर्पित सिंघल	नई दिल्ली
950.	412745	सुश्री नेहा शुक्ला	मुंबई
951.	412758	श्री अंकेश गोयल	नई दिल्ली
952.	412853	श्री संजय कुमार सिंह	उदयपुर

953.	412871	श्री सुबोध कुमार गवान्दे	भोपाल
954.	412875	सुश्री जागृति अग्रवाल	बीकानेर
955.	412900	श्री अमित कुमार अग्रवाल	कानपुर
956.	412977	सुश्री स्वाति बिन्दल	जयपुर
957.	412984	श्री सचिन भार्गव	जयपुर
958.	413025	श्री राहुल गुप्ता	मुंबई
959.	413033	श्री भैरव कुमार	पटना
960.	413132	श्री अशोक कुमार रामावत	मदनगंज किशनगढ़
961.	413138	सुश्री पायल खंडेलवाल	जयपुर
962.	413190	श्री श्याम सुन्दर झांवर	जयपुर
963.	413289	श्री आशिष वैश	नोएडा
964.	413298	श्री अमोघ गुप्ता	कोटा
965.	413303	श्री प्रवीन शर्मा	मुंबई
966.	413319	श्री नीरज कुमार सिंह	पटना
967.	413324	श्री जीतेन्द्र कुमार अरोड़ा	मथुरा
968.	413347	श्री भीष्म नारायण सिंह	वाराणसी
969.	413358	श्री नवीन कुमार द्विवेदी	दुर्ग
970.	413383	सुश्री सुरभि अग्रवाल	भोपाल
971.	500366	श्री राणा गोपाल सिंह	गुडगांव
972.	500404	श्री प्रदीप कुमार	सहारनपुर
973.	500499	श्री वर्मा अमित कुमार	गाजियाबाद
974.	500587	श्री संजीत कुमार	छपरा
975.	501058	श्री सुधीर	गाजियाबाद
976.	501207	श्री राजीव कुमार	हरिद्वार
977.	501497	सुश्री जैन टिकी	गुडगांव
978.	501513	श्री सिंह पुष्पेन्द्र	गाजियाबाद
979.	501618	श्री अग्रवाल मोहित नरेश	लखनऊ
980.	501655	सुश्री कवात्रा मीनाक्षी	गाजियाबाद
981.	501808	श्री भंसाली नीरज	नोएडा
982.	501906	श्री सिंह परमिन्दर	कानपुर
983.	501981	श्री जैन तुलसी राज	दिल्ली
984.	502523	श्री गर्ग संदीप	हिसार
985.	502674	श्री रावल अमित	इंदौर
986.	502802	श्री सर्वेश कुमार	गाजियाबाद

987.	502901	श्री नागरथ रोहित रंजन	देवरिया
988.	503401	श्री मोहंती चित्तरंजन	गाजियाबाद
989.	503838	श्री सिन्हा कृष्ण प्रताप	बोकारो स्टील सिटी
990.	504078	श्री मो. नासिर हुसैन	दरभंगा
991.	504226	सुश्री शुक्ला स्वपनिली	कानपुर
992.	504285	श्री कश्यप मनीष	जयपुर
993.	504355	श्री शर्मा सोहन कुमार	पटना
994.	504372	सुश्री मित्तल मोनिका	नोएडा
995.	504436	श्री प्रशांत कुमार सिंह	वाराणसी
996.	504768	श्री मनीष कुमार	पटना
997.	504859	श्री महाजन प्रवीन	अलवर
998.	504924	श्री लाल रामदेव	नोएडा
999.	504971	श्री सिंह राज कुमार	पटना
1000	505237	श्री पात्रो बी बापुजी कुमार	नोएडा
1001	505239	श्री करनानी पंकज	श्रीगंगानगर
1002	505281	सुश्री शर्मा सारिका	मोदीनगर
1003	505402	श्री झा आशुतोष	धनबाद
1004	505482	सुश्री शालु ऋषिराज हलदान्कर	मुंबई
1005	505584	श्री अमनदीप सिंह	नोएडा
1006	505767	श्री पंकज कुमार	पटना
1007	505857	श्री भारद्वाज मयंक	गुडगांव
1008	505949	श्री चावला कपिल	मेरठ
1009	506052	श्री अनुराग राजन	नई दिल्ली
1010	506088	श्री स्वतंत्र कुमार सिंह	मनकापुर
1011	506089	श्री पंकज सिंघल	जयपुर
1012	506646	सुश्री सुनीता बिस्वास	गुडगांव
1013	506709	श्री कुशल शर्मा	गाजियाबाद
1014	507082	श्री अवधेश कुमार	बोकारो स्टील सिटी
1015	507114	सुश्री मानसी उपाध्याय	मेरठ
1016	507272	श्री राहुल कौशिक	गुडगांव
1017	507355	श्री पुरुषोत्तम कुमार सिंह	गाजियाबाद
1018	507487	सुश्री पूजा भार्गव	मुंबई
1019	507494	श्री कामाख्या शरण द्विवेदी	धारवा

1020	507548	श्री सुजीत कुमार	गोपालगंज
1021	507679	श्री मनीष केडिया	जयपुर
1022	507946	श्री संजय कुमार राय	गाजीपुर
1023	508134	श्री अमृत पाल सिंह	लखनऊ
1024	508361	श्री दीपक राज गुप्ता	रांची
1025	508548	श्री अशोक कुमार ओझा	पटना
1026	508712	श्री अर्पण जैन	मेरठ
1027	508737	श्री अंकुर गर्ग	नोएडा
1028	508792	सुश्री अनुश्री मेहर	देवास
1029	508805	श्री लक्ष्मण शर्मा	गाजियाबाद
1030	509103	श्री अंकित गर्ग	मुजफ्फरनगर
1031	509277	श्री राजेश कुमार पांडेय	पटना
1032	509361	सुश्री सोनिया गुप्ता	गाजियाबाद
1033	509444	श्री राम रतन सिंह	गया
1034	509632	श्री रजत अग्रवाल	इलाहाबाद
1035	509716	श्री युवराज सिंह भौन	जयपुर
1036	509732	श्री अंकुर जैन	गाजियाबाद
1037	509757	सुश्री सुरुचि माथुर	नोएडा
1038	509763	श्री प्रमोद कुमार पांडेय	गाजियाबाद
1039	509807	श्री पंकज खंडेलवाल	हाथरस
1040	509927	श्री हेमंत अग्रवाल	झांसी
1041	509952	श्री धनश्याम गोयल	गुडगांव
1042	510021	श्री नवल किशोर देवांगन	चंपा
1043	510143	श्री शालिनी देसाई	गाजियाबाद
1044	510337	श्री सुमित गौतम मिश्रा	गोरखपुर
1045	510393	श्री अंकुर जैन	आगरा
1046	510422	श्री हर्ष कुमार	खुर्जा
1047	510460	श्री राकेश कुमार	नागपुर
1048	510537	श्री हर्ष जैन	गुडगांव
1049	510552	श्री संजय कुमार सिन्हा	नोएडा
1050	510741	सुश्री अंकिता भटनागर	नई दिल्ली
1051	510782	श्री के एस अनुराज	नोएडा
1052	510869	श्री मृणल सजवान	धनबाद
1053	510872	सुश्री मंजरी अग्रवाल	झांसी
1054	510921	श्री अभिषेक मान सिंह	वैशाली

1055	510923	श्री निखार माथुर	गाजियाबाद
1056	510991	श्री विनय मिश्रा	वाराणसी
1057	511020	श्री पंकज गुप्ता	जालौन
1058	511039	सुश्री मनीषा जैन	सहारनपुर
1059	511046	श्री अमित अग्रवाल	गाजियाबाद
1060	511115	श्री आशिष अग्रवाल	बीकानेर
1061	511120	श्री विपिन कुमार शर्मा	भोपाल
1062	511129	श्री सचिन कुमार	मथुरा
1063	511196	श्री हीतेश गुप्ता	दिल्ली
1064	511203	श्री राज सिंह वर्मा	भोपाल
1065	511229	श्री अमित कुमार गुप्ता	सासाराम
1066	511352	श्री धर्मेन्द्र कुमार गुप्ता	नोएडा
1067	511516	सुश्री मोनिका अग्रवाल	मेरठ
1068	511598	श्री गौरव टोंक	दिल्ली
1069	511896	श्री अभिषेक शर्मा	नई दिल्ली
1070	511919	श्री विरेन्द्र नाथ पांडेय	गोरखपुर
1071	511920	सुश्री आंचल ठाकुर	मुरादाबाद
1072	512044	श्री राम मनोहर गुप्ता	नई दिल्ली
1073	512403	श्री आदित्य कुमार झा	दिल्ली
1074	512677	सुश्री मनीषा	जमशेदपुर
1075	512714	सुश्री खुशबू जैन	भोपाल
1076	512800	श्री अमिताभ सिंघल	रामपुर
1077	513130	श्री विनीत कुमार संचेती	गाजियाबाद
1078	513201	श्री राजन कायस्थ	नोएडा
1079	513478	श्री नितिन जैन	मेरठ
1080	513594	सुश्री अर्चना जैन	सहारनपुर
1081	513723	श्री घनश्याम दास गुप्ता	छतरपुर
1082	513749	श्री मनीष नेलवाल	अल्मोडा
1083	514049	श्री वरुण अग्रवाल	आगरा
1084	514113	सुश्री शिखा शर्मा	गाजियाबाद

1085	514232	सुश्री प्रिया प्रभाकरन	नोएडा
1086	514267	श्री रजत अग्रवाल	कासगंज
1087	514341	सुश्री स्वाति मित्तल	श्रीगंगानगर
1088	514662	श्री सौरभ मोदी	नीमच
1089	514663	श्री पंकज कुमार गुप्ता	धार
1090	514666	श्री सचिन अग्रवाल	गाजियाबाद
1091	514716	सुश्री दीपिका मेहरा	दिल्ली
1092	514772	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव	हरिद्वार
1093	514867	श्री शोभित रस्तोगी	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
1094	515008	श्री राजेश कुमार	नालंदा
1095	515035	श्री वरुण कुमार अग्रवाल	जमशेदपुर
1096	515380	श्री अल्केश चौधरी	जोधपुर
1097	515762	श्री योगेश हरजाई	गाजियाबाद
1098	516133	श्री अंकुर सक्सेना	कानपुर
1099	516382	श्री मो. तबीश अहमद	पटना
1100	516458	सुश्री ईशिता अग्रवाल	मेरठ
1101	516459	सुश्री दीपा थापा	नोएडा
1102	516501	श्री सुमित महाजन	चिडवा
1103	516580	श्री अरुण चौधरी	मोरादाबाद
1104	516700	श्री संदीप कुमार	दिल्ली
1105	516703	श्री जसमीत सिंह चौधरी	देहरादून
1106	516804	श्री कपिल कुमार अग्रवाल	भरतपुर
1107	516938	श्री धीरज अग्रवाल	दिल्ली
1108	517093	श्री सुनील कुमार यादव	रायबरेली
1109	517169	श्री राकेश जाखड़	बीकानेर
1110	517274	श्री संदीप कुमार	मोतीहारी
1111	517636	श्री मोहम्मद आदिल सिद्दिकी	लखनऊ
1112	517875	श्री कौशलेन्द्र कुमार	पटना

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

3सीसीए(4)(2)/2011-12 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण उनके नामों के सामने उल्लिखित तारीख (तारीखों) से इस संस्थान के सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया है :-

क्रम सं०	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम	हटाए जाने की तारीख
1.	001842	श्री मेहता मनमोहन चंद	इंदौर	09/01/2012
2.	002655	श्री जजोदिया नारायण प्रसाद	पटना	13/07/2011
3.	004079	श्री श्री राम सिंह	हजारीबाग	23/08/2011
4.	006141	श्री चट्टा जीतेन्द्र मोहन	मेरठ	04/10/2011
5.	006541	श्री ओझा लक्ष्मी	बोकारो स्टील सिटी	24/01/2012
6.	007908	श्री सोदानी मुरलीधर	उज्जैन	04/06/2011
7.	008561	श्री सिंघी हरीश चन्द्र	अजमेर	22/06/2011
8.	009176	श्री गुप्ता वीरेन्द्र कुमार	कानपुर	13/01/2011
9.	009784	श्री गुप्ता रामानंद	मोदीनगर	22/05/2011
10.	010452	श्री तायल सुरेन्द्र कुमार	मोदीनगर	31/10/2011
11.	010515	श्री भंडारी रमेश चंद	जयपुर	19/07/2011
12.	010944	श्री गोयल राम अवतार	गाजियाबाद	01/01/2012
13.	010988	श्री मेहता चैन राज	जयपुर	18/08/2011
14.	012646	श्री पांडे राम किशोर	लखनऊ	30/03/2011

क्रम सं०	सदस्य संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम	हटाए जाने की तारीख
15.	013936	श्री त्रिवेदी वीरेन्द्र कुमार	पटना	21/05/2011
16.	015268	श्री अग्रवाल सागर मल	जमशेदपुर	30/05/2011
17.	054512	श्री मोहम्मद जुनैद इकबाल	रांची	24/04/2011
18.	071860	श्री राम मोहन	शाहजहांपुर	09/04/2011
19.	072040	श्री पटवा महेन्द्र	उज्जैन	05/02/2012
20.	072264	श्री शर्मा अशोक कुमार	जगदलपुर	31/10/2011
21.	073908	श्री केला परमानंद	रायपुर	29/11/2009
22.	074306	श्री कोडवानी सुरेश	भीलवाड़ा	11/07/2011
23.	076586	श्री सोमानी जीतेन्द्र	जयपुर	22/01/2012
24.	081933	श्री हंसराज	गाजियाबाद	02/12/2011
25.	095138	श्री गोयल राजीव	इलाहाबाद	06/02/2012
26.	107487	श्री गुप्ता राधाकृष्णा	खारगौन	11/09/2011
27.	400453	श्री पवन कुमार साहनी	गाजियाबाद	02/02/2012
28.	413681	श्री निकुंज मंत्री	कानपुर	12/02/2012
29.	507512	श्री विकास जैन	फिरोजाबाद	07/04/2011

(टी. कार्तिकेयन)  
सचिव

3सीसीए(5)(1)/2011-2012 : संस्थान की अधिसूचना सं. 3सीसीए(4)(1)/1999-2000, तारीख 12 जनवरी, 2000, 3सीसीए(4)(1)/2001-2002, तारीख 2 नवंबर, 2001, 3सीसीए(4)(1)/2003-2004, तारीख 10 फरवरी, 2004, 3सीसीए(4)(1)/2004-2005, तारीख 27 नवंबर, 2004, 3सीसीए(4)(1)/2005-2006, तारीख 7 नवंबर, 2005, 3सीसीए(4)(1)/2006-2007, तारीख 16 अक्टूबर, 2006, 3सीसीए(4)(1)/2007-2008, तारीख 30 अक्टूबर, 2007, 3सीसीए(4)(1)/2008-2009, तारीख 15 अप्रैल, 2009, 3सीसीए(4)(1)/2009-2010, तारीख 28 अप्रैल, 2010, 3सीसीए(4)(1)/2010-2011, तारीख 27 दिसंबर, 2010, 3सीसीए(4)(1)/2011-2012, तारीख 27 अप्रैल, 2012 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को उनके नामों के सामने दर्शित तारीखों से रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर लिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम	रद्द करने की तारीख
1.	006638	सीए केदार मणि एफसीए	सिवान	01/04/2011

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम	रद्द करने की तारीख
2.	041836	सीए माइकल विन्सेंट मासकरेनस एफसीए	अजमेर	28/04/2011

3.	050470	सीए कृष्णन कावससेरी वेंकटा सुब्रामणि एसीए	चैन्नई	26/12/2011	24.	072769	सीए लोढा सुधीर एसीए	जयपुर	29/08/2011
4.	051344	सीए राय श्याम सुंदर एसीए	कोलकाता	14/11/2011	25.	072772	सीए जैन विनोद एफसीए	जामनगर	25/07/2011
5.	051994	सीए मो. खलीकीजामन एसीए	सिंगरौली	23/09/2011	26.	072819	सीए सबरवाल सुदीप एफसीए	लखनऊ	10/05/2011
6.	053259	सीए शगुन बगई एसीए	गुडगांव	19/08/2011	27.	073021	सीए बनर्जी प्रवीर कुमार एसीए	नवी मुंबई	14/12/2011
7.	053506	सीए झा अरविन्द कुमार एसीए	धनबाद	18/05/2011	28.	073440	सीए ठक्कर जुगल चन्द्रकांत एफसीए	चन्द्रपुर	18/05/2011
8.	057939	सीए बाल प्रदीप कुमार एफसीए	जमशेदपुर	10/10/2011	29.	073683	सीए गुप्ता राम गोपाल एफसीए	जयपुर	20/09/2011
9.	058830	सीए बंधोपाध्याय सोमनाथ एसीए	हल्दिया	24/11/2011	30.	073714	सीए शर्मा विवेक एसीए	आगरा	16/06/2011
10.	059802	सीए चतुर्वेदी विवेक एफसीए	लखनऊ	05/04/2011	31.	073749	सीए मनोज कुमार गुप्ता एफसीए	मेरठ	11/11/2011
11.	060167	सीए चितलंगिया सचिन एसीए	रांची	11/04/2011	32.	074104	सीए गेहानी रवि एफसीए	मुंबई	08/07/2011
12.	060626	सीए गोलचा मनीष कुमार एसीए	फोरबिस गंज	03/10/2011	33.	074228	सीए भंडारी कृष्णा एफसीए	जोधपुर	05/09/2011
13.	062688	सीए आशिष कुमार एसीए	मुंबई	23/05/2011	34.	074438	सीए लाल एबेनेजर सर्वानंद एफसीए	मसूरी	09/01/2012
14.	064461	सीए आशिष कुमार एसीए	बंगलौर	04/09/2010	35.	074734	सीए शारदा योगेश एसीए	जोधपुर	13/12/2011
15.	070240	सीए बतश उमेश एफसीए	कानपुर	18/08/2011	36.	074964	सीए ब्रिज मोहन सिंह एफसीए	कानपुर	23/09/2011
16.	070367	सीए अरविन्द कुमार एसीए	लखनऊ	28/12/2011	37.	075224	सीए मेहता संदीप एसीए	जोधपुर	20/09/2011
17.	070497	सीए रवि कुमार निगम एसीए	लखनऊ	14/06/2011	38.	075725	सीए अजमेरा नवीन एफसीए	भीलवाड़ा	13/12/2011
18.	071648	सीए जैन परवीन कुमार एफसीए	जयपुर	28/09/2011	39.	075740	सीए तिवारी रामेश्वर नाथ एसीए	धनबाद	09/05/2011
19.	071651	सीए सचदेवा सुनील कुमार एफसीए	ग्रेटर नोयडा	30/05/2011	40.	076169	सीए गुप्ता राजीव कुमार एसीए	गाजियाबाद	17/01/2012
20.	072251	सीए भट्टी अरविन्द कुमार एफसीए	जोधपुर	11/07/2011	41.	076189	सीए शुक्ला शेखर एफसीए	जयपुर	04/06/2011
21.	072360	सीए प्रसून कुमार भट्टाचार्य एफसीए	भाटपारा	03/10/2011	42.	076380	सीए जैसवाल रीना एफसीए	भिलाई	12/09/2011
22.	072370	सीए बैराथी दिनेश एसीए	जयपुर	13/04/2011	43.	076501	सीए मसंद अजय एफसीए	बंगलौर	12/10/2011
23.	072391	सीए श्रीवास्तव राजेश एफसीए	नोएडा	06/04/2011	44.	077136	सीए सिंघवी शुचि एफसीए	जयपुर	25/04/2011
					45.	077659	सीए रजोरा चंचल सिंह एफसीए	हैदराबाद	14/07/2011



46.	078248	सीए कपूर आलोक एफसीए	मेरठ	14/12/2011	68.	107934	सीए शर्मा शैलेन्द्र एसीए	उदयपुर	23/05/2011
47.	078444	सीए चौधरी सुमित एसीए	मुंबई	17/02/2012	69.	121292	सीए यशपाल कमलाप्रसाद अग्रवाल एसीए	भीलवाड़ा	30/09/2011
48.	078698	सीए जैन संदीप कुमार एफसीए	इंदौर	20/10/2011	70.	125458	सीए दीपक कुमार मिह्ता एसीए	श्रीगंगानगर	24/08/2011
49.	078706	सीए कासलीवाल ललित कुमार एसीए	मुंबई	04/10/2011	71.	125499	सीए राजन मुन्ना एसीए	अहमदाबाद	03/07/2011
50.	078974	सीए अहमद करीम एसीए	इलाहाबाद	28/11/2011	72.	400049	सीए जैन संजय प्रकाश एसीए	एटा	28/11/2011
51.	079088	सीए दत्त गौरव एसीए	जबलपुर	19/09/2011	73.	400142	सीए सुनील कुमार इनानी एफसीए	चित्तौड़गढ़	28/10/2011
52.	079212	सीए भट्टी सुनील कुमार एफसीए	भोपाल	29/09/2011	74.	400171	सीए वार्ण्य पराग एसीए	करनाल	15/06/2011
53.	079287	सीए ठाकुर विवेक एसीए	पुणे	23/12/2011	75.	400554	सीए मेहन्दीरता श्रेय एसीए	फरीदाबाद	03/10/2011
54.	079353	सीए मोहम्मद यूनुस एसीए	पालीमर वार	26/05/2011	76.	400586	सीए मालपानी विकास एसीए	मुंबई	21/12/2011
55.	080365	सीए महेश्वरी दीपक कुमार एफसीए	झांसी	14/09/2011	77.	400660	सीए मुन्ना योगेश एसीए	जोधपुर	05/09/2011
56.	080986	सीए राजीव कुमार अग्रवाल एसीए	हरिद्वार	28/12/2011	78.	400670	सीए आफताब गुल अट्टारी एसीए	उदयपुर	28/09/2011
57.	082720	सीए अशोक कुमार एसीए	इंदिरापुरम	21/06/2011	79.	400858	सीए शर्मा गौतम एसीए	पुणे	30/11/2011
58.	087178	सीए पालीवाल अनिल एफसीए	कोटा	25/10/2011	80.	401518	सीए पिकी दीवान एफसीए	बंगलौर	07/07/2011
59.	089836	सीए मनोज कुमार एफसीए	हापुड	08/11/2011	81.	401536	सीए अग्रवाल हेमंत एसीए	बिजाई नगर	13/04/2011
60.	092200	सीए गुप्ता संजय कुमार एसीए	हरिद्वार	30/06/2010	82.	402025	सीए सिंह अभिलाश एसीए	वाराणसी	20/09/2011
61.	093434	सीए संजय कुमार एफसीए	औरैया	18/11/2011	83.	402111	सीए सलूजा रितु एसीए	गुडगांव	06/06/2011
62.	093565	सीए पंकज मोहन गुप्ता एसीए	गुडगांव	20/05/2011	84.	402112	सीए उपाध्याय मयंक एसीए	गुडगांव	06/06/2011
63.	095538	सीए मेहता अरविन्द एफसीए	गुडगांव	28/12/2011	85.	402230	सीए सरीपल्ली अरुण एसीए	मुंबई	14/12/2011
64.	096351	सीए रमन कुमार एसीए	नई दिल्ली	05/07/2011	86.	402242	सीए अग्रवाल सुनयना एसीए	बयावर	28/11/2011
65.	097265	सीए गोयल असीम एसीए	गाजियाबाद	01/04/2011	87.	402956	सीए विजय मुकेश एसीए	जयपुर	02/09/2011
66.	098144	सीए दुबे अमित कुमार एसीए	लखनऊ	30/09/2011	88.	403083	सीए बडजात्या सुरेन्द्र एसीए	इंदौर	10/08/2011
67.	099593	सीए जय प्रकाश नारायण एसीए	चन्देर नगर	02/01/2012	89.	403267	सीए गर्ग गौरव एसीए	दिल्ली	23/12/2011
					90.	403622	सीए सक्सेना आशिष कुमार एसीए	नोएडा	09/06/2011

91.	404103	सीए गोयल मेघना एसीए	गोड्डा	11/07/2011	115.	407288	सीए आलोक दधीच एसीए	जयपुर	19/05/2011
92.	404217	सीए जैन विजेन्द्र कुमार एसीए	देई	27/06/2011	116.	407309	सीए अनुज गोयल एसीए	साहिबाबाद	05/09/2011
93.	404584	सीए अमित एसीए	रेवाड़ी	21/11/2011	117.	407323	सीए पंकज कुमार एस रंका एसीए	कानौर	06/07/2011
94.	404809	सीए अनेजा मोहित एसीए	गाजियाबाद	30/01/2012	118.	407352	सीए हर्ष गोपाल महेश्वरी एसीए	उपरवाही	27/12/2011
95.	404819	सीए पंत अमित एसीए	गुडगांव	19/08/2011	119.	407525	सीए विपिन कुमार शर्मा एसीए	साहिबाबाद	05/09/2011
96.	405013	सीए जैन सौरभ एसीए	मुंबई	23/09/2011	120.	407823	सीए सैदुला एसीए	रांची	19/09/2011
97.	405033	सीए मलक मुसतान्सिर एसीए	इंदौर	09/06/2011	121.	407825	सीए मनीष कुमार एसीए	जमशेदपुर	19/09/2011
98.	405094	सीए माहना अमन एसीए	मुंबई	09/05/2011	122.	407974	सीए नितिन जैन एसीए	भीलवाड़ा	13/05/2011
99.	405547	सीए अमित पारिख एसीए	बंगलौर	05/04/2011	123.	408260	सीए अनुराग सिंह एसीए	लखनऊ	02/06/2011
100.	405562	सीए सुभल गर्ग एसीए	वैशाली (उ.प्र.)	16/08/2011	124.	408316	सीए संजीव अग्रवाल एसीए	नई दिल्ली	06/06/2011
101.	405579	सीए सचिन खंडेलवाल एसीए	नागदा	06/05/2011	125.	408353	सीए गौरव मोदी एसीए	जयपुर	08/11/2011
102.	405589	सीए अर्पित बोहरा एसीए	उदयपुर	16/11/2011	126.	408417	सीए ललित मेरतिया एसीए	मुंबई	06/06/2011
103.	405663	सीए लक्ष्मीकांत उपाध्याय एसीए	जयपुर	30/12/2011	127.	408460	सीए राज कुमार पुरस्वानी एसीए	मुंबई	23/05/2011
104.	406033	सीए ऋषि कांत झा एसीए	बंगलौर	17/10/2011	128.	408567	सीए कृष्ण मुरारी अग्रवाल एसीए	जयपुर	30/04/2011
105.	406148	सीए पूजा मैत्रिय एसीए	जयपुर	15/09/2011	129.	408811	सीए शमा कपिल अग्रवाल एसीए	जयपुर	22/12/2011
106.	406204	सीए मनीष मित्तल एसीए	मुंबई	26/09/2011	130.	408991	सीए अमित कुमार कौतिया एसीए	जमशेदपुर	18/08/2011
107.	406255	सीए अनुराग महेश्वरी एसीए	सिहोर	23/05/2011	131.	409059	सीए नीरज सुरेश बकलीवाल एसीए	दुर्ग	29/12/2011
108.	406269	सीए विवेक अग्रवाल एसीए	बंगलौर	20/12/2011	132.	409080	सीए विशाल शर्मा एसीए	हाथरस	04/05/2011
109.	406394	सीए मोनिका ठाकुर एसीए	जोधपुर	26/08/2011	133.	409245	सीए गौतम वासवानी एसीए	जोधपुर	04/01/2012
110.	406464	सीए विपुल तपरिया एसीए	जामनगर	17/10/2011	134.	409485	सीए रवि खरबंदा एसीए	गाजियाबाद	21/07/2011
111.	406639	सीए दीपक गोयल एसीए	नई दिल्ली	13/05/2011	135.	409597	सीए पुनीत गुप्ता एसीए	गुडगांव	14/07/2011
112.	406812	सीए गौरव पी अग्रवाल एसीए	मुंबई	23/08/2011					
113.	406897	सीए रामजी ठाकुर एसीए	जयपुर	08/08/2011					
114.	407103	सीए नरेश जैन एसीए	आगरा	20/09/2011					

136.	410209	सीए साजल गोयल एसीए	सिकंदराबाद	16/06/2011
137.	410756	सीए शिल्पी प्रियंक अग्रवाल एसीए	हापुड़	01/09/2011
138.	410880	सीए निशिता करनानी एसीए	जयपुर	22/12/2011
139.	411447	सीए मधुसूदन मुन्ना एसीए	सुरतगढ़	01/09/2011
140.	500326	सीए पंडित संदीप कुमार एसीए	नोएडा	11/05/2011
141.	500569	सीए आनंद पंकज एसीए	नई दिल्ली	09/11/2011
142.	501913	सीए सिंह हरी एसीए	नोएडा	25/10/2011
143.	502276	सीए देवेन्द्र सिंह एसीए	बिजनौर	19/07/2011
144.	502804	सीए अहमद इमरान एसीए	मोतिहारी	10/03/2011

145.	505411	सीए अग्रवाल अनूप कुमार एसीए	पटना	23/06/2011
146.	505568	सीए बलानी सुरेश एसीए	जोधपुर	25/07/2011
147.	505623	सीए अग्रवाल रोहित एसीए	दिल्ली	25/08/2011
148.	509337	सीए शरद सक्सेना एसीए	नोएडा	05/01/2012
149.	509514	सीए आशिष मोहता एसीए	बीकानेर	03/10/2011
150.	510872	सीए मंजरी अग्रवाल एसीए	झांसी	28/11/2011
151.	512854	सीए शुची संगल एसीए	गुडगांव	14/12/2011
152.	515157	सीए संजना सूद एसीए	नई दिल्ली	07/07/2011

(टी. कार्तिकेयन)  
सचिव

3सीसीए(5)(2)/2011-2012 : संस्थान की अधिसूचना सं. 3सीसीए(4)(1)/2011-2012, तारीख 20 जून, 2012 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को भूतलक्षी प्रभाव से तारीख 1 अक्टूबर, 2011 से रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर लिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम		शहर का नाम
1.	002887	सीए डी बी नागपाल	एफसीए	गाजियाबाद
2.	013332	सीए गौड़ शिवराज सिंह	एसीए	कोटा
3.	14101	सीए के एम लालवानी	एफसीए	रायपुर
4.	014123	सीए बियानी वल्लभ प्रसाद	एफसीए	नवी मुंबई
5.	014652	सीए घोरुई कनाई लाल	एसीए	नोएडा
6.	014801	सीए गुप्ता श्री प्रकाश	एफसीए	मेरठ
7.	016572	सीए जगदीश मल लोढा	एफसीए	जोधपुर
8.	016988	सीए सहगल मोहित कुमार	एफसीए	नई दिल्ली
9.	018558	सी कुरुविला कुरियाकोसे	एफसीए	नोएडा
10.	018574	सीए धवन प्रमोद कुमार	एफसीए	शिकोहाबाद
11.	020885	सीए कृष्णन एच	एफसीए	बिलासपुर (छत्तीसगढ़)
12.	021475	सीए सुब्रमनियन पी आर	एफसीए	नोएडा
13.	026413	सीए वर्मा असीम	एफसीए	इलाहाबाद
14.	032190	सी मोमाया सुभाष चन्द्र मणिलाल	एसीए	नोएडा

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम		शहर का नाम
15.	036189	सीए मुलानी गोपाल हरीचन्द्र	एफसीए	मुंबई
16.	036217	सीए साबु बजरंग कुमार	एसीए	कोटा
17.	040312	सीए सलीम मेयाजी	एसीए	उदयपुर
18.	043050	सीए जैन राजेश	एफसीए	भीलवाड़ा
19.	043117	सीए सोमानी संजय कुमार	एसीए	रामगढ़
20.	045354	सीए सोनी आनंद कुमार	एसीए	जयपुर
21.	046878	सीए सिधवी संदीप	एसीए	जोधपुर
22.	047366	सीए मृदुला मालपानी	एफसीए	टोंक
23.	049251	सीए रूंगटा जगदीश	एसीए	देवरिया
24.	051387	सीए झांवर कैलाश चन्द्र	एफसीए	नागदा
25.	055541	सीए जलान संदीप कुमार	एफसीए	वाराणसी
26.	056553	सीए घोष सुजीवन	एसीए	साहिबाबाद
27.	056898	सीए अग्रवाल मनोज कुमार	एफसीए	रायगढ़
28.	057305	सीए पारिख नितिन	एफसीए	इंदौर

29.	058085	सीए चौधरी बिकाश	एफसीए	पटना
30.	058380	सीए मनीष कुमार	एसीए	मुजफ्फरपुर
31.	060226	सीए अजय कुमार शाह	एसीए	नोएडा
32.	060364	सीए सिंह जया	एसीए	लखनऊ
33.	060790	सीए राठी राकेश	एसीए	नई दिल्ली
34.	061213	सीए प्रशांत दोकानिया	एफसीए	पटना
35.	061312	सीए तुलसियान विकास कुमार	एफसीए	धनबाद
36.	061903	सीए बोथरा सुशील कुमार	एफसीए	कोलकाता
37.	062804	सीए अग्रवाल मनोज कुमार	एसीए	पटना
38.	062993	सीए अग्रवाल आभा	एफसीए	चिरकुंडा
39.	063355	सीए अतुल कुमार	एसीए	भोपाल
40.	063391	सीए बियानी नितिन	एसीए	कोलकाता
41.	063882	सीए बाजपेयी मनीष कुमार	एसीए	भोपाल
42.	065052	सीए बिनोद कुमार	एसीए	हावड़ा
43.	065278	सीए सीमा तिवारी	एसीए	कोलकाता
44.	066971	सीए नंद लाल प्रसाद	एसीए	पटना
45.	067551	सीए रवि भूषण सिंह	एसीए	नवी मुंबई
46.	068345	सीए सत्य प्रकाश	एसीए	मोतिहारी
47.	069264	सीए बिकास पटवारी	एसीए	दुमका
48.	070173	सीए नीरज कुमार	एफसीए	मुजफ्फरनगर
49.	070478	सीए सिंह अशोक कुमार	एफसीए	रांची
50.	070489	सीए गुप्ता सुशील कुमार	एफसीए	कानपुर
51.	070524	सीए हर्ष मोहन	एफसीए	कानपुर

52.	070770	सीए अग्रवाल गोपाल	एफसीए	इंदौर
53.	070792	सीए गुप्ता मुकट बिहारी	एफसीए	अलवर
54.	070859	सीए सिंह सेवेन्द्र बहादुर	एफसीए	कानपुर
55.	071003	सीए आर्या महेश चंद	एफसीए	भरतपुर
56.	071343	सीए गर्ग शैलेन्द्र नाथ	एफसीए	हापुड
57.	071566	सीए पवन कुमार	एफसीए	देहरादून
58.	072142	सीए खेमका बिनोद कुमार	एसीए	इंदौर
59.	072175	सीए माथुर विनय नारायण	एसीए	जयपुर
60.	072242	सीए हर्ष मोहन सिंह दुआ	एफसीए	लखनऊ
61.	072402	सीए श्रीवास्तव त्रिजेश कुमार	एफसीए	इंदौर
62.	072438	सीए महेश्वरी श्याम	एफसीए	मुरैना
63.	072468	सीए महेश्वरी कुमोद कुमार	एफसीए	मोदीनगर
64.	072600	सीए अग्रवाल किशोर कुमार	एफसीए	मथुरा
65.	072656	सीए महाजन जगदीश चन्द्र	एफसीए	खारगौन
66.	072727	सीए अग्रवाल अशोक कुमार	एफसीए	गोरखपुर
67.	072748	सीए मठानी गोपीचंद	एफसीए	रायपुर
68.	072927	सीए सिंघवी वीरेन्द्र	एफसीए	जोधपुर
69.	073012	सीए रविन्द्र सिंह सिंघवी	एफसीए	वदोदा
70.	073067	सीए जैन सौरभ	एफसीए	नोएडा
71.	073072	सीए अग्रवाल संजीव	एफसीए	दिल्ली
72.	073114	सीए मित्तल अतुल	एफसीए	लखनऊ
73.	073209	सीए नेनावती महेन्द्र सिंह	एफसीए	जयपुर

74.	073281	सीए भार्गव श्याम नारायण	एफसीए	अलवर	96.	075865	सीए केडिया आलोक	एफसीए	रांची
75.	073468	सीए गुप्ता शिरीश कुमार	एफसीए	गोरखपुर	97.	075934	सीए कालिका प्रसाद	एफसीए	आगरा
76.	073579	सीए विजय पाल सिंह	एसीए	मेरठ	98.	076002	सीए गुप्ता अजय कुमार	एफसीए	उन्नाव
77.	073615	सीए राम किशोर महेश्वरी	एफसीए	बयावर	99.	076137	सीए खंडेलवाल अश्वनी कुमार	एफसीए	मथुरा
78.	073628	सीए अरोड़ा सुनील कुमार	एफसीए	मेरठ	100.	076205	सीए भगत गिरजेश कुमार	एफसीए	कानपुर
79.	073864	सीए श्रिनी अभय प्रकाश	एसीए	अलवर	101.	076267	सीए गुप्ता अतुल	एफसीए	देहरादून
80.	73910	सीए गुप्ता राजुमल	एसीए	लुधियाना	102.	076446	सीए पुनिया रघुवीर सिंह	एफसीए	जयपुर
81.	073912	सीए चोपड़ा ललित कुमार	एफसीए	रायपुर	103.	076553	सीए अग्रवाल मनोज	एफसीए	जयपुर
82.	073942	सीए खंडेलवाल विवेक	एसीए	जयपुर	104.	076632	सीए अरोड़ा शिव कुमार	एफसीए	रुद्रपुर
83.	074086	सीए कपूर मनीष	एसीए	वाराणसी	105.	076643	सीए मित्तल नितिन	एफसीए	गाजियाबाद
84.	074145	सीए व्यास मुकेश कुमार	एफसीए	जोधपुर	106.	076649	सीए सुनील कुमार	एसीए	चित्तौड़गढ़
85.	074288	सीए मित्तल राजेश	एफसीए	भोपाल	107.	076674	सीए सक्सेना रीतू	एफसीए	कानपुर
86.	074342	सीए सुरेन्द्र कुमार	एफसीए	धनबाद	108.	076696	सीए प्रगीत कुंवर	एफसीए	गाजियाबाद
87.	074388	सीए भोमेश्वर	एसीए	जयपुर	109.	076851	सीए जैन प्रवल	एसीए	देहरादून
88.	074459	सीए मिश्रा जयंत	एफसीए	भोपाल	110.	076869	सीए सिंह अजय कुमार	एफसीए	कोरबा
89.	074865	सीए अग्रवाल विकास कुमार	एफसीए	सहारनपुर	111.	076914	सीए गुप्ता संजय	एफसीए	कोटा
90.	075313	सीए गुप्ता प्रमोद कुमार	एफसीए	रावत भाटा	112.	077104	सीए चावला रिमपाल	एसीए	भोपाल
91.	075361	सीए खन्ना मुकेश	एफसीए	मेरठ	113.	077172	सीए राठी प्रशांत	एफसीए	ग्वालियर
92.	075426	सीए अनुपम कृष्णा	एफसीए	लखनऊ	114.	077193	सीए विकास यादव	एफसीए	वसुंधरा
93.	075535	सीए अग्रवाल तरुण	एफसीए	जयपुर	115.	077327	सीए जैन संजीव कुमार	एसीए	दुर्ग
94.	075672	सीए अग्रवाल कमल कुमार	एफसीए	ग्वालियर	116.	077418	सीए अग्रवाल अनूप	एसीए	बिजयनगर
95.	075689	सीए राजीव शर्मा	एफसीए	जयपुर	117.	077420	सीए गुप्ता दिनेश कुमार	एफसीए	जयपुर

118.	077520	सीए जैन निवेदिता	एफसीए	ग्वालियर
119.	077648	सीए आशिष पुंडीर	एफसीए	जयपुर
120.	077728	सीए मेहता तिरुपत	एसीए	मुंबई
121.	077729	सीए गुप्ता सचिन	एफसीए	जयपुर
122.	077841	सीए मौर्या अजय कुमार	एफसीए	लखनऊ
123.	077927	सीए अमित मोदानी	एसीए	जयपुर
124.	078329	सीए जैन योगेश	एफसीए	जोधपुर
125.	078368	सीए तुलसियानी अशोक कुमार	एफसीए	जयपुर
126.	078396	सी वरयानी संगीता	एफसीए	अजमेर
127.	078416	सी पोरवाल राकेश	एफसीए	उदयपुर
128.	078483	सीए शर्मा हरि नारायण	एफसीए	जयपुर
129.	078551	सीए मंत्री राकेश	एफसीए	मेरठ सिटी
130.	078596	सीए अग्रवाल राजेन्द्र	एफसीए	जयपुर
131.	078612	सीए अग्रवाल विनीत	एसीए	गुडगांव
132.	078641	सीए झांवर सुरेश कुमार	एफसीए	नोएडा
133.	078952	सीए जैसवाल मुकुल	एफसीए	वाराणसी
134.	078957	सीए बलिया विकास	एसीए	जोधपुर
135.	078973	सीए प्रशांत न्याती	एफसीए	उदयपुर
136.	079029	सीए सिंघाई मोनिका	एसीए	जबलपुर
137.	079230	सीए अग्रवाल ज्ञानेन्द्र कुमार	एसीए	आगरा
138.	079380	सीए विश्णोई विभोर	एसीए	नोएडा
139.	079433	सीए सचिन त्यागी	एफसीए	मेरठ

140.	079492	सीए कसलीवाल आलोक	एसीए	जयपुर
141.	079508	सीए लैंगर पारुल	एसीए	जयपुर
142.	079513	सीए मिश्रा शरद	एसीए	उदयपुर
143.	079686	सीए मेहता संजय	एसीए	जयपुर
144.	079841	सीए आशिष अस्थाना	एफसीए	लखनऊ
145.	079906	सीए वासवानी जीतेन्द्र कुमार	एसीए	रुद्रपुर
146.	079930	सीए राजेश बिहारी श्रीवास्तव	एफसीए	जगदलपुर
147.	079993	सीए गरोदिया विजय कुमार	एसीए	वाराणसी
148.	080646	सीए बंसल प्रवीन कुमार	एफसीए	पणजी गोवा
149.	081426	सीए कौशिक महावीर प्रसाद	एफसीए	नोएडा
150.	081626	सीए धर्मेन्द्र भंडारी	एफसीए	जयपुर
151.	081886	सीए अग्रवाल हरीश	एफसीए	गाजियाबाद
152.	082577	सीए राजेश कुमार	एफसीए	कानपुर
153.	082584	सीए जैन राकेश कुमार	एफसीए	भिवाड़ी
154.	083669	सीए राय औदिला	एसीए	नोएडा
155.	084007	सीए गोपालकृष्णन मदन मोहन	एफसीए	जगध्यापेठ
156.	086610	सीए बाजपेयी तुमुल	एसीए	ग्रेटर नोएडा
157.	087398	सीए हीतेन्द्र पाल सिंह	एफसीए	नई दिल्ली
158.	088234	सीए लाढ़ा राजेश	एफसीए	किशनगढ़
159.	088551	सीए शर्मा अशोक दीप	एफसीए	मोदी नगर
160.	088665	सीए अग्रवाल प्रवीन कुमार	एफसीए	झांसी

161.	089302	सीए भारत भूषण	एफसीए	रायसिंह नगर
162.	089698	सीए मोहम्मद नजीम	एफसीए	खुर्जा
163.	090402	सीए शर्मा राजीव	एफसीए	गाजियाबाद
164.	090477	सीए खुराना मधु	एफसीए	लखनऊ
165.	090751	सीए बंका विनोद कुमार	एफसीए	खुशी नगर
166.	091638	सीए मित्तल माहीम	एफसीए	नोएडा
167.	092483	सीए गोयल राजीव	एसीए	नोएडा
168.	093122	सीए जैन वर्धमान	एफसीए	नोएडा
169.	094509	सीए बी मृदुला वानी	एफसीए	साहिबाबाद
170.	094872	सीए संजीव कुमार गुप्ता	एफसीए	भोपाल
171.	094908	सीए अरोड़ा महेश कुमार	एफसीए	नोएडा
172.	095064	सीए बयाहुत अजोय कुमार	एसीए	सिहोर
173.	095183	सीए सिंघानिया अमिताभ	एसीए	कानपुर
174.	095242	सीए अग्रवाल सुनील	एसीए	इंदिरापुरम
175.	095437	सीए वर्मा प्रदीप कुमार	एफसीए	नई दिल्ली
176.	095479	सीए अग्रवाल मयंक	एसीए	इंदिरापुरम
177.	095688	सीए माथुर सौरभ	एसीए	जयपुर
178.	095791	सीए अग्रवाल आशिष	एसीए	नोएडा
179.	096560	सीए गुप्ता सुभाष चन्द्र	एफसीए	साहिबाबाद
180.	096726	सीए महेश्वरी विपुल कुमार	एफसीए	कासगंज
181.	096841	सीए विकास चन्द्र	एफसीए	हजारीबाग
182.	097014	सीए कथुरिया राजीव	एफसीए	नोएडा

183.	98009	सीए सिन्हा राय संचिता	एसीए	नई दिल्ली
184.	098150	सीए पात्रो तनुज	एसीए	गुडगांव
185.	098185	सीए गर्ग प्रदीप कुमार	एफसीए	खुर्जा
186.	098363	सीए अनवानी नारायण	एसीए	नोएडा
187.	098411	सीए चावला समीर	एसीए	नोएडा
188.	099032	सीए मून प्रवीन	एसीए	नोएडा
189.	099752	सीए गुप्ता संजीव कुमार	एसीए	गाजियाबाद
190.	103898	सीए आशुतोष परसरामपुरिया	एसीए	इंदौर
191.	104850	सीए कोठारी आलोक कुमार	एफसीए	जयपुर
192.	105266	सीए पिती विनोद कुमार	एसीए	जोधपुर
193.	105668	सीए वीरवानी आकाश हरिराम	एसीए	भिलाई
194.	106614	सीए राठी बरखा मनीष	एफसीए	रायपुर
195.	109290	सीए मनोज अग्रवाल	एफसीए	जयपुर
196.	109770	सीए रजनीश सुवालका	एफसीए	भीलवाड़ा
197.	113591	सीए अरुण कुमार सिंह	एफसीए	जमशेदपुर
198.	119036	सीए नेहा अशोक अरोड़ा	एसीए	मुंबई
199.	119422	सीए कंचन विपिन मल्होत्रा	एसीए	नागपुर
200.	121076	सीए अभिषेक सिंह	एसीए	रीवा
201.	122949	सीए उदय चन्द्रकांत चौरसिया	एफसीए	शहडोल
202.	123396	सीए अमित मुन्द्रा	एसीए	उज्जैन
203.	127057	सीए विनीत कुमार जलान	एसीए	हरिद्वार
204.	127299	सीए सुविधा नरोत्तम पारिख	एसीए	जयपुर



205.	128092	सीए मुर्तजा अली मोती	एसीए	उदयपुर
206.	130136	सीए सपना प्रतीक गोलचा	एसीए	रायपुर
207.	132642	सीए रोहित सुनील गांधी	एसीए	प्रतापगढ़
208.	134450	सीए चन्द्रशेखर परमेश्वर साह	एसीए	मुंबई
209.	137555	सीए मयंक अग्रवाल	एसीए	सागर
210.	139891	सीए नवनीत कुमार सोनी	एसीए	जोधपुर
211.	203787	सीए विधि मनिहार	एफसीए	जयपुर
212.	207257	सीए प्रवीन कुमार टी	एसीए	निजामाबाद
213.	211343	सीए संदीप सुराना	एसीए	जयपुर
214.	214660	सीए विनिता केडिया	एसीए	गुडगांव
215.	223288	सीए अमरेन्द्र कुमार	एसीए	रांची
216.	400020	सीए ईश्वर चंद राय	एफसीए	लखनऊ
217.	400030	सीए सिंघल रुचि	एसीए	आगरा
218.	400070	सीए खन्ना पालुक	एसीए	बंगलौर
219.	400245	सीए पारेख रीतू	एसीए	जयपुर
220.	400270	सीए शर्मा कमल कांत	एसीए	इंदौर
221.	400307	सीए अग्रवाल श्वेता	एसीए	नोएडा
222.	400367	सीए राठी आशिष	एसीए	उज्जैन
223.	400368	सीए राठी मनीष	एसीए	उज्जैन
224.	400427	सीए सैंगर प्रवीन सिंह	एसीए	लखनऊ
225.	400476	सीए गुप्ता वरुण	एसीए	देहरादून
226.	400569	सीए जीतेन्द्र ताडी	एफसीए	जयपुर
227.	400699	सीए शर्मा सुमित	एसीए	इंदौर

228.	400773	सीए अग्रवाल विभूति	एसीए	जयपुर
229.	400800	सीए दारुक मनीषा	एसीए	मुंबई
230.	400889	सीए मिश्रा अनुराग	एसीए	नई दिल्ली
231.	400898	सीए खत्री समीर	एसीए	कानपुर
232.	400994	सीए मुबीन खान	एफसीए	जबलपुर
233.	401023	सीए अत्येश सुराना	एफसीए	उदयपुर
234.	401040	सीए शर्मा धीरज	एसीए	इंदौर
235.	401050	सीए अग्रवाल सौरभ	एसीए	कानपुर
236.	401140	सीए अरोड़ा रोहित	एसीए	गुडगांव
237.	401217	सीए अग्रवाल दुर्गा	एफसीए	बीकानेर
238.	401264	सीए गुप्ता ललित कुमार	एसीए	शाहजहांपुर
239.	401276	सीए स्वामी हेमकांत	एसीए	ग्वालियर
240.	401284	सीए मालपानी भवानी शंकर	एसीए	जयपुर
241.	401336	सीए गुप्ता अमित	एसीए	अहमदाबाद
242.	401487	सीए राठौड़ दुश्यंत सिंह	एसीए	उदयपुर
243.	401512	सीए महेश्वरी राधिका	एसीए	जयपुर
244.	401565	सीए विजय विनोद कुमार	एसीए	जयपुर
245.	401580	सीए गौरव वल्लभ	एसीए	जमशेदपुर
246.	401594	सीए अग्रवाल पारुल	एसीए	गाजियाबाद
247.	401628	सीए चौधरी रवि	एसीए	भागलपुर
248.	401631	सीए लीनिका सिंह	एफसीए	कानपुर
249.	401687	सीए कौशिक शीतेश	एसीए	भोपाल
250.	401709	सीए रस्तोगी नवीन	एसीए	जयपुर

251.	401723	सीए शक्ति सिंह शेखावत	एफसीए	जयपुर
252.	401827	सीए गुप्ता अमित कुमार	एसीए	आगरा
253.	401868	सीए बजाज अभिषेक	एसीए	सहारनपुर
254.	401966	सीए सक्सेना मनमोहन कुमार	एफसीए	चंदौसी
255.	401978	सीए कमलेश कुमार गोयल	एसीए	सीकर
256.	402011	सीए मुकेश कुमार चौधरी	एसीए	जयपुर
257.	402085	सीए श्रीवास्तव सचिन आशा	एसीए	नई दिल्ली
258.	402102	सीए खंडेलवाल शिल्पी	एसीए	अलवर
259.	402171	सीए जोशी आर्ची	एसीए	उदयपुर
260.	402245	सीए बोथरा राजेश	एसीए	बीकानेर
261.	402266	सीए दारुक अमित कुमार	एसीए	भुवनेश्वर
262.	402295	सीए अजीत मुन्द्रा	एफसीए	बयावर
263.	402406	सीए निखिल अग्रवाल	एसीए	इंदौर
264.	402439	सीए गुप्ता शिप्रा	एसीए	जयपुर
265.	402474	सीए मोदी मंजरी	एसीए	रांची
266.	402484	सीए अग्रवाल सुमित	एसीए	जयपुर
267.	402507	सीए शेखावत नरेन्द्र सिंह	एफसीए	जयपुर
268.	402510	सीए सपना तुलसियान	एफसीए	डाल्टनगंज
269.	402546	सीए गोयल श्वेता	एफसीए	नोएडा
270.	402634	सीए महेश्वरी मनीष	एसीए	गुडगांव
271.	402635	सीए मनीष गुप्ता	एसीए	अलवर
272.	402687	सीए गोयल अंजली	एफसीए	भोपाल
273.	402696	सीए गुप्ता मोहित	एसीए	कोटा

274.	402821	सीए जैन गौरव कुमार	एसीए	इंदौर
275.	402866	सीए हबलानी सुशील	एसीए	मुंबई
276.	402978	सीए तिवारी बिपिन	एसीए	नोएडा
277.	403062	सीए खंडेलवाल ऋषि कुमार	एफसीए	जयपुर
278.	403088	सीए गोयल रोहित	एफसीए	गाजियाबाद
279.	403106	सीए अग्रवाल सुनील	एसीए	जयपुर
280.	403148	सीए चन्द्र चंदन	एसीए	जयपुर
281.	403169	सीए सिंह विशाल	एफसीए	रांची
282.	403233	सीए कुशवाहा सुनील कुमार सिंह	एफसीए	इलाहाबाद
283.	403265	सीए शाह नीरा आशिष	एसीए	उज्जैन
284.	403271	सीए जैन नेमी चंद	एसीए	जयपुर
285.	403318	सीए नागपाल अमित	एसीए	गुडगांव
286.	403344	सीए जैन मीतू	एसीए	जयपुर
287.	403380	सीए जैन सुभाष कुमार	एफसीए	जयपुर
288.	403444	सीए यादव दिशा	एसीए	जयपुर
289.	403517	सीए दीपक सीरुवानी	एसीए	ग्वालियर
290.	403536	सीए जैन रुपक	एसीए	गुडगांव
291.	403564	सीए सिरौथिया शरद	एसीए	नोएडा
292.	403576	सीए जैठलिया मुकेश	एसीए	अहमदाबाद
293.	403609	सीए बाजपेयी पदमेश कुमार	एफसीए	कानपुर
294.	403611	सीए वर्मा श्वेता	एसीए	लखनऊ
295.	403656	सीए चौबे सतीश	एफसीए	ग्वालियर
296.	403720	सीए इमतियाज शैख	एसीए	भोपाल
297.	403761	सीए कपूर सुमित	एसीए	आगरा

298.	403879	सीए जैन सचिन	एसीए	झांसी
299.	403888	सीए चंदक निर्मल	एसीए	मुंबई
300.	404057	सीए लोढा आशिष	एसीए	मुंबई
301.	404083	सीए रुगंटा राहुल	एसीए	उदयपुर
302.	404140	सीए अजीत कुमार	एसीए	पटना
303.	404204	सीए खुटेटा सुरभि	एसीए	नई दिल्ली
304.	404212	सीए सिद्धिकी अकरम वासिम	एफसीए	रायपुर
305.	404311	सीए प्रियंका सिंघल	एफसीए	जयपुर
306.	404318	सीए खंडेलवाल शिवा	एसीए	जयपुर
307.	404397	सीए बंसल अनिल	एफसीए	उदयपुर
308.	404428	सीए जैन वैशाली	एफसीए	भोपाल
309.	404562	सीए अग्रवाल अनिरुद्ध	एसीए	जयपुर
310.	404586	सीए जैन नितिन सज्जन	एसीए	उदयपुर
311.	404587	सीए जैन राहुल हीरालाल	एसीए	बांसवाडा
312.	404614	सीए गुलाटी सुमित	एसीए	चेन्नई
313.	404705	सीए जोशी हेमंत	एसीए	जयपुर
314.	404763	सीए अजमेरा सचिन	एसीए	जयपुर
315.	404852	सीए दानी प्रियंका	एसीए	जयपुर
316.	404862	सीए नाहर प्रणय महेन्द्र	एसीए	मुंबई
317.	404964	सीए अग्रवाल अजय	एसीए	अजमेर
318.	404989	सीए प्रियेश मंदोवारा	एसीए	इंदौर
319.	405130	सीए खान शारिक	एफसीए	जयपुर

320.	405138	सीए अग्रवाल विजेता	एसीए	जयपुर
321.	405283	सीए डांगयाच गिरीश	एसीए	जयपुर
322.	405369	सीए दिनेश कुमार वर्मा	एफसीए	भोपाल
323.	405390	सीए नेहा वेद	एसीए	भोपाल
324.	405499	सीए प्रवीन कुमार जैन	एसीए	इंदौर
325.	405518	सीए आयुशी सिंह	एसीए	रांची
326.	405545	सीए विवेक गोयल	एसीए	भरतपुर
327.	405549	सीए अंकिता जैन	एसीए	गाजियाबाद
328.	405565	सीए आशिष लोढा	एसीए	जयपुर
329.	405591	सीए आनंद सोनी	एसीए	जोधपुर
330.	405597	सीए दीपक गर्ग	एसीए	श्रीगंगानगर
331.	405615	सीए समरजीत मित्रा	एसीए	रायपुर
332.	405646	सीए कमलेश झालानी	एफसीए	जयपुर
333.	405658	सीए अनुराग शर्मा	एसीए	उदयपुर
334.	405678	सीए राजकुमार राठी	एसीए	मुंबई
335.	405708	सीए राकेश कुमार अग्रवाल	एसीए	रांची
336.	405765	सीए विपिन कुमार श्रीवास्तव	एसीए	चंडीगढ़
337.	405780	सीए वरुण विनय गर्ग	एफसीए	आगरा
338.	405796	सीए निशांत टंडन	एसीए	बरेली
339.	405931	सीए चितिन सपारिया	एसीए	हाथरस
340.	405970	सीए अनुराग कुमार श्रीवास्तव	एसीए	कानपुर
341.	405978	सीए शिखा पांडेय	एसीए	लखनऊ

342.	406021	सीए मनीष गोयल	एसीए	बरेली
343.	406026	सीए भूवन आहूजा	एसीए	आगरा
344.	406068	सीए सचिन अग्रवाल	एसीए	आगरा
345.	406128	सीए पूजा खंडेलवाल	एसीए	जयपुर
346.	406156	सीए शीला परवानी	एसीए	ग्वालियर
347.	406201	सीए विशाल अरोड़ा	एसीए	दिल्ली
348.	406308	सीए सुनील कुमार अग्रवाल	एसीए	जयपुर
349.	406344	सीए कपिल जोशी	एसीए	मुंबई
350.	406371	सीए कपिल शर्मा	एसीए	गाजियाबाद
351.	406392	सीए विजय दशोरे	एसीए	इंदौर
352.	406396	सीए अनुराग त्यागी	एसीए	गाजियाबाद
353.	406411	सीए योगेश कुमार यादव	एसीए	जयपुर
354.	406424	सीए पराग अग्रवाल	एसीए	गुडगांव
355.	406433	सीए दीपक सिंघी	एसीए	नई दिल्ली
356.	406460	सीए पुनीत चावला	एसीए	नोएडा
357.	406543	सीए अर्पिता खंडेलवाल	एसीए	आगरा
358.	406544	सीए मयंक गुप्ता	एसीए	आगरा
359.	406557	सीए साकेत विजयवर्गीय	एसीए	मुंबई
360.	406585	सीए नेहा तुलसियान	एसीए	मुंबई
361.	406609	सीए आशुतोष बागडिया	एसीए	जयपुर
362.	406670	सीए योगेश कुमार अग्रवाल	एसीए	मुंबई
363.	406684	सीए नीता तालेसरा	एसीए	जोधपुर

364.	406736	सीए खुशबू कपूर	एसीए	गुडगांव
365.	406748	सीए संदीप कुमार	एफसीए	गाजियाबाद
366.	406750	सीए सुधा शर्मा	एसीए	गुडगांव
367.	406754	सीए बाल किशन बगला	एसीए	पानीपत
368.	406773	सीए विभोर राजवंशी	एसीए	मेरठ
369.	406797	सीए सिबी जोसफ	एसीए	मुंबई
370.	406806	सीए अशोक कुमार सिंह	एफसीए	इलाहाबाद
371.	406839	सीए भावना गुप्ता	एसीए	अजमेर
372.	406864	सीए गौरव अग्रवाल	एसीए	बहराइच
373.	406898	सीए प्रियंक कुमार जैन	एसीए	इंदौर
374.	406906	सीए इमतिyaj अहमद सिद्दिकी	एसीए	इलाहाबाद
375.	406923	सीए विजेता शर्मा	एसीए	जयपुर
376.	406992	सीए सौरभ महेश्वरी	एसीए	आगरा
377.	407011	सीए अदिती अग्रवाल	एसीए	आगरा
378.	407016	सीए राशि अग्रवाल	एसीए	झांसी
379.	407087	सीए रीना लक्ष्मीरामका	एसीए	मधुपुर
380.	407091	सीए स्वाति तिवारी	एसीए	ग्वालियर
381.	407094	सीए गोरा गोस्वामी	एसीए	रामगढ़
382.	407125	सीए अनुज गुप्ता	एसीए	झांसी
383.	407147	सीए कान सिंह	एसीए	जोधपुर
384.	407243	सीए आशिष गुप्ता	एसीए	अजमेर
385.	407270	सीए गगनधीर सिंह खुराल	एसीए	जबलपुर
386.	407279	सीए अरुण जैन	एसीए	उदयपुर

387.	407287	सीए नितिन जैन	एसीए	मुंबई
388.	407289	सीए आशिष जैन	एसीए	इंदौर
389.	407290	सीए सुमित अग्रवाल	एसीए	बरवानी
390.	407301	सीए मनोज कुमार गुप्ता	एसीए	सतना
391.	407312	सीए वैभव भगत	एसीए	कानपुर
392.	407355	सीए नितिन जलान	एसीए	गोरखपुर
393.	407375	सीए अभिनन्दन केदावत	एसीए	जयपुर
394.	407381	सीए सुजीत कुमार	एसीए	पटना
395.	407400	सीए राशिम मेहता	एसीए	जोधपुर
396.	407404	सीए प्रवीन जैसवाल	एसीए	इंदौर
397.	407490	सीए अंकित पारिख	एसीए	चेन्नई
398.	407522	सीए सरफराज अहमद	एसीए	रांची
399.	407568	सीए मोहित अग्रवाल	एसीए	आगरा
400.	407595	सीए संदीप मिश्रा	एसीए	कानपुर
401.	407618	सीए रश्मि भंसाली	एसीए	जयपुर
402.	407633	सीए विकास जैन	एसीए	जयपुर
403.	407642	सीए सोनल केजरीवाल	एसीए	कानपुर
404.	407647	सीए जय कुमार साहनी	एसीए	बंगलौर
405.	407671	सीए राहुल रस्तोगी	एसीए	लखनऊ
406.	407707	सीए नितिन कुमार गुप्ता	एसीए	आगरा
407.	407710	सीए विरेन्द्र कुमार शर्मा	एसीए	दुंडला
408.	407761	सीए शिवा जैसवाल	एसीए	गुडगांव

409.	407765	सीए हिमांशु नागपाल	एसीए	गुडगांव
410.	408017	सीए कुहू सोनी	एसीए	रायसेन
411.	408059	सीए शिवेन्द्र	एसीए	भिवाड़ी
412.	408128	सीए मनोहर सिंह राठौड़	एसीए	जोधपुर
413.	408177	सीए कुलदीप चौहान	एसीए	इंदौर
414.	408214	सीए अचिन कुमार भाटी	एसीए	मुंबई
415.	408279	सीए पारुल अग्रवाल	एसीए	गुडगांव
416.	408309	सीए आशिष अग्रवाल	एसीए	जयपुर
417.	408385	सीए विशाल जैसवाल	एसीए	लखनऊ
418.	408423	सीए महेश कुमार गोयल	एसीए	नोहार
419.	408456	सीए अजय जैन	एसीए	नई दिल्ली
420.	408463	सीए अनुज कुमार माथुर	एसीए	जयपुर
421.	408492	सीए मुकेश कुमार अग्रवाल	एसीए	अलवर
422.	408537	सीए एस के झालोलिया	एसीए	इंदौर
423.	408547	सीए निधि कक्कड	एसीए	मुंबई
424.	408706	सीए पुनीत कुमार अग्रवाल	एसीए	अनूप शहर
425.	408740	सीए आलोक पांडेय	एसीए	इलाहाबाद
426.	408772	सीए जीतेन्द्र पाल सिंह	एसीए	नई दिल्ली
427.	408823	सीए सतेन्द्र कुमार राय	एसीए	वाराणसी
428.	408920	सीए गौरव गुप्ता	एसीए	खड़गपुर
429.	408946	सीए नितिन अग्रवाल	एसीए	मथुरा
430.	408960	सीए मनोज कुमार धुरेजा	एसीए	इंदौर
431.	408971	सीए अनिल कुमार जैन	एसीए	जयपुर

432.	409022	सीए संकल्प के अग्रवाल	एसीए	हैदराबाद
433.	409025	सीए नितिन शर्मा	एसीए	जयपुर
434.	409027	सीए मनीष कुमार कायल	एसीए	नई दिल्ली
435.	409041	सीए अपर्णा अग्रवाल	एसीए	वाराणसी
436.	409042	सीए दीपक भाटिया	एसीए	गाजियाबाद
437.	409092	सीए समीर निझावन	एसीए	गुडगांव
438.	409137	सीए सुमन जिंदल	एसीए	जयपुर
439.	409139	सीए संजय पीडी बरनवाला	एसीए	गोमिया
440.	409143	सीए सचिन जैन	एसीए	मेरठ
441.	409159	सीए अनिल कुमार शर्मा	एसीए	जबलपुर
442.	409169	सीए नेहा अग्रवाल	एसीए	नोएडा
443.	409171	सीए नीरज पाठक	एसीए	रांची
444.	409176	सीए यासीर शाहिद	एसीए	दरभंगा
445.	409181	सीए श्रीकांत के	एसीए	दुर्ग
446.	409223	सीए शुभदीप जौहरी	एसीए	बरेली
447.	409236	सीए शीतल सांखला	एसीए	नागदा
448.	409262	सीए सुधीर कुमार	एसीए	जमशेदपुर
449.	409293	सीए विष्णु खंडेलवाल	एसीए	जयपुर
450.	409311	सीए कामना निगम	एसीए	भोपाल
451.	409364	सीए सुशील कुमार	एसीए	फैजाबाद
452.	409422	सीए सर्वेश मित्तल	एसीए	मथुरा
453.	409569	सीए कपिल बोक्राडिया	एसीए	उदयपुर
454.	409611	सीए शिखा जैन	एसीए	जयपुर

455.	409707	सीए महेश मनिहार	एसीए	जोधपुर
456.	409730	सीए दीपक नेनवानी	एसीए	भोपाल
457.	409789	सीए अंशुल जैन	एसीए	जयपुर
458.	409880	सीए विकास अग्रवाल	एसीए	लखीमपुर खीरी
459.	409904	सीए राधिका अरोड़ा	एसीए	गुडगांव
460.	409906	सीए प्रमोद कुमार गुप्ता	एसीए	गुडगांव
461.	409921	सीए प्रमोद कुमार जैन	एसीए	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
462.	409925	सीए राज कुमार नादेर	एसीए	नई दिल्ली
463.	409959	सीए फिरोज अली बरनागरवाला	एसीए	इंदौर
464.	409999	सीए गौरव भाटिया	एसीए	आगरा
465.	410023	सीए कुमार सौरभ	एसीए	लखनऊ
466.	410064	सीए गजेन्द्र कुमार चतुर्वेदी	एसीए	मथुरा
467.	410079	सीए आशुतोष जोशी	एसीए	जयपुर
468.	410174	सीए जीतेन्द्र कुमार खंडेलवाल	एसीए	जयपुर
469.	410187	सीए निखिल मेहता	एसीए	जोधपुर
470.	410192	सीए राजुल दुबे	एसीए	कानपुर
471.	410214	सीए गौरव पंचौलिया	एसीए	पुणे
472.	410246	सीए विनीता मेहरा	एसीए	वाराणसी
473.	410247	सीए शिवेन्द्र कुमार गुप्ता	एसीए	वाराणसी
474.	410300	सीए मिर्जा जमीर बेग	एसीए	गुडगांव
475.	410301	सीए अक्षय अग्रवाल	एसीए	बरेली

476.	410327	सीए संजीव कुमार पोद्दार	एसीए	जमशेदपुर
477.	410329	सीए कृत्य जैन	एसीए	जयपुर
478.	410330	सीए रीतेश कोठारी	एसीए	भोपाल
479.	410358	सीए शशांक गुप्ता	एसीए	नई दिल्ली
480.	410368	सीए दुर्गेश सचदेव	एसीए	कानपुर
481.	410401	सीए शशांक गर्ग	एसीए	कोटा
482.	410410	सीए संजीव कुमार वाष्ण्य	एसीए	अलीगढ़
483.	410489	सीए पीयूष मित्तल	एसीए	नई दिल्ली
484.	410490	सीए सुमित कुमार	एसीए	जोधपुर
485.	410541	सीए विशाल कुमार	एसीए	कोलकाता
486.	410567	सीए विनोद कुमार पांडेय	एसीए	इलाहाबाद
487.	410575	सीए राम सिंह यादव	एसीए	जयपुर
488.	410579	सीए पल्लवी झाझरिया	एसीए	कानपुर
489.	410661	सीए अरविन्द कुमार जैसवाल	एसीए	गोरखपुर
490.	410684	सीए नूपुर गर्ग	एसीए	इलाहाबाद
491.	410699	सीए हेमंत भंडारी	एसीए	झाबुआ
492.	410718	सीए बिनय कृष्णा	एसीए	पटना
493.	410727	सीए प्रियांशी गोयल	एसीए	जयपुर
494.	410730	सीए ज्योति चौहान	एसीए	इंदौर
495.	410746	सीए मुकुल जैन	एसीए	मुजफ्फर नगर
496.	410763	सीए ओम प्रकाश पांडेय	एसीए	जमशेदपुर
497.	410784	सीए नीता शिवकानी	एसीए	नई दिल्ली
498.	410789	सीए सुशील कुमार देवता	एसीए	ठाणे
499.	410877	सीए अंकित जैन	एसीए	लखनऊ

500.	410883	सीए वंदना महेश्वरी	एसीए	इंदौर
501.	410922	सीए राकेश अग्रवाल	एसीए	जोधपुर
502.	410948	सीए दीपक बगरेचा	एसीए	गांधी धाम
503.	410990	सीए प्रवीन कुमार सिंह	एसीए	कानपुर
504.	411015	सीए हुसैन हैदरी	एसीए	इंदौर
505.	411175	सीए जया मनसुखानी	एसीए	भोपाल
506.	411186	सीए विजय कुमार	एसीए	भदोही
507.	411203	सीए श्वेता मेहता	एसीए	गाजियाबाद
508.	411219	सीए अभिनव शर्मा	एसीए	जयपुर
509.	411287	सीए नवीन कुमार	एसीए	जयपुर
510.	411290	सीए वीरेन्द्र सिंह सौलकी	एसीए	धार
511.	411325	सीए मोहम्मद फहद खालिद	एसीए	लखनऊ
512.	411399	सीए करिश्मा जैन	एसीए	जशपुरनगर
513.	411474	सीए रमनदीप मधोक	एसीए	पुणे
514.	411487	सीए गौरव अग्रवाल	एसीए	अजमेर
515.	411533	सीए अतुल जैन	एसीए	दमोह
516.	411617	सीए पवनीत सिंह सलूजा	एसीए	इंदौर
517.	411714	सीए ऋषि प्रकाश	एसीए	इलाहाबाद
518.	411791	सीए संतोष काग	एसीए	मुंबई
519.	411852	सीए आशिष जैन	एसीए	इंदौर
520.	411862	सीए उकी छाबड़ा	एसीए	लखनऊ
521.	411869	सीए नंदी वर्धन मेहता	एसीए	जोधपुर

522.	411889	सीए प्रीतेश महाजन	एसीए	खारगौन
523.	411917	सीए ललित मकानी	एसीए	सहारनपुर
524.	411974	सीए सोनल जैन	एसीए	जयपुर
525.	411981	सीए अभिषेक अग्रवाल	एसीए	सीकर
526.	412006	सीए मनीष जैन	एसीए	इंदौर
527.	412054	सीए पूजा बटवाल	एसीए	इंदौर
528.	412075	सीए अभिषेक बाहेली	एसीए	ठाणे
529.	412091	सीए अश्वनी कुमार जैन	एसीए	टोंक
530.	412156	सीए हिमानी अरोड़ा	एसीए	जयपुर
531.	412168	सीए गणेश कुमार केसरी	एसीए	आरा
532.	412212	सीए नेहा जैन	एसीए	बंगलौर
533.	412255	सीए तारकेश्वर सिंह	एसीए	त्रिसूर
534.	412257	सीए राधा जाजु	एसीए	मैनपुरी
535.	412267	सीए पूजा अग्रवाल	एसीए	हैदराबाद
536.	412287	सीए राहुल जैन	एसीए	जयपुर
537.	412370	सीए निधि अजमेरा	एसीए	मुंबई
538.	412611	सीए भवानी शंकर मोदी	एसीए	झुनझुनु
539.	412734	सीए अर्पित सिंघल	एसीए	नई दिल्ली
540.	412758	सीए अंकेश गोयल	एसीए	नई दिल्ली
541.	412871	सीए सुबोध कुमार गावंदे	एसीए	भोपाल
542.	412984	सीए सचिन भार्गव	एसीए	जयपुर
543.	413132	सीए अशोक कुमार रामावत	एसीए	मदनगंज किशनगढ़
544.	413289	सीए आशिष वैशं	एसीए	नोएडा
545.	413298	सीए अमोघ गुप्ता	एसीए	कोटा

546.	413303	सीए प्रवीन शर्मा	एसीए	मुंबई
547.	413319	सीए नीरज कुमार सिंह	एसीए	पटना
548.	413324	सीए जीतेन्द्र कुमार अरोड़ा	एसीए	मथुरा
549.	413347	सीए भीष्म नारायण सिंह	एसीए	वाराणसी
550.	500366	सीए राणा गोपाल सिंह	एसीए	गुडगांव
551.	500404	सीए प्रदीप कुमार	एसीए	सहारनपुर
552.	500499	सीए वर्मा अमित कुमार	एसीए	इंदिरापुरम
553.	501058	सीए सुधीर	एसीए	वैशाली (यूपी)
554.	501207	सीए राजीव कुमार	एफसीए	हरिद्वार
555.	501497	सीए जैन टिकी	एसीए	गुडगांव
556.	501618	सीए अग्रवाल मोहित नरेश	एसीए	लखनऊ
557.	501981	सीए जैन तुलसी राज	एफसीए	दिल्ली
558.	502523	सीए गर्ग संदीप	एसीए	हिसार
559.	502802	सीए सर्वेश कुमार	एसीए	गाजियाबाद
560.	503838	सीए सिन्हा कृष्ण प्रताप	एसीए	बोकारो स्टील सिटी
561.	504226	सीए शुक्ला स्वप्निली	एसीए	कानपुर
562.	504285	सीए कश्यप मनीष	एसीए	जयपुर
563.	504768	सीए मनीष कुमार	एफसीए	पटना
564.	504971	सीए सिंह राज कुमार	एफसीए	पटना
565.	505239	सीए करनानी पंकज	एसीए	श्रीगंगानगर
566.	505482	सीए शालु ऋषिराज हलदंकर	एसीए	मुंबई
567.	505857	सीए भारद्वाज मयंक	एसीए	गुडगांव
568.	505949	सीए चावला कपिल	एसीए	मेरठ



569.	506052	सीए अनुराग राजन	एफसीए	नई दिल्ली
570.	506088	सीए स्वतंत्र कुमार सिंह	एफसीए	मनकापुर
571.	506646	सीए सुनीता बिस्वास	एसीए	गुडगांव
572.	507082	सीए अवधेश कुमार	एफसीए	बोकारो स्टील सिटी
573.	507272	सीए राहुल कौशिक	एसीए	गुडगांव
574.	507946	सीए संजय कुमार राय	एसीए	गाजीपुर
575.	508134	सीए अकेत पाल सिंह	एफसीए	लखनऊ
576.	508361	सीए दीपक राज गुप्ता	एसीए	रांची
577.	508548	सीए अशोक कुमार ओझा	एसीए	पटना
578.	508792	सीए अनुश्री मेहर	एसीए	देवास
579.	509103	सीए अंकित गर्ग	एसीए	मुजफ्फरनगर
580.	509361	सीए सोनिया गुप्ता	एसीए	चन्द्र नगर
581.	509444	सीए राम रतन सिंह	एसीए	गया
582.	509716	सीए युवराज सिंह भौन	एसीए	जयपुर
583.	509757	सीए सुरुचि माथुर	एसीए	नोएडा
584.	509952	सीए धनश्याम गोयल	एसीए	गुडगांव
585.	510021	सीए नवल किशोर देवांगन	एसीए	चंपा
586.	510422	सीए हर्ष कुमार	एसीए	खुर्जा
587.	510460	सीए राकेश कुमार	एसीए	नागपुर
588.	510537	सीए हर्ष जैन	एसीए	गुडगांव
589.	510741	सीए अंकिता भटनागर	एसीए	नई दिल्ली
590.	510923	सीए निखार माथुर	एसीए	कौशांबी
591.	510991	सीए विनय मिश्रा	एसीए	वाराणसी

592.	511039	सीए मनीषा जैन	एसीए	सहारनपुर
593.	511120	सीए विपिन कुमार शर्मा	एसीए	भोपाल
594.	511129	सीए सचिन कुमार	एसीए	मथुरा
595.	511196	सीए हितेश गुप्ता	एसीए	दिल्ली
596.	511203	सीए राज सिंह वर्मा	एसीए	भोपाल
597.	511229	सीए अमित कुमार गुप्ता	एसीए	सासाराम
598.	511516	सीए मोनिका अग्रवाल	एसीए	मेरठ
599.	511598	सीए गौरव टोंक	एसीए	दिल्ली
600.	511896	सीए अभिषेक शर्मा	एसीए	नई दिल्ली
601.	511919	सीए वीरेन्द्र नाथ पांडेय	एसीए	गोरखपुर
602.	512403	सीए आदित्य कुमार झा	एसीए	नई दिल्ली
603.	512714	सीए खुशबू जैन	एसीए	भोपाल
604.	512800	सीए अमिताभ सिंघल	एसीए	रामपुर
605.	513130	सीए विनीत कुमार संचेती	एसीए	वैशाली (यूपी)
606.	513201	सीए राजन कायस्थ	एसीए	नोएडा
607.	513478	सीए नितिन जैन	एसीए	मेरठ
608.	513594	सीए अर्चना जैन	एसीए	सहारनपुर
609.	513723	सीए धनश्याम दास गुप्ता	एसीए	छतरपुर
610.	513749	सीए मनीष नेलवाल	एसीए	अल्मोडा
611.	514113	सीए शिखा शर्मा	एसीए	वैशाली (यूपी)
612.	514267	सीए रजत अग्रवाल	एसीए	कासगंज
613.	514662	सीए सौरभ मोदी	एसीए	नीमच
614.	514663	सीए पंकज कुमार गुप्ता	एसीए	दिल्ली
615.	514716	सीए दीपिका मेहरा	एसीए	दिल्ली
616.	514772	सीए संजीव कुमार श्रीवास्तव	एसीए	हरिद्वार

617	514867	सीए शोभित रस्तोगी	एसीए	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
618	515008	सीए राजेश कुमार	एसीए	नालंदा
619	515035	सीए वरुण कुमार अग्रवाल	एसीए	जमशेदपुर
620	515762	सीए योगेश हरजाई	एसीए	गाजियाबाद
621	516382	सीए मो. तबीश अहमद	एसीए	पटना
622	516458	सीए इशिता अग्रवाल	एसीए	मेरठ
623	516459	सीए दीपा थापा	एसीए	नोएडा

624	516501	सीए सुमित महाजन	एसीए	वीरवा
625	516703	सीए जसमीत सिंह चौधरी	एसीए	देहरादून
626	516804	सीए कपिल कुमार अग्रवाल	एसीए	भरतपुर
627	516938	सीए धीरज अग्रवाल	एसीए	दिल्ली
628	517169	सीए राकेश जाखड़	एसीए	बीकानेर
629	517636	सीए मोहम्मद आदिल सिद्दीकी	एसीए	लखनऊ
630	517875	सीए कौशलेन्द्र कुमार	एसीए	पटना

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

3सीसीए(5)(3)/2011-2012 : संस्थान की अधिसूचना सं. 3सीसीए(4)(1)/2000-2001, तारीख 02.02.2001, 3सीसीए(4)(1)/2002-2003, तारीख 29.11.2002, 3सीसीए(4)(1)/2003-2004, तारीख 10.02.2004, 3सीसीए(4)(1)/2005-2006, तारीख 07.11.2005, 3सीसीए(4)(1)/2006-2007, तारीख 16.10.2006, 3सीसीए(4)(1)/2007-2008, तारीख 30.10.2007, 3सीसीए(4)(1)/2008-2009, तारीख 15.04.2009, 3सीसीए(4)(1)/2009-2010, तारीख 28.04.2010, 3सीसीए(4)(1)/2010-2011, तारीख 27.12.2010, 3सीसीए(4)(1)/2011-2012, तारीख 04.11.2011 के प्रतिनिर्देश से, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 20 के अनुरूप में यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान की परिषद् ने निम्नलिखित सदस्यों के नामों को उनके नामों के सामने दर्शित तारीखों से रजिस्टर में पुनः प्रविष्ट कर लिया है :-

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम		रद्द करने की तारीख	शहर का नाम
1.	039606	सीए समीर लाल	एफसीए	01/10/2008	जबलपुर
2.	057409	सीए द्विवेदी राम किशोर	एसीए	01/10/2010	रांची
3.	058308	सीए चक्रवर्ती राहुल	एसीए	01/10/2010	नई दिल्ली
4.	062522	सीए कुमकुम तिवारी	एसीए	01/10/2009	रतलाम
5.	062803	सीए प्रवल मनीषा	एसीए	01/10/2010	बरेली
6.	066414	सीए निशांत कुमार	एसीए	01/10/2010	नई दिल्ली
7.	071103	सीए सत्यवीर सिंह डागर	एफसीए	01/10/2010	जयपुर
8.	071174	सीए मालविका भंवर लाल	एफसीए	01/10/1996	जोधपुर
9.	072343	सीए अग्रवाल विनीत	एफसीए	01/10/2009	वाराणसी
10.	073015	सीए गर्ग शशि कुमार	एफसीए	01/10/2010	इंदौर
11.	074143	सीए शत्रुघ्न राय	एफसीए	01/10/2010	खारगोन
12.	074801	सीए जैन स्वपनिल	एफसीए	01/10/2010	मेरठ
13.	075316	सीए विनीत कुमार	एसीए	01/10/2010	रायपुर

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम		रद्द करने की तारीख	शहर का नाम
14.	075453	सीए गागर सुरेश चन्द्र	एसीए	22/12/2003	मुंबई
15.	075633	सीए बग्गा अजीत सिंह	एसीए	01/10/2008	उज्जैन
16.	076726	सीए खरे हर्ष	एसीए	01/10/2007	ग्वालियर
17.	076808	सीए पोदार मुरारी लाल	एसीए	08/12/2000	जयपुर
18.	077505	सीए टंडन राजीव	एफसीए	01/10/2002	नोएडा
19.	078165	सीए भंडारी अमित	एसीए	01/10/2007	जयपुर
20.	079680	सीए राहुल गुप्ता	एफसीए	01/10/2010	जयपुर
21.	079681	सीए त्रिबेवाल अरविन्द	एसीए	01/10/2009	जयपुर
22.	079860	सीए सरीपल्ली उदय	एसीए	01/10/2010	ठाणे
23.	081480	सीए अजय कुमार	एसीए	01/04/1983	दुर्गापुर
24.	088013	सीए नारायण जय प्रकाश	एसीए	22/12/2003	नोएडा
25.	093116	सीए मनीष गुप्ता	एसीए	01/10/2010	बरेली
26.	104002	सीए पेशवाल सुनीता	एफसीए	01/10/2010	जयपुर

27.	110994	सीए विजय महेश्वरी	एसीए	01/10/2010	जोधपुर
28.	120424	सीए फिरोज अली हुसैन मामुला	एसीए	01/10/2009	बांसवाड़ा
29.	125431	सीए सुरभि कौडा	एसीए	01/10/2010	भोपाल
30.	127327	सीए अरविन्द खंडेलवाल	एसीए	01/10/2008	चित्तोड़ गढ़
31.	134213	सीए विशाल महेश्वरी	एसीए	01/10/2010	कोटा
32.	400377	सीए अजमेरी धीरज	एसीए	01/10/2010	जयपुर
33.	401160	सीए शर्मा अंकिता	एसीए	01/10/2010	मुंबई
34.	401378	सीए जैन विकास	एसीए	01/10/2010	मुंबई
35.	402100	सीए गुप्ता आशिष	एसीए	01/10/2010	जयपुर
36.	402259	सीए सेवानी कन्हैया लाल	एसीए	01/10/2006	इंदौर
37.	402404	सीए मंत्री ब्रिजमोहन	एसीए	01/10/2007	अजमेर
38.	402604	सीए भोई सुनील कुमार	एसीए	01/10/2010	कोरबा
39.	402610	सीए भागचंदानी रवि	एसीए	01/10/2010	जयपुर
40.	403520	सीए अग्रवाल मनीष	एसीए	01/10/2010	मुंबई
41.	403581	सीए सिंह गोपाल	एसीए	01/10/2005	रांची
42.	404481	सीए नेवतिया यादुनंदन	एसीए	01/10/2010	गुडगांव
43.	404503	सीए अंकुर बंसल	एसीए	01/10/2010	लखनऊ
44.	404702	सीए मित्तल लव	एसीए	01/10/2010	जयपुर
45.	404823	सीए दशोत्तर सूर्या	एसीए	01/10/2010	उज्जैन
46.	405203	सीए रस्तोगी सुनील	एसीए	01/10/2010	लखनऊ

47.	405723	सीए पंकज तिवारी	एसीए	01/10/2010	भरतपुर
48.	405737	सीए शिखा कपूर	एसीए	01/10/2010	कानपुर
49.	406224	सीए सागर निगम	एसीए	01/10/2010	लखनऊ
50.	406488	सीए राजेन्द्र गुप्ता	एसीए	01/10/2010	नई दिल्ली
51.	406597	सीए अनुभव शारदा	एसीए	01/10/2010	जयपुर
52.	407055	सीए दीपक बिरला	एसीए	01/10/2010	इंदौर
53.	407162	सीए नीरज जैन	एसीए	01/10/2010	इंदौर
54.	408085	सीए प्रकाश अरोड़ा	एसीए	01/10/2010	गुडगांव
55.	408183	सीए करमवीर सिंह कौडा	एसीए	01/10/2010	मुंबई
56.	408530	सीए राहुल कपिला	एसीए	01/10/2010	मेरठ
57.	408575	सीए तरुन कुमार	एसीए	01/10/2009	गाजियाबाद
58.	408786	सीए दीपक कुमार छाजेड	एसीए	01/10/2009	मुंबई
59.	409015	सीए प्रवीण गुप्ता	एसीए	01/10/2010	दुर्ग
60.	409208	सीए मनप्रीत कौर टुटेजा	एसीए	01/10/2010	इंदौर
61.	409263	सीए अंकुर गुप्ता	एसीए	01/10/2010	गुडगांव
62.	409347	सीए संदीप कारवा	एसीए	01/10/2010	इंदौर
63.	409922	सीए सुमित कुमार महेश्वरी	एसीए	01/10/2010	इंदौर
64.	410165	सीए आशिष कुमार यादव	एसीए	01/10/2010	जयपुर
65.	410984	सीए प्रिया शर्मा	एसीए	01/10/2010	इंदौर
66.	411177	सीए मनीष कुमार गोयल	एसीए	01/10/2010	जयपुर
67.	500298	सीए दीपक कुमार	एसीए	01/10/2010	दिल्ली
68.	500944	सीए शशि भूषण कुमार	एफसीए	01/10/2010	गया

69.	503447	सीए पारिख मुकेश	एसीए	01/10/2007	लुधियाना
70.	505041	सीए जैन नितिन के	एसीए	01/10/2010	नई दिल्ली
71.	505378	सीए ठक्कर अमित कुमार	एसीए	01/10/2010	इंदिरा पुरम
72.	506848	सीए राहुल जैसवाल	एसीए	01/10/2010	नोएडा
73.	508556	सीए विजयपाल सिंह गुलया	एसीए	01/10/2010	रायपुर
74.	508813	सीए दिनेश कुमार	एसीए	01/10/2010	वसुंधरा

75.	510709	सीए पूर्ति कोठारी	एसीए	01/10/2010	इंदौर
76.	511059	सीए बुद्धि भारकर श्रीवास्तव	एसीए	01/10/2010	दिल्ली
77.	511266	सीए नीरज कुमार	एसीए	01/10/2009	दिल्ली
78.	511591	सीए समीर अरोड़ा	एसीए	01/10/2010	गुडगांव
79.	511637	सीए देशबंधु	एसीए	01/10/2010	गुडगांव
80.	512686	सीए गीतिका मलिक	एसीए	01/10/2010	नोएडा
81.	514628	सीए वाटिका अरोड़ा	एसीए	01/10/2010	गुडगांव

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

3सीसीए(8)(1)/2011-12 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 10(2)(ख) के साथ पठित विनियम 10(1)(iv) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र को तारीख 1 अक्टूबर, 2010 से रद्द कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने व्यवसाय प्रमाणपत्र के लिए अपनी वार्षिक फीस का संदाय नहीं किया था :-

क. सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम
1.	14016	सीए. तुषारेन्दु गुप्ता एसीए	जमशेदपुर
2.	14110	सीए. सत्या नारायण खुंटेडा एफसीए	जयपुर
3.	16426	सीए. अमित कुमार पाल एफसीए	रांची
4.	43769	सीए. लखोटिया अनिल कुमार एसीए	अजमेर
5.	49625	सीए. पंजाबी सुरेश महादेव एसीए	मुंबई
6.	56254	सीए. कमलकांता नायक एफसीए	गाजियाबाद
7.	67620	सीए. रमेश चन्द्र गिरि एसीए	भिवानी
8.	68604	सीए. राजुल बेगानी एसीए	भिलाई
9.	70328	सीए. हरबंस सिंह अजमानी एफसीए	लखीमपुर
10.	70343	सीए. गोयल सुरेन्द्र कुमार एफसीए	गाजियाबाद
11.	70506	सीए. राजेन्द्रा मोहन जैन एसीए	जयपुर
12.	70647	सीए. सेठ बसंत एफसीए	कानपुर
13.	72239	सीए. गुप्ता सुधा एफसीए	जयपुर
14.	72462	सीए. विवेक सिंह एसीए	ग्वालियर

क. सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम
15.	72734	सीए. अग्रवाल राजेश कुमार एफसीए	गाजियाबाद
16.	73641	सीए. विवेक ओबराय एसीए	भोपाल
17.	73967	सीए. गोयल मोहन लाल एफसीए	भरतपुर
18.	74918	सीए. नरेश कुमार एसीए	जयपुर
19.	75044	सीए. त्रेहन राजन एसीए	गोरखपुर
20.	76485	सीए. महेश्वरी विवेक एफसीए	होशंगाबाद
21.	76491	सीए. चावला अनिल कुमार एसीए	कोटा
22.	76614	सीए. धर्मेन्द्र कुमार जैन एफसीए	इंदौर
23.	79166	सीए. अग्रवाल पुनीत एफसीए	कानपुर
24.	79365	सीए. रंका शीलु एफसीए	जयपुर
25.	82137	सीए. भटनागर मनमोहन लाल एसीए	गाजियाबाद
26.	83402	सीए. जुनेजा संजीव एफसीए	नोएडा
27.	84031	सीए. भसीन प्रवीन कुमार एसीए	नोएडा
28.	86476	सीए. गर्ग अजय एफसीए	गाजियाबाद

29.	87862	सीए. रतनम सुजाता एसीए	नोएडा
30.	88844	सीए. अरुण कुमार अग्रवाल एफसीए	गोरखपुर
31.	97707	सीए. भंला अक्षय एफसीए	नोएडा
32.	98455	सीए. बंका रविन्द्र कुमार एसीए	गाजियाबाद
33.	121185	सीए. शैलेश कुमार गोयल एसीए	गुडगांव
34.	126893	सीए. मनीष जैन एसीए	भीलवाड़ा
35.	137197	सीए. खुशबू जैन एसीए	भीलवाड़ा
36.	400053	सीए. जैन अनिल कुमार एसीए	ग्वालियर
37.	400263	सीए. नीलेश महेश्वरी एफसीए	उदयपुर
38.	400793	सीए. जाओवाला लियाकत अली एसीए	नीमच
39.	400913	सीए. कृष्ण गोपाल बाजपेयी एफसीए	कानपुर
40.	400979	सीए. भाटिया संध्या कुमार एसीए	उदयपुर
41.	401386	सीए. गुप्ता कमल कुमार	जयपुर
42.	401388	सीए. सरदा रोहित कुमार एसीए	जयपुर
43.	401462	सीए. रुकिया पचीसा एसीए	उदयपुर
44.	401609	सीए. अग्रवाल अभिषेक एसीए	जयपुर
45.	401895	सीए. अमीश डूगर एफसीए	जयपुर
46.	402083	सीए. आशिष जसोरिया एसीए	बरेली
47.	402495	सीए. नेहा कालिया एसीए	गाजियाबाद
48.	403738	सीए. सुधांशु देव एसीए	भोपाल
49.	403967	सीए. मिश्रा मैत्री एसीए	आगरा
50.	404281	सीए. श्याम अग्रवाल एसीए	जयपुर
51.	404482	सीए. केडिया महेश एफसीए	कानपुर

52.	405418	सीए. बलवीर सिंह गांधी एसीए	सिंगरौली
53.	406131	सीए. राजेश खत्री एसीए	बांसवाड़ा
54.	406478	सीए. अवधेश जोशी एसीए	जयपुर
55.	406824	सीए. विजय कुमार टंक एसीए	जयपुर
56.	407124	सीए. अखिल भंडारी एसीए	जोधपुर
57.	407252	सीए. सुमन सौरभ एसीए	पटना
58.	409271	सीए. निमिषा मोहन एसीए	जमशेदपुर
59.	409410	सीए. संजीव कुमार बाजपेयी एसीए	कानपुर
60.	409566	सीए. घनश्याम पेशीवाल एसीए	भिलाई
61.	409602	सीए. नीलेश आर जैन एसीए	कानपुर
62.	410494	सीए. हेमंत रामराखियानी एसीए	जोधपुर
63.	410651	सीए. उत्कर्ष खंडेलवाल एसीए	गुडगांव
64.	410759	सीए. संदीप मित्तल एसीए	जयपुर
65.	411241	सीए. मोना द्विवेदी एसीए	भोपाल
66.	411252	सीए. सचिन केसरवानी एसीए	इलाहाबाद
67.	411516	सीए. कुलदीप सिधवी एसीए	उदयपुर
68.	412193	सीए. स्वाति अग्रवाल एसीए	जमशेदपुर
69.	412276	सीए. सोनल सुखीजा एसीए	जयपुर
70.	412556	सीए. महेश कुमार ओझा एसीए	सीकानेर
71.	412629	सीए. राशि शेखर एसीए	जयपुर
72.	412743	सीए. सिद्धार्थ सिधवी एसीए	उदयपुर
73.	412762	सीए. रामेश्वर चौखाड़ा एसीए	इंदौर

74.	412843	सीए. अब्दुल समद एसीए	आजमगढ़
75.	413087	सीए. सिद्धार्थ बाम एसीए	बामनिया
76.	413344	सीए. अंकुश लोढा एसीए	कोटा
77.	413405	सीए. अनिल अग्रवाल एसीए	सीकर
78.	506832	सीए. उर्वशी जैन एसीए	साहिबाबाद
79.	506952	सीए. अनुज गर्ग एसीए	बुलन्दशहर

80.	509603	सीए. रंजन दत्ता एसीए	जमशेदपुर
81.	510203	सीए. उमेश प्रसाद बरनवाल एसीए	नई दिल्ली
82.	511048	सीए. आशिष सक्सेना एसीए	नोएडा
83.	512490	सीए. गौरव जैन एसीए	गाजियाबाद
84.	514882	सीए. वैकटा सुब्बाराव गुर्रम एसीए	गाजियाबाद
85.	515150	सीए. प्रांशु बिसारिया एसीए	चंदौसी

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

3सीसीए(8)(2)/2011-2012 : चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 10(i) के खंड (iii) के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित सदस्यों को जारी व्यवसाय प्रमाणपत्र, उनके नामों के आगे उल्लिखित तारीख से रद्द कर दिया गया है क्योंकि वे व्यवसाय प्रमाणपत्र धारण करने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम	रद्द करने की तारीख
1.	053826	सीए शर्मा संदीप एफसीए	इंदौर	22/02/2012
2.	056308	सीए संतोष सारदा एसीए	भीलवाड़ा	31/03/2011
3.	064933	सीए अविषेक गुप्ता एसीए	नोएडा	09/03/2012
4.	065832	सीए बीरेन्द्र कुमार एसीए	दरभंगा	01/04/2011
5.	068120	सीए संगीत कुमार तोडी एसीए	पटना	25/11/2011
6.	069608	सीए रुचि अग्रवाल एसीए	धनबाद	06/02/2012
7.	073029	सीए बिलाय्या नरेन्द्र कुमार एफसीए	जबलपुर	20/01/2012
8.	073331	सीए विनोद कुमार एफसीए	देवास	12/06/2011
9.	073814	सीए राजेश कुमार एफसीए	पटना	17/09/2011
10.	073906	सीए बाजपेयी आनंद कुमार एफसीए	कानपुर	29/03/2011
11.	074279	सीए मंदीप सिंह एफसीए	लुधियाना	03/05/2011
12.	074708	सीए गोयल श्याम सुंदर एफसीए	जयपुर	25/06/2011

क्रम सं.	सदस्य की संख्या	सदस्य का नाम	शहर का नाम	रद्द करने की तारीख
13.	074806	सीए झावर मोहन एफसीए	इंदौर	11/07/2011
14.	075173	सीए सकलेचा प्रफुल्ल एफसीए	मुंबई	01/04/2011
15.	075186	सीए गोयल आशिष सोहन एफसीए	इंदौर	31/05/2011
16.	075847	सीए डूगर मनोज कुमार एफसीए	बदनौर	01/01/2012
17.	076066	सीए वर्मा राजेश कुमार एफसीए	इंदौर	11/02/2012
18.	076505	सीए मलका संदीप महेश्वरी एसीए	मुंबई	20/05/2011
19.	077298	सीए कपलीश कमल देव एफसीए	भोपाल	28/10/2011
20.	077301	सीए बाजपेयी प्रवीण एसीए	झाबुआ	01/05/2011
21.	077406	सीए जैन दिलीप कुमार एफसीए	भिलाई	14/06/2011
22.	078099	सीए मोती लाल लक्ष्कर एफसीए	इंदौर	23/06/2011
23.	078463	सीए लमबोरी अभय एफसीए	पुणे	06/06/2011
24.	078682	सीए आशीष बंसल एफसीए	खुर्जा	20/06/2011

25.	078716	सीए लोया बालकिशन एफसीए	जोधपुर	16/10/2011
26.	078828	सीए मनोहर सिंह भंडारी एफसीए	किशनगढ़	17/10/2011
27.	079472	सीए ओझा अभिलेश एसीए	रतलाम	07/10/2011
28.	079600	सीए गौतम जैन एफसीए	जयपुर	24/12/2011
29.	082821	सीए सराफ मुरली मनोहर एफसीए	धुरु	01/04/2011
30.	087474	सीए अखिल कुमार एफसीए	गाजियाबाद	30/09/2011
31.	089653	सीए अंशु कुमार एफसीए	गाजियाबाद	30/09/2011
32.	093125	सीए कल्याण आशु एफसीए	गाजियाबाद	26/09/2011
33.	096599	सीए किरण एसीए	नोएडा	01/11/2011
34.	097388	सीए दिव्या एफसीए	दिल्ली	26/03/2012
35.	115569	सीए पाटीदार रामचन्द्र एफसीए	रतलाम	12/12/2011
36.	119052	सीए नीतिन कुमार ज़िंदल एसीए	हनुमान गढ़ टाउन	01/04/2011
37.	136658	सीए अंकुर मिश्रा एसीए	भिलाई	06/05/2011
38.	400360	सीए नीरेश महेश्वरी एफसीए	इंदौर	22/06/2011
39.	400570	सीए सतेन्द्र दुसाद एफसीए	जयपुर	22/12/2011
40.	400640	सीए तृप्ति सोनी एफसीए	इंदौर	11/03/2011
41.	400782	सीए संजय स्वामी एफसीए	दादरी	01/04/2011
42.	400783	सीए सलेचा रोहन एसीए	जयपुर	12/09/2011
43.	400860	सीए विमल कुमार पारिख एफसीए	रांची	20/07/2011

44.	400965	सीए प्रतीक भार्गव एफसीए	जयपुर	24/12/2011
45.	401031	सीए पदम चंद जैन एफसीए	सवाईमाधोपुर	13/02/2012
46.	401146	सीए अलका गुप्ता एफसीए	अलवर	28/05/2011
47.	401369	सीए गुप्ता सुशील एफसीए	बुलंदशहर	01/04/2011
48.	401686	सीए जैन मुकेश कुमार एफसीए	भोपाल	29/11/2011
49.	401720	सीए अतुल कुमार अग्रवाल एफसीए	आगरा	23/03/2012
50.	402339	सीए आचल अग्रवाल एफसीए	रायपुर	01/08/2011
51.	402951	सीए अग्रवाल विशाल एफसीए	कानपुर	17/02/2012
52.	402962	सीए जैन पारुल एफसीए	जयपुर	19/11/2011
53.	402985	सीए सिंह कीर्ति कुमार एफसीए	जयपुर	26/12/2011
54.	403149	सीए निजाम तसनीम एसीए	बरेली	15/03/2012
55.	403171	सीए मित्तल कुश एफसीए	जयपुर	01/04/2011
56.	403638	सीए अरोड़ा रुचि एफसीए	कानपुर	09/01/2012
57.	403910	सीए नवनीत कलानी एफसीए	जयपुर	04/08/2011
58.	404773	सीए पूर्णिमा देवपुरा एसीए	उदयपुर	09/08/2011
59.	404956	सीए रचना बोथरा एसीए	लखनऊ	19/03/2012
60.	405207	सीए गुप्ता सुशील एसीए	कानपुर	27/03/2012
61.	405569	सीए राधेन्द्र अग्रवाल एसीए	पटना	19/09/2011
62.	405687	सीए पंकज मित्तल एसीए	आगरा	11/01/2012
63.	405791	सीए सौरभ गुप्ता एसीए	सूक्त	31/03/2011

64.	406080	सीए अंकित तोतुका एफसीए	जयपुर	11/01/2012
65.	406087	सीए सीता टाक एसीए	जोधपुर	22/08/2011
66.	406120	सीए पवन कारवा एसीए	भयंदर	05/05/2011
67.	406121	सीए प्रतीक खंडेलवाल एसीए	जयपुर	22/12/2011
68.	406143	सीए ललित जैन एसीए	जोधपुर	11/08/2011
69.	406277	सीए शांतनु मणि सिंह एसीए	मेरठ	16/11/2011
70.	406474	राजेन्द्र लूथरा एसीए	रायपुर	03/08/2011
71.	406715	सीए राजेश सिंह राणा एसीए	कानपुर	25/11/2011
72.	406766	सीए आशिष गुप्ता एसीए	दिल्ली	29/08/2011
73.	406791	सीए सरजु प्रसाद राठी एसीए	बिलासपुर (सीएच)	02/06/2011
74.	406821	सीए शैलेश राजोरिया एफसीए	जयपुर	24/12/2011
75.	406911	सीए विष्णु कुमार अग्रवाल एसीए	चोमू	24/01/2012
76.	406918	सीए अमित सिंह झाला एफसीए	कोटा	13/02/2012
77.	407146	सीए धर्मेन्द्र कुमार एसीए	बालोतरा	26/03/2012
78.	407264	सीए नवीन सिंघल एसीए	हापुड	28/02/2012
79.	407326	सीए भावना गुप्ता एसीए	जयपुर	02/11/2011
80.	407387	सीए सुप्रिया मेवाडा एसीए	जोधपुर	06/03/2012
81.	407515	सीए मनीष कुमार जैन एसीए	होशंगाबाद	01/04/2011
82.	407597	सीए मनीष यादव एसीए	बहरोड	25/07/2011

83.	407606	सीए पारुल बाजपेयी एसीए	कानपुर	31/10/2011
84.	407695	सीए धनश्याम अग्रवाल एसीए	जयपुर	01/04/2011
85.	407783	सीए कविता भानावत एसीए	उदयपुर	03/10/2011
86.	407786	सीए कृष्ण गोपाल शाह एसीए	जयपुर	12/11/2011
87.	408013	सीए सुनील कुमार खंडेलवाल एसीए	जयपुर	01/04/2011
88.	408040	सीए राशि गोयल एसीए	सहारनपुर	30/03/2011
89.	408215	सीए मनीष कुमार जैन एसीए	इंदौर	19/05/2011
90.	408274	सीए योगेश शर्मा एसीए	जयपुर	25/06/2011
91.	408406	सीए मोहित अग्रवाल एसीए	आगरा	01/04/2011
92.	408450	सीए अनूप कुमार जैन एसीए	ललितपुर	05/09/2011
93.	408472	सीए दीप्ति जैन एसीए	पुणे	12/06/2011
94.	408545	सीए इति गुप्ता एसीए	कोटा	13/07/2011
95.	408753	सीए निधि भास्कर एसीए	नोएडा	27/06/2011
96.	408763	सीए सचिन कुमार एसीए	हापुड	29/12/2011
97.	408778	सीए पुष्कर गोयल एसीए	बरेली	30/06/2011
98.	409095	सीए मनोज गोयल एसीए	बिलासपुर (सीएच)	15/12/2011
99.	409154	सीए अमित धिया एसीए	जयपुर	26/12/2011
100.	409304	सीए जागृति मालविया एसीए	जबलपुर	11/11/2011
101.	409342	सीए राजेश राठी एसीए	वाराणसी	16/02/2011



102.	409377	सीए दिव्या किरण बंसल एसीए	हरिद्वार	12/08/2011
103.	409504	सीए जयश्री राय एसीए	कानपुर	28/02/2012
104.	409548	सीए शिवा शर्मा एसीए	गुडगांव	01/04/2011
105.	409739	सीए नितिन कुमार पटेल एसीए	जबलपुर	28/09/2011
106.	409933	सीए कौशल गुप्ता एसीए	जोधपुर	01/09/2011
107.	410019	सीए महेन्द्र सिंह तोमर एसीए	इंदौर	31/03/2011
108.	410076	सीए मनोज कुमार वैश्य एसीए	बरेली	07/02/2012
109.	410124	सीए सुमित कुमार सुल्तानिया एसीए	धनबाद	20/03/2012
110.	410287	सीए पीयूष अग्रवाल एसीए	झालावाड़	25/11/2011
111.	410317	सीए आशिष गोयल एसीए	कोटपुतली	27/12/2011
112.	410322	सीए रजत सिंघल एसीए	आगरा	16/03/2012
113.	410350	सीए राहुल नरेन्द्र एसीए	जयपुर	07/03/2011
114.	410376	सीए अंशुल सिसोदिया एसीए	चित्तौड़गढ़	01/04/2011
115.	410386	सीए अरविन्द कुमार शुक्ला एसीए	बरेली	07/12/2011
116.	410388	सीए प्रियंका अग्रवाल एसीए	जमशेदपुर	01/06/2011
117.	410477	सीए आशिष कुमार बियानी एसीए	जयपुर	07/02/2012
118.	410575	सीए राम सिंह यादव एसीए	जयपुर	17/02/2012
119.	410628	सीए रजत कुमार जैन एसीए	जयपुर	31/08/2011

120.	410652	सीए आशिष खातोड एसीए	जयपुर	29/02/2012
121.	410853	सीए हरी कुमार एसीए	पटना	07/11/2011
122.	410862	सीए अनु गुप्ता एसीए	जयपुर	15/08/2011
123.	410963	सीए हितेश अग्रवाल एसीए	भरतपुर	15/10/2011
124.	411028	सीए अंकुर लोढा एसीए	कोटा	02/07/2011
125.	411132	सीए मोहम्मद आरिफ अंसारी एसीए	रायबरेली	02/01/2012
126.	411199	सीए गौरव वाणी एसीए	भोपाल	27/03/2012
127.	411221	सीए निरंजन लाल सोनी एसीए	जयपुर	05/09/2011
128.	411368	सीए राहुल शर्मा एसीए	सीकर	01/04/2011
129.	411497	सीए कपिल बंसल एसीए	अजमेर	20/11/2011
130.	411663	सीए रविन्द्रा कुमार काकानी एसीए	इंदौर	10/10/2011
131.	411682	सीए ईशा शुक्ला एसीए	कानपुर	22/12/2011
132.	411688	सीए अंकिता भगत एसीए	कोटा	18/11/2011
133.	411713	सीए आशिष कुमार एसीए	कानपुर	27/12/2011
134.	411815	सीए मनीष अग्रवाल एसीए	जमशेदपुर	01/11/2011
135.	411831	सीए श्रुति अग्रवाल एसीए	कानपुर	01/04/2011
136.	411833	सीए रविन्द्रा अग्रवाल एसीए	लखनऊ	01/04/2011
137.	411839	सीए शुभाशिष राहा एसीए	सरगुजा	13/02/2012
138.	411969	सीए सिद्धार्थ सहगल एसीए	गाजियाबाद	31/08/2011
139.	412015	सीए निखिल अग्रवाल एसीए	रांची	24/07/2011

140.	412051	सीए गौरव अग्रवाल एसीए	आगरा	23/01/2012
141.	412209	सीए संदीप धींग एसीए	उदयपुर	28/11/2011
142.	412300	सीए दीपक अग्रवाल एसीए	पिलीभित	31/03/2011
143.	412332	सीए हरगुण सिंह सोढ़ी एसीए	देहरादून	14/09/2011
144.	412347	सीए अरविन्द कुमार एसीए	पटना	08/11/2011
145.	412382	सीए अभिषेक प्रहलादका एसीए	वाराणसी	16/08/2011
146.	412393	सीए रिचा खंडेलवाल एसीए	इंदौर	01/04/2011
147.	412405	सीए नेहा गुप्ता एसीए	भोपाल	07/02/2011
148.	412411	सीए अमित कुमार गुप्ता एसीए	कानपुर	22/03/2012
149.	412466	सीए पवन कुमार चक्रवर्ती एसीए	जबलपुर	09/10/2011
150.	412545	सीए नरेन्द्र पाल सिंह एसीए	गाजियाबाद	07/07/2011
151.	412592	सीए चारुल श्रीमल एसीए	जयपुर	14/12/2011
152.	412634	सीए नूपुर डागा एसीए	जयपुर	05/09/2011
153.	412654	सीए अमित अहिर एसीए	बयावर	22/01/2012
154.	412687	सीए प्रियंका लाडा एसीए	रायपुर	01/11/2011
155.	412703	सीए अन्शिका सुराना एसीए	भोपाल	01/04/2011
156.	412709	सीए निर्मल जैन एसीए	नागौर	01/04/2011
157.	412786	सीए निधि एसीए	फैजाबाद	01/04/2011
158.	412887	सीए अजय गोंयल एसीए	अलवर	01/04/2011

159.	412891	सीए प्रियंका तपस्या एसीए	कोटा	21/11/2011
160.	412907	सीए एकता भार्गव एसीए	झांसी	09/05/2011
161.	412914	सीए सिद्धार्थ मेहरोत्रा एसीए	कानपुर	20/12/2011
162.	413060	सीए मो. आसिफ एसीए	लखनऊ	14/11/2011
163.	413173	सीए ई आनंद कृष्णामूर्ति एसीए	जबलपुर	30/05/2011
164.	413207	सीए अंकित जैन एसीए	आगरा	05/01/2012
165.	413209	सीए कमल गुलाटी एसीए	मुरादाबाद	19/03/2012
166.	413259	सीए मनीषा भारद्वाज एसीए	जयपुर	30/11/2011
167.	413404	सीए चेतन कुमार अग्रवाल एसीए	भागलपुर	30/10/2011
168.	413548	सीए श्रवण कुमार एसीए	छपरा	17/11/2011
169.	413586	सीए संतोष कुमार सिंह एसीए	इंदौर	01/08/2011
170.	413610	सीए सुमेध सेन एसीए	जमशेदपुर	13/10/2011
171.	413708	सीए माधवी व्यास एसीए	जोधपुर	25/10/2011
172.	413765	सीए मनीष सोनी एसीए	सूरतगढ़	24/02/2012
173.	413801	सीए आशिष जैन एसीए	नई दिल्ली	18/07/2011
174.	413937	सीए अंकित पालीवाल एसीए	सागर	28/11/2011
175.	413945	सीए अंकित अग्रवाल एसीए	जयपुर	02/10/2011
176.	413947	सीए शिव कुमार अग्रवाल एसीए	जयपुर	03/01/2012
177.	413981	सीए रिमिशा कोठारी एसीए	बयावर	05/09/2011
178.	413987	सीए अंकिता राठी एसीए	जयपुर	09/01/2012

179.	414056	सीए अक्षय कुमार अग्रवाल एसीए	आगरा	14/02/2012
180.	414066	सीए निमिता अग्रवाल एसीए	चोमू	19/01/2012
181.	414158	सीए पुलकित कपूर एसीए	जयपुर	21/12/2011
182.	414165	सीए पंकज कुमार मीणा एसीए	बरौनी	01/09/2011
183.	414209	सीए शालू केडिया एसीए	रांची	27/12/2011
184.	414227	सीए नेहा गुप्ता एसीए	जबलपुर	29/03/2012
185.	414240	सीए अरुण सकुजा एसीए	बरेली	10/10/2011
186.	414245	सीए महावीर चंद अंचलिया एसीए	बयावर	07/12/2011
187.	414278	सीए गौरव हिम्मतसिंगा एसीए	वाराणसी	14/03/2012
188.	414288	सीए रवि जैन एसीए	जयपुर	01/02/2012
189.	414348	सीए प्राची अग्रवाल एसीए	मुरादाबाद	08/10/2011
190.	414609	सीए राजेन्द्र कुमार पांडेय एसीए	प्रतापगढ़	20/10/2011
191.	414668	सीए नरेश आहुजा एसीए	भोपाल	15/10/2011
192.	414784	सीए श्रेय भटनागर एसीए	दुर्ग	27/01/2012
193.	414804	सीए पंकज अग्रवाल एसीए	मथुरा	11/01/2012
194.	414859	सीए श्वेता अग्रवाल एसीए	कोरबा	25/11/2011
195.	414958	सीए नम्रता अग्रवाल एसीए	मुंबई	05/12/2011
196.	415182	सीए संतोष कुमार छोलोतरे एसीए	हरदा	24/10/2011
197.	415237	सीए अर्पित पोरवाल एसीए	मंदसौर	12/12/2011
198.	415285	सीए मुदित गोमिया एसीए	मेरठ	24/02/2012
199.	415424	सीए पराग मोदानी एसीए	राजगढ़	27/12/2011

200.	415466	सीए गौरव मखिजानी एसीए	वाराणसी	27/01/2012
201.	415472	सीए दीपक गोयल एसीए	दिदवाना	20/11/2011
202.	415703	सीए राज कुमार मोहाता एसीए	मंदसौर	19/01/2012
203.	415884	सीए शालिनी एसीए	भागलपुर	05/03/2012
204.	501098	सीए प्रदीप कुमार एफसीए	गाजियाबाद	31/03/2011
205.	507969	सीए अकांक्षा गुप्ता एफसीए	फैजाबाद	01/10/2011
206.	509061	सीए दीपक कुमार शर्मा एसीए	गाजियाबाद	01/02/2012
207.	509754	सीए हर्ष विजयवर्गीय एसीए	नोएडा	19/08/2011
208.	510054	सीए ज्ञानेन्द्र कुमार एसीए	कानपुर	16/03/2012
209.	511781	सीए मुदित माथुर एसीए	नोएडा	01/12/2010
210.	511904	सीए नितिन अग्रवाल एसीए	जयपुर	15/12/2011
211.	512290	सीए सौरभ गुप्ता एसीए	वैशाली (यूपी)	02/12/2011
212.	512458	सीए शोभित अग्रवाल एसीए	कौशांबी	01/04/2011
213.	513935	सीए अभय नंदन त्यागी एसीए	बुलन्दशहर	07/12/2010
214.	514776	सीए शरद कुमार करनानी एसीए	बीकानेर	01/08/2011
215.	515268	सीए अखिल कुमार रस्तोगी एसीए	मेरठ	13/10/2011
216.	515809	सीए तरुण कुमार गर्ग एसीए	दिल्ली	26/02/2011
217.	515835	सीए संजीव कुमार एसीए	श्रीगंगानगर	22/07/2011
218.	516046	सीए रोहित सुनेजा एसीए	भोपाल	19/06/2011
219.	517117	सीए निकिता गुप्ता एसीए	जबलपुर	19/04/2011
220.	517521	सीए सौरभ अग्रवाल एसीए	कानपुर	11/08/2011
221.	518637	सीए विशाल मारोती	नई दिल्ली	30/01/2012

टी. कार्तिकेयन  
सचिव

## RESERVE BANK OF INDIA

Mumbai-400001, the 26th September 2012

No. DBOD. IBD. No. 4591/23.13.030/2012-13—In pursuance of Clause (c) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the following alterations shall be made in the Second Schedule to the said Act namely :—

For the words "Oman International Bank S.A.O.G." the words "HSBC Bank Oman S.A.O.G." shall be substituted.

B. MAHAPATRA  
Executive Dir.

## THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Kanpur-208001, the 11th July 2012

CHARTERED ACCOUNTANTS

3CCA (4) (1)/2011-2012:- in pursuance of regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by Section 20(1) (C) of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed the names of the following persons from the Register of Members of this Institute with effect from 1<sup>st</sup> Oct 2011 on account of nonpayment of prescribed fees: -

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1	002887	MR NAGPAL BUA DAS	GHAZIABAD	13	016649	MR RANA GANESH KUMAR	JAIPUR
2	007166	MR SHAH AMANAT	LUCKNOW	14	016988	MR SAIGAL MOHIT KUMAR	NEW DELHI
3	008323	MR MAITRA SUBRATA KUMAR	DHANBAD	15	017052	MR MODI RAMJI LAL	ALWAR
4	009735	MR DESHPANDE MADHUKAR BALWANT	BIKANER	16	017513	MR GUPTA RADHA MOHAN	MUMBAI
5	011975	MR MALIK VIPIN KUMAR	INDORE	17	018558	MR KURUVILA KURIAKOSE	NOIDA
6	013332	MR GAUR SHIVRAJ SINGH	NEW DELHI	18	018574	MR DHAWAN PRAMOD KUMAR	SHIKOHABAD
7	014101	MR K M LALWANI	RAIPUR	19	020885	MR KRISHNAN H	BILASPUR (CH)
8	014123	MR BIYANI VALLABH PRASAD	NAVI MUMBAI	20	021475	MR SUBRAMANIAN P R	NOIDA
9	014652	MR GHORUI KANAI LAL	NOIDA	21	022553	MR VENKATACHALAM A	BHOPAL
10	014801	MR GUPTA SHRI PRAKASH	MEERUT	22	022635	MR MADHAVA MOHAN P	NOIDA
11	015516	MR GHOSH JYOTIRMOY	SINGHBHUM	23	026413	MR VERMA ASEEM	ALLAHABAD
12	016572	MR JAGDISH MAL LODHA	JODHPUR	24	032190	MR MOMAYA SUBHASHCHANDRA MANILAL	NOIDA

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
25	034039	MR IRANI MAHIYAR ASPI	INDORE	44	057090	MR BHARATHY SANGAMEASWAR	THANE
26	036189	MR MULANI GOPAL HARICHAND	MUMBAI	45	057272	MR AGARWAL VIKASH	RAIPUR
27	036217	MR SABOO BAJRANG KUMAR	KOTA	46	057305	MR PARIK NITIN	INDORE
28	040312	MR SALEEM MEYAJI	UDAIPUR	47	058085	MR CHOUDHURY BIKASH	PATNA
29	042848	MR PATODIA RAM AVTAR	JAIPUR	48	058380	MR MANISH KUMAR	MUZAFFARPUR
30	043050	MR JAIN RAJESH	BHILWARA	49	059115	MR JAJU SUNIL KUMAR	SATNA
31	043117	MR SOMANI SANJAY KUMAR	RAMGARH	50	060226	MR AJAY KUMAR SHAH	NOIDA
32	045354	MR SONI ANAND KUMAR	JAIPUR	51	060364	MS SINGH JAYA	LUCKNOW
33	046878	MR SINGHVI SANDEEP	JODHPUR	52	060600	MR SANYAL ANIRUDDHA	NOIDA
34	047366	MS MRIDULA MALPANI	TONK	53	060771	MR DHOOT NISHANT	JAMSHEDPUR
35	049251	MR ROONGTA JAGDISH G	BIRGANJ	54	060790	MR RATHI RAKESH	NEW DELHI
36	050425	MR KULWAL PRAHBAD RAI	JAIPUR	55	060903	MR DHANUKA VINEET	NOIDA
37	051387	MR JHANWAR KAILASH CHANDRA	NAGDA	56	061213	MR PRASHANT DOKANIA	PATNA
38	053627	MR INAPAKURTI RANGANADHAM	SIDHI	57	061312	MR TULSYAN VIKASH KUMAR	DHANBAD
39	054289	MR ABID HUSSAIN	GHAZIABAD	58	061903	MR BOTHRA SUSHIL KUMAR	KOLKATA
40	054676	MR MISHRA ARUN KUMAR	PATNA	59	062804	MR AGARWAL MANOJ KUMAR	PATNA
41	055541	MR JALAN SANDEEP KUMAR	VARANASI	60	062993	MR AGARWAL ABHA	CHIRKUNDA
42	056553	MR GHOSH SUJIBAN	GHAZIABAD	61	063355	MR ATUL KUMAR	BHOPAL
43	056898	MR AGRAWAL MANOJ KUMAR	RAIGARH	62	063391	MR BIYANI NITIN	KOLKATA

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
63	063882	MR BAJPAI MANISH KUMAR	BHOPAL	83	070489	MR GUPTA SUSHIL KUMAR	KANPUR
64	064584	MR RAJ KUMAR SAH	BASTI	84	070524	MR HARSH MOHAN	KANPUR
65	065052	MR BINOD KUMAR	KOLKATA	85	070653	MR TANDON MUKESH	NOIDA
66	065278	MS SEEMA TIWARY	KOLKATA	86	070770	MR AGRAWAL GOPAL	INDORE
67	066303	MS SWETA KARNANI	JAIPUR	87	070792	MR GUPTA MUKET BEHARI	ALWAR
68	066304	MR ROHIT KASAT	DHANBAD	88	070810	MR SANADHYA CHANDRA PRAKASH	UDAIPUR
69	066476	MR SANTOSH KUMAR GUPTA	RAXAUL	89	070831	MR SHARMA SUSHEEL PRAKASH	JAIPUR
70	066971	MR NAND LAL PRASAD	PATNA	90	070859	MR SINGH SEVENDRA BAHADUR	KANPUR
71	067331	MR REYAJUDDIN AHMAD	BOKARO STEEL CITY	91	070953	MR BAKSHI RENU	GHAZIABAD
72	067495	MR ALOK BHAGAT	JABALPUR	92	071003	MR ARYA MAHESH CHAND	BHARATPUR
73	067551	MR RAVI BHUSHAN SINGH	NAVI MUMBAI	93	071123	MR SONI MAHESH KUMAR	AJMER
74	067676	MR VIVEK BANKA	JAMSHEDPUR	94	071175	MR MOHTA SATYANARAYAN	KOTA
75	068345	MR SATYA PRAKASH	MOTIHARI	95	071343	MR GARG SHELENDRA NATH	HAPUR
76	069264	MR BIKASH PATWARI	DUMKA	96	071388	MR GANGOPADHYAY ALOK KUMAR	RANCHI
77	069272	MR SOURAV SONTALIA	JAMSHEDPUR	97	071457	MR KHETAWAT VIJAY	BHOPAL
78	070173	MR NEERAJ KUMAR	MUZAFFAR NAGAR	98	071482	MR GARG SATISH KUMAR	NOIDA
79	070286	MR JAIN MAHENDRA KUMAR	KISHANGARH	99	071553	MR RANGA PANNA LAL	JODHPUR
80	070323	MR BHANDARI VIKRAM KUMAR	SATNA	100	071566	MR PAWAN KUMAR	DEHRADUN
81	070378	MR MEHROTRA DINESH	BAREILLY	101	071703	MR NIRMAL KUMAR JAIN	BHILWARA
82	070478	MR SINGH ASHOK KUMAR	RANCHI	102	072019	MR GHOSH AMITABH	BHOPAL

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
103	072142	MR KHEMKÁ BINOD KUMAR	INDORE	123	073209	MR NENAWATI MAHENDRA SINGH	JAIPUR
104	072175	MR MATHUR VINAY NARAYAN	JAIPUR	124	073281	MR BHARGAVA SHYAM NARAYAN	ALWAR
105	072242	MR HARSH MOHAN SINGH DUA	LUCKNOW	125	073468	MR GUPTA SHIRISH KUMAR	GORAKHPUR
106	072402	MR SHRIVASTAVA BRIJESH KUMAR	INDORE	126	073537	MR BHANDARI PRADEEP KUMAR	JODHPUR
107	072438	MR MAHESHWARI SHYAM	MORENA	127	073579	MR VIJAY PAL SINGH	MEERUT
108	072468	MR MAHESWARI KUMOD KUMAR	MODINAGAR	128	073615	MR RAM KISHORE MAHESHWARI	BEAWAR
109	072473	MR GOEL RAVI KUMAR	GHAZIABAD	129	073628	MR ARORA SUNIL KUMAR	MEERUT
110	072600	MR AGARWAL KISHORE KUMAR	MATHURA	130	073864	MR SHRINGI ABHAY PRAKASH	ALWAR
111	072656	MR MAHAJAN JAGDISH CHANDRA	KHARGONE	131	073903	MR SODANI ARUN	INDORE
112	072668	MR SOLANKI DHARMENDRA	JAIPUR	132	073910	MR GUPTA RAJU MAL	LUDHIANA
113	072681	MR ASHOK KUMAR	GHAZIABAD	133	073912	MR CHOPDA LALIT KUMAR	RAIPUR
114	072727	MR AGRAWAL ASHOK KUMAR	GORAKHPUR	134	073942	MR KHANDLWAL VIVEK	JAIPUR
115	072748	MR MATHANI GOPICHAND	RAIPUR	135	074012	MR HAMDANI ZAINUL ABEDIN T	INDORE
116	072876	MR KACHOLIA SHARAD	INDORE	136	074086	MR KAPOOR MANISH	VARANASI
117	072927	MR SINGHVI VIRENDRA	JODHPUR	137	074097	MR PANKAJ SOMANI	JAIPUR
118	072972	MR GOEL ATUL BHUSHAN	RISHIKESH	138	074116	MR YUGAL KISHORE	AGRA
119	073012	MR RAVINDRA SINGH SINGHVI	VADODARA	139	074145	MR VYAS MUKESH KUMAR	JODHPUR
120	073067	MR JAIN SAURABH	NOIDA	140	074260	MR JAIN RAJENDRA	JAIPUR
121	073072	MR AGRAWAL SANJIV	DELHI	141	074288	MR MITAL RAJESH	BHOPAL
122	073114	MR MITTAL ATUL	LUCKNOW	142	074342	MR SURENDRA KUMAR	DHANBAD

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
143	074388	MR BHOMESHWAR	JAIPUR	163	075865	MR KEDIA ALOK	RANCHI
144	074459	MR MISHRA JAYANT	BHOPAL	164	075889	MR SHAH MAHESH KUMAR	JAIPUR
145	074542	MR RATHI RAM KISHORE	JODHPUR	165	075897	MR GUPTA SURENDRA KUMAR	JAIPUR
146	074718	MS SANGEETA GOYAL	INDORE	166	075934	MR KALIKA PRASAD	AGRA
147	074751	MR PRAMOD SINGH	INDORE	167	075995	MR SHAH PARAG	MUZAFFAR NAGAR
148	074764	MR RADHEY SHYAM VAISHNAV	JODHPUR	168	076002	MR GUPTA AJAI KUMAR	UNNAO
149	074865	MR AGGARWAL VIKAS KUMAR	SAHARANPUR	169	076114	MR JAIN VIKAS	GHAZIABAD
150	075147	MR JAIN PANKAJ KUMAR	KOTA	170	076137	MR KHANDELWAL ASHWANI KUMAR	MATHURA
151	075313	MR GUPTA PRAMOD KUMAR	RAWAT BHATA	171	076157	MR AGARWAL BAJRANG LAL	JHUNJHUNU
152	075361	MR KHANNA MUKESH	MEERUT	172	076201	MR KASERA VIVEK	GHAZIABAD
153	075417	MR ANIL KUMAR SINGH	RANCHI	173	076205	MR BHAGAT GIRJESH KUMAR	KANPUR
154	075426	MR ANUPAM KRISHNA	LUCKNOW	174	076267	MR GUPTA ATUL	DEHRADUN
155	075535	MR AGARWAL TARUN	JAIPUR	175	076316	MR BAFNA SANJAY	RAIPUR
156	075537	MR GUPTA RAKESH KUMAR	BHARATPUR	176	076446	MR POONIA RAGHUVEER SINGH	JAIPUR
157	075612	MR SHARMA RAM PRASAD	JAIPUR	177	076553	MR AGARWAL MANOJ	JAIPUR
158	075657	MR SHARMA NAWAL KISHORE	JAIPUR	178	076568	MR MEHTA MANEESH	INDORE
159	075672	MR AGARWAL KAMAL KUMAR	RAMPUR	179	076569	MR TEKCHANDANI JITENDER	JODHPUR
160	075689	MR RAJEEV SHARMA	JAIPUR	180	076632	MR ARORA SHIV KUMAR	RUDRAPUR
161	075723	MR GUPTA KRISHAN KUMAR	JAIPUR	181	076634	MS INTODIA DEEPA	UDAIPUR
162	075747	MR SETHI ANSHUL	JAIPUR	182	076643	MR MITTAL NITIN	GHAZIABAD



SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
183	076649	MR SUNIL KUMAR	CHITTORGARH	203	077327	MR JAIN SANJEEV KUMAR	DURG
184	076674	MS SAKSENA RITU	KANPUR	204	077387	MR SURENDRA KUMAR	MUMBAI
185	076696	MR PRAGEET KUNWAR	GHAZIABAD	205	077418	MR AGARWAL ANUP	BIJAINAGAR
186	076728	MR KHANDELWAL ASHOK KUMAR	JAIPUR	206	077420	MR GUPTA DINESH KUMAR	JAIPUR
187	076762	MS KODWANI DEEPA	BHILWARA	207	077422	MR NANDWANA LALIT	JAIPUR
188	076798	MR TARUN PORWAL	UDAIPUR	208	077520	MS JAIN NIVEDITA	GWALIOR
189	076801	MR SANJEEV KUMAR	RANCHI	209	077603	MS PURNIMA M	JAMSHEDPUR
190	076851	MR JAIN PRAWAL	DEHRADUN	210	077648	MR ASHISH PUNDHIR	JAIPUR
191	076869	MR SINGH AJAY KUMAR	KORBA	211	077728	MR MEHTA TIRUPAT	MUMBAI
192	076914	MR GUPTA SANJAY	KOTA	212	077729	MR GUPTA SACHIN	JAIPUR
193	076946	MR JAIN SUMENDRA	NOIDA	213	077747	MS VIJAY LAXMI	NOIDA
194	077057	MR SHARMA RAVI	JAIPUR	214	077756	MR NARULA PUNEET	NOIDA
195	077077	MR BHANDARI HEMANT	JAIPUR	215	077841	MR MAURYA AJAY KUMAR	LUCKNOW
196	077094	MR MEHTA HEMANT	JAIPUR	216	077927	MR AMIT MODANI	JAIPUR
197	077104	MR CHAWLA RIMPAL	BHOPAL	217	077966	MR PARWAL VIJAY	JAIPUR
198	077148	MR AGRAWAL AJAY KUMAR	AKBARPUR (UP)	218	078144	MS KANODIA SHILPA	BAREILLY
199	077172	MR RATHI PRASHANT	GWALIOR	219	078198	MR RATHI AMIT	GWALIOR
200	077185	MR RAJIT MALHOTRA	NOIDA	220	078329	MR JAIN YOGESH	JODHPUR
201	077193	MR VIKAS YADAV	GHAZIABAD	221	078368	MR TULSIANI ASHOK KUMAR	JAIPUR
202	077219	MR ROOPCHANDANI RAJESH	KOTA	222	078396	MS VARYANI SANGEETA	AJMER

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
223	078407	MR HARIOM DIXIT	AGRA	243	079274	MR GOENKA RAHUL	MAU
224	078416	MR PORWAL RAKESH	UDAIPUR	244	079380	MR VISHNOI VIBHOR	NOIDA
225	078483	MR SHARMA HARI NARAYAN	JAIPUR	245	079433	MR SACHIN TYAGI	MEERUT
226	078506	MS SHOBHANA SINGH	VARANASI	246	079492	MR KASLIWAL ALOK	JAIPUR
227	078551	MR MANTRI RAKESH	MERTA CITY	247	079508	MS LANGAR PARUL	JAIPUR
228	078596	MR AGRAWAL RAJENDRA	JAIPUR	248	079513	MR MISHRA SHARAD	UDAIPUR
229	078612	MR AGARWAL VINEET	GURGAON	249	079595	MR JAIN AMIT	GHAZIABAD
230	078641	MR JHANWAR SURESH KUMAR	NOIDA	250	079598	MS BANSAL PARUL	AGRA
231	078711	MR PAREEK SUNIL KUMAR	BHILWARA	251	079686	MR MEHTA SANJAY	JAIPUR
232	078712	MS BHANDARI APARNA	JODHPUR	252	079735	MR BANSAL ABHISHEK	JAIPUR
233	078754	MR BRIJESH KUMAR	GHAZIABAD	253	079841	MR ASHISH ASTHANA	LUCKNOW
234	078766	MR JOSHI NEERAJ	UJJAIN	254	079881	MR AJAY MAHESHWARI	NAINITAL
235	078866	MS GUPTA DEEPALI	KANPUR	255	079906	MR VASWANI JITENDRA KUMAR	RUDRAPUR
236	078952	MR JAISWAL MUKUL	VARANASI	256	079930	MR RAJESH BIHARI SHRIVASTAVA	JAGDALPUR
237	078957	MR BALIA VIKAS	JODHPUR	257	079973	MS KHABIYA MEENAKSHI	INDORE
238	078968	MR VARSHNEY KUMAR HEMENDRA	DEHRADUN	258	079993	MR GARODIA VIJAY KUMAR	VARANASI
239	078973	MR PRASHANT NYATI	UDAIPUR	259	080646	MR BANSAL PARVEEN KUMAR	PANAJI GOA
240	079029	MS SINGHAI MONIKA	JABALPUR	260	081426	MR KAUSHIK MAHAVIR PRASAD	NOIDA
241	079178	MS PAWA JEENU	NOIDA	261	081626	MR DHARMENDRA BHANDARI	JAIPUR
242	079230	MR AGARWAL GYANENDER KUMAR	AGRA	262	081886	MR AGARWAL HARISH	GHAZIABAD

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
263	082577	MR RAJESH KUMAR	KANPUR	283	090402	MR SHARMA RAJEEV	GHAZIABAD
264	082584	MR JAIN RAKESH KUMAR	BHIWADI	284	090477	MS KHURANA MADHU	LUCKNOW
265	082699	MR RAPARIA SUNEEL KUMAR	AGRA	285	090671	MR NEERAJ GUPTA	BHILAI
266	082862	MR MATHUR ARVIND KUMAR	JAIPUR	286	090751	MR BANKA VINOD KUMAR	KUSHINAGAR
267	083669	MS ROY OINDRILA	NOIDA	287	091427	MR SANDHU SWARN SINGH	JAIPUR
268	084007	MR GOPALAKRISHNAN MADAN MOHAN	JAGGAYYAPET	288	091622	MR AGRAWAL ANIL KUMAR	NOIDA
269	085723	MR SAXENA ALOK	GHAZIABAD	289	091638	MR MITTAL MAHIM	NOIDA
270	085954	MR AWASTHI KAMAL	RAE BARELI	290	092483	MR GOEL RAJIV	NOIDA
271	086610	MR BAJPAI TUMUL	GREATER NOIDA	291	092535	MR SHARMA RAJESH KUMAR	BHILAI
272	086995	MR GOVIL SHACHINDRA	JAIPUR	292	092727	MR DHANUKA SANJAY KUMAR	LUCKNOW
273	087064	MR MATHUR SANJAY	NOIDA	293	092735	MR SINGHAL AJAY KUMAR	LUCKNOW
274	087398	MR HITENDRA PAL SINGH	NEW DELHI	294	092916	MR GUPTA RAJEEV KUMAR	SRIGANGA NAGAR
275	088234	MR LADDHA RAJESH	KISHANGARH	295	093122	MR JAIN VARDHMAN	NOIDA
276	088551	MR SHARMA ASHOK DEEP	MODINAGAR	296	093258	MR RAJ KUMAR	GHAZIABAD
277	088665	MR AGARWAL PRAVEEN KUMAR	MUMBAI	297	093275	MR AGARWAL ASHISH	NOIDA
278	088706	MR SHARMA DINESH KUMAR	NOIDA	298	093587	MR BHARADWAJ ALOK	BHOPAL
279	088714	MS BHANSALI NEVEDITA	HARDWAR	299	093670	MR MEHRA RAJESH	GHAZIABAD
280	089302	MR BHARAT BHUSHAN	RAISINGH NAGAR	300	094509	MS B MRUDULA VANI	GHAZIABAD
281	089630	MR DEEPAK SHARMA	DEHRADUN	301	094872	MR SANJEEV KUMAR GUPTA	BHOPAL
282	089698	MR MOHD NAZIM	KHURJA	302	094908	MR ARORA MAHESH KUMAR	NOIDA

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
303	094962	MR BAJPAI VIKAS	NOIDA	323	098363	MR ANWANI NARAYAN	NOIDA
304	095063	MR SHARMA RABINDRA KUMAR	NOIDA	324	098411	MR CHAWLA SAMEER	NOIDA
305	095064	MR BYAHUT AJOY KUMAR	SEHORE	325	098531	MR BANSAL DEEPAK	BHIWADI
306	095084	MR SOOD ROHIT	NOIDA	326	098616	MR GOYAL VIPUL	GHAZIABAD
307	095183	MR SINGHANIA AMITABH	KANPUR	327	099032	MR MOON PRAVEEN	NOIDA
308	095242	MR AGARWAL SUNIL	GHAZIABAD	328	099255	MR SHARMA SAJJAN	NOIDA
309	095437	MR VERMA PRADEEP KUMAR	NEW DELHI	329	099330	MR BAGNAL JASPAL SINGH	JAMSHEDPUR
310	095479	MR AGGARWAL MAYANK	GHAZIABAD	330	099752	MR GUPTA SANJIVE KUMAR	GHAZIABAD
311	095688	MR MATHUR SAURABH	JAIPUR	331	099854	MR JHA ASHOK KUMAR	RANCHI
312	095757	MR VISHWANATHAN V	GHAZIABAD	332	103898	MR ASHUTOSH PARASRAMPURIA	INDORE
313	095791	MR AGRAWAL ASHISH	NOIDA	333	104850	MR KOTHARI ALOK KUMAR	JAIPUR
314	096560	MR GUPTA SUBASH CHANDRA	SAHIBABAD	334	105266	MR PITTI VINOD KUMAR	JODHPUR
315	096726	MR MAHESHWARI VIPUL KUMAR	KASGANJ	335	105348	MR RISHI TALWAR	JAIPUR
316	096841	MR VIKAS CHANDRA	HAZARIBAGH	336	105668	MR VEERWANI AKASH HARIRAM	BHILAI
317	097014	MR KATHURIA RAJIV	NOIDA	337	106614	MS RATHI BARKHA MANISH	RAIPUR
318	097421	MR DADOO NITIN	NOIDA	338	106838	MR NAHAR PRAKASH	JAIPUR
319	097945	MR V MAHESHWAR	NOIDA	339	108706	MR SANJESH KUMAR	NOIDA
320	098009	MS SINHA ROY SANCHITA	NEW DELHI	340	108862	MR VISHAL S JAIN	BHOPAL
321	098150	MR PATRO TANUJ	GURGAON	341	109030	MR GOVARDHAN PANNA SINGH	BHOPAL
322	098185	MR GARG PRADEEP KUMAR	KHURJA	342	109290	MR MANOJ AGARWAL	JAIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
343	109770	MR RAJNISH SUWALKA	BHILWARA	363	130973	MR AMIT DADARAO MAHALLE	JAIPUR
344	112976	MR SANWARI ZULFIQUAR ALI	UDAIPUR	364	132024	MS LAXMI SUJANA RAO	JAMSHEDPUR
345	113471	MS SWATI SIDDHARTH MITTAL	JAIPUR	365	132642	MR ROHIT SUNIL GANDHI	PRATAPGARH
346	113591	MR ARUN KUMAR SINGH	JAMSHEDPUR	366	134450	MR CHANDRA SHEKHAR PARMESHWAR SAH	MUMBAI
347	116664	MS KHURANA HEMLATA SAURABH	GHAZIABAD	367	136922	MR SOURABH JAIN	AJMER
348	119036	MS NEHA ASHOK ARORA	MUMBAI	368	137555	MR MAYANK AGRAWAL	SAGAR
349	119422	MS KANCHAN VIPIN MALHOTRA	NAGPUR	369	139891	MR NAVNEET KUMAR SONI	JODHPUR
350	120082	MR DHARMWEER SINGH	RANCHI	370	203787	MS VIDHI MANIHAR	JAIPUR
351	121076	MR ABHISHEK SINGH	REWA	371	205843	MR PRADEEP BHANSALI	JAIPUR
352	121244	MS RUSHDA WASEEM KHAN	BHOPAL	372	207257	MR PRAVEEN KUMAR T	NIZAMABAD
353	122199	MR YOGESH RAIPURIA	AJMER	373	211343	MR SANDEEP SURANA	JAIPUR
354	122949	MR UDAY CHANDRAKANT CHAURASIYA	SHAHNOL	374	211847	MR PUNEET CHADHA	JAIPUR
355	123396	MR AMIT MUNDRA	UJJAIN	375	213811	MS ANUSHA R JAIN	INDORE
356	123565	MR AFTAB GUMANI	UDAIPUR	376	214660	MS VINITA KEDIA	GURGAON
357	123935	MR SUNIL RAMAVTAR SAH	ARARIA	377	218565	MR RAJEEV KUMAR SINGH	SAHARANPUR
358	127057	MR VINEET KUMAR JALAN	HARDWAR	378	223288	MR AMARENDRA KUMAR	RANCHI
359	127299	MS SUVIDHA NAROTTAM PAREEK	JAIPUR	379	400018	MR BANSAL KULESH	INDORE
360	127909	MR KHALIK AHMED	PIPARCITY	380	400020	MR ISHWAR CHAND RAI	LUCKNOW
361	128092	MR MURTAZA ALI MOTI	UDAIPUR	381	400030	MS SINGHAL RUCHI	AGRA
362	130136	MS SAPNA PRATEEK GOLCHHA	RAIPUR	382	400070	MS KHANNA PALUK	BANGALORE

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
383	400114	MR KAPIL JAIN	INDORE	403	400623	MR JAIN AVINASH	JAIPUR
384	400115	MR PANWAR HANS RAJ	JODHPUR	404	400677	MR NIRMAL KUMAR AGARWAL	JAIPUR
385	400239	MR AMIT CHANDRA JAIN	LALITPUR	405	400699	MR SHARMA SUMIT	INDORE
386	400245	MS PARAKH RITU	JAIPUR	406	400723	MR CHHAJED JAYANT	INDORE
387	400270	MR SHARMA KAMAL KANT	INDORE	407	400762	MS ADITI RAI DASTIDAR	RANCHI
388	400301	MR AWASTHI SUDESH KUMAR	KANPUR	408	400773	MS AGRAWAL VIBHUTI	JAIPUR
389	400307	MS AGARWAL SWETA	NOIDA	409	400778	MS SAHAL MUGDHA	JODHPUR
390	400328	MR ABHISHEK VED	INDORE	410	400800	MS DARUKA MANISHA	MUMBAI
391	400367	MR RATHI ASHISH	UJJAIN	411	400889	MR MISHRA ANURAG	NEW DELHI
392	400368	MR RATHI MANISH	UJJAIN	412	400898	MR KHATRI SAMIR	KANPUR
393	400387	MS TAYAL PARUL	NOIDA	413	400994	MR MUBEEN KHAN	JABALPUR
394	400388	MR NIMISHEK VED	INDORE	414	401023	MR ALPESH SURANA	UDAIPUR
395	400427	MR SENGAR PRAVEEN SINGH	LUCKNOW	415	401040	MR SHARMA DHIRAJ	INDORE
396	400431	MR SUDEEP MOHAN	NOIDA	416	401050	MR AGARWAL SAURABH	KANPUR
397	400455	MS MEHTA TRIPTI	KANPUR	417	401076	MR GUPTA BHAVESH	KANPUR
398	400476	MR GUPTA VARUN	DEHRADUN	418	401123	MR MAHESHWARI AMIT	JAIPUR
399	400519	MS AGRAWAL POOJA	PATNA	419	401140	MR ARORA ROHIT	GURGAON
400	400532	MR GUTGUTIA NEERAJ	DHANBAD	420	401151	MS POOJA ARORA	LUCKNOW
401	400569	MR JITENDRA TADI	JAIPUR	421	401211	MR SAURABH VISHNU AGARWAL	PATNA
402	400597	MR NIRANJAN KUMAR SAMARIYA	UDAIPUR	422	401217	MS AGARWAL DURGA	BIKANER

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
423	401242	MR SOMANI VINOD	JAIPUR	443	401723	MR SHAKTI SINGH SHEKHAWAT	JAIPUR
424	401264	MR GUPTA LALIT KUMAR	SHAHJAHAN PUR	444	401827	MR GUPTA AMIT KUMAR	AGRA
425	401276	MR SWAMI HEMKANT	GWALIOR	445	401864	MR MOHD FURQAN WARSI	ALLAHABAD
426	401284	MR MALPANI BHAWANI SHANKAR	JAIPUR	446	401868	MR BAJAJ ABHISHEK	SAHARANPUR
427	401288	MR JOSHI ABHISHEK	UDAIPUR	447	401874	MR KAPOOR SUNNY	JAIPUR
428	401326	MR ABHISHEK KUMAR	PATNA	448	401875	MR KACKER VIKRAM	JAIPUR
429	401336	MR GUPTA AMIT	AHMEDABAD	449	401965	MR RATHORE BHULESH KUMAR	KHARGONE
430	401398	MR AQDAS HUSSAIN	UDAIPUR	450	401966	MR SAXENA MAN MOHAN KUMAR	CHANDAUSI
431	401459	MR AMIT KUMAR	LUCKNOW	451	401967	MS SURJEET KAUR	HANUMANGARH TOWN
432	401487	MR RATHORE DUSHYANT SINGH	UDAIPUR	452	401978	MR GOYAL KAMLESH KUMAR	SIKAR
433	401512	MS MAHESHWARI RADHIKA	JAIPUR	453	401983	MR PARVEEN KUMAR BAJAJ	BIJNOR
434	401514	MR MAHESHWARI MANISH	JAIPUR	454	402011	MR MUKESH KUMAR CHOUDHARY	JAIPUR
435	401545	MR MOHD SHAKIL KHAN	RAJSAMAND	455	402021	MS MODANI PUJA	JAIPUR
436	401565	MR VIJAY VINOD KUMAR	JAIPUR	456	402023	MR BARIYAWAL BASIL	JAIPUR
437	401580	MR GOURAV VALLABH	JAMSHEDPUR	457	402085	MR SRIVASTAV SACHIN ASHA	NEW DELHI
438	401594	MS AGARWAL PARUL	GHAZIABAD	458	402102	MS KHANDELWAL SHILPI	ALWAR
439	401628	MR CHOUDHARY RAVI	BHAGALPUR	459	402171	MS JOSHI ARCHI	UDAIPUR
440	401631	MR LEENIKA SINGH	KANPUR	460	402227	MR CHHAJED ANANT	INDORE
441	401687	MR KOSHIK RITESH	BHOPAL	461	402245	MR BOTHRA RAJESH	BIKANER
442	401709	MR RASTOGI NAVEEN	JAIPUR	462	402264	MS AGARWAL RUCHI	BAREILLY

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
463	402266	MR DARUKA AMIT KUMAR	BHUBANESWAR	483	402866	MR HABLANI SUSHIL	MUMBAI
464	402295	MR AJEET MUNDRA	BEAWAR	484	402922	MR MISHRA PRADEEP KUMAR	JABALPUR
465	402316	MR KOHLI BHUWAN	AJMER	485	402926	MR SRIVASTAVA VISHAL	LUCKNOW
466	402368	MR JAIN AMIT	JAIPUR	486	402977	MS WADHAWAN RUCHI	KANPUR
467	402406	MR NIKHIL AGARWAL	INDORE	487	402978	MR TIWARI BIPIN	NOIDA
468	402439	MS GUPTA SHIPRA	JAIPUR	488	403062	MR KHANDELWAL RISHI KUMAR	JAIPUR
469	402459	MR AGARWAL ABHAY	KANPUR	489	403075	MS KANWAL JEET Kaur KHURANA	AJMER
470	402474	MS MODI MANJARI	RANCHI	490	403088	MR GOEL ROHIT	GHAZIABAD
471	402484	MR AGARWAL SUMIT	JAIPUR	491	403104	MR AGARWAL RAHUL	JAIPUR
472	402507	MR SHEKHAWAT NARENDRA SINGH	JAIPUR	492	403106	MR AGRAWAL SUNIL	JAIPUR
473	402510	MR SAPNA TULSYAN	DALTONGANJ	493	403108	MR TULSHYAN RAVI	LUCKNOW
474	402546	MS GOYAL SHWETA	NOIDA	494	403136	MR GUPTA NITIN	DEHRADUN
475	402634	MR MAHESHWARI MANISH	GURGAON	495	403148	MR CHANDRA CHANDAN	JAIPUR
476	402635	MR MANISH GUPTA	ALWAR	496	403162	MR SHARMA PRATEEK	KOTA
477	402648	MR RANAWAT MANOJ	MANDSAUR	497	403169	MR SINGH VISHAL	RANCHI
478	402687	MS GOYAL ANJALI	BHOPAL	498	403176	MR GUPTA RAKESH KUMAR	ALWAR
479	402696	MR GUPTA MOHIT	KOTA	499	403196	MR MUKTI LAL	JAIPUR
480	402803	MR MODI AJAY	MADHUPUR	500	403233	MR KUSHAWAHA SUNIL KUMAR SINGH	ALLAHABAD
481	402821	MR JAIN GAURAV KUMAR	INDORE	501	403265	MS SHAH NEERA ASHISH	UJJAIN
482	402828	MR GUPTA ABHINANDAN	MUMBAI	502	403271	MR JAIN NEMI CHAND	JAIPUR



SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
503	403273	MR BADAYA GIRDHAR KUMAR	JAIPUR	523	403879	MR JAIN SACHIN	JHANSI
504	403304	MR HOZEFA RASHID SAIFUDDIN	UDAIPUR	524	403888	MR CHANDAK NIRMAL	MUMBAI
505	403318	MR NAGPAL AMIT	GURGAON	525	403920	MR SODHANI HIMANSHU	JAIPUR
506	403344	MS JAIN MITU	JAIPUR	526	404016	MR ALYA ANKUR	BHOPAL
507	403380	MR JAIN SUBHASH KUMAR	JAIPUR	527	404034	MR NAQVI SHABAB HAIDER	ALLAHABAD
508	403444	MS YADAV DISHA	JAIPUR	528	404057	MR LODHA ASHISH	MUMBAI
509	403465	MR MUBARAK ABID HUSAIN TAJ	DOHA	529	404068	MR JAIN ARVIND	JODHPUR
510	403517	MR DEEPAK SEERUWANI	GWALIOR	530	404083	MR ROONGTA RAHUL	UDAIPUR
511	403536	MR JAIN ROOPAK	GURGAON	531	404087	MR JAIN NITESH KUMAR	UJJAIN
512	403553	MR VIJAY SHARMA	RATLAM	532	404102	MS VAIDYA RANJANI	BHOPAL
513	403564	MR SIROTHIA SHARAD	NOIDA	533	404140	MR AJIT KUMAR	PATNA
514	403576	MR JAITHLIA MUKESH	AHMEDABAD	534	404154	MR AGRAWAL RAM KISHAN	JAIPUR
515	403609	MR BAJPAI PADMESH KUMAR	KANPUR	535	404175	MS GADIA SULBHA	RATLAM
516	403611	MS VERMA SHWETA	LUCKNOW	536	404190	MR AIREN PRAKHAR	INDORE
517	403626	MR GULATI GAURAV	AGRA	537	404200	MR MISHRA ARUN KUMAR	BHILAI
518	403656	MR CHOUBEY SATISH	GWALIOR	538	404204	MS KHUTETA SURABHI	NEW DELHI
519	403684	MS SACHDEV HANI	UDAIPUR	539	404212	MR SIDDIQUI AKRAM WASIM	RAIPUR
520	403720	MR IMTIYAZ SHAIKH	BHOPAL	540	404294	MR GUPTA NITIN	SAHIBABAD
521	403731	MR ASTHANA ABHISHEK	LUCKNOW	541	404311	MS PRIYANKA SINGHAL	JAIPUR
522	403761	MR KAPUR SUMIT	AGRA	542	404318	MS KHANDELWAL SHIVA	JAIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
543	404334	MR WAGH SANTOSH	INDORE	563	404831	MR MANOJ HABLANI	INDORE
544	404343	MR KHAN MOHAMMAD FAWAD	REWA	564	404835	MS JAIN APEKSHA	AGRA
545	404397	MR BANSAL ANIL	UDAIPUR	565	404852	MS DANI PRIYANKA	JAIPUR
546	404408	MR SINGH GAGAN DEEP	KOTA	566	404854	MR GOYAL VIJAY	JODHPUR
547	404428	MS JAIN VAISHALI	BHOPAL	567	404862	MR NAHAR PRANAY MAHENDRA	MUMBAI
548	404441	MR GUPTA HEMANT	JABALPUR	568	404868	MS SANGOI RENU	RAIPUR
549	404460	MS PURI CHITWAN	DEHRADUN	569	404901	MS GOLCHHA VIJAYA	RAIPUR
550	404467	MR SINGHVI AJAY	JODHPUR	570	404938	MR AGARWAL MANISH	BULAND SHAHR
551	404562	MR AGARWAL ANIRUDH	JAIPUR	571	404964	MR AGARWAL AJAY	AJMER
552	404586	MR JAIN NITIN SAJJAN	UDAIPUR	572	404977	MR MEHROTRA PANKAJ	KOTA
553	404587	MR JAIN RAHUL HIRALAL	BANSWARA	573	404983	MR PITLIYA VIMAL	UDAIPUR
554	404608	MS AGGARWAL MONIKA	DEHRADUN	574	404989	MR PRIYESH MANDOWARA	INDORE
555	404614	MR GULATI SUMIT	CHENNAI	575	405115	MR RASTOGI RAJAT	RANCHI
556	404626	MS DARUKA NIDHI	BHILWARA	576	405130	MR KHAN SHARIQ	JAIPUR
557	404705	MR JOSHI HEMANT	JAIPUR	577	405138	MS AGARWAL VIJEYTA	JAIPUR
558	404736	MR DEEPAK BHATIA	INDORE	578	405204	MR GARG VIPIN	LUCKNOW
559	404738	MR KHATER ANKUR	JAIPUR	579	405283	MR DANGAYACH GIRISH	JAIPUR
560	404763	MR AJMERA SACHIN	JAIPUR	580	405320	MR UVRAJ CHOUDHARY	NOIDA
561	404814	MS BIRLA PRIYANKA	CHITTORGARH	581	405369	MR DINESH KUMAR VERMA	BHOPAL
562	404826	MR ASWANI PRADEEP	JAIPUR	582	405390	MS NEHA VED	BHOPAL

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
583	405399	MR SANJAY KUMAR SHARMA	JAIPUR	603	405700	MR NITIN HUNDIA	JAIPUR
584	405420	MS DEEPA BANSAL	SRIGANGA NAGAR	604	405708	MR RAKESH KUMAR AGRAWAL	RANCHI
585	405464	MR ANURAG JAGISOT	BANSWARA	605	405755	MR AMIT GOEL	MUZAFFAR NAGAR
586	405468	MR KISHORE HABLANI	INDORE	606	405765	MR VIPIN KUMAR SRIVASTAVA	CHANDIGARH
587	405499	MR PRAVEEN KUMAR JAIN	INDORE	607	405780	MR VARUN VINAY GARG	AGRA
588	405518	MS AYUSHI SINGH	RANCHI	608	405796	MR NISHANT TANDON	BAREILLY
589	405545	MR VIVEK GOYAL	BHARATPUR	609	405797	MR ANKIT TANDON	KANPUR
590	405549	MS ANKITA JAIN	GHAZIABAD	610	405872	MR RAKESH KUMAR JAIN	MALPURA
591	405565	MR ASHISH LODHA	JAIPUR	611	405931	MR CHITIN SAPARIA	HATHRAS
592	405586	MS PRAGATI GOEL	NOIDA	612	405970	MR ANURAG KUMAR SRIVASTAVA	KANPUR
593	405591	MR ANAND SONI	JODHPUR	613	405974	MR SUNIL KUMAR PANDEY	NOIDA
594	405597	MR DEEPAK GARG	SRIGANGA NAGAR	614	405978	MS SHIKHA PANDEY	LUCKNOW
595	405606	MS MEENAKSHI AGARWAL	BHILWARA	615	406000	MR BRAJESH KUMAR PANDEY	ALLAHABAD
596	405608	MR VIPIN KARNANI	JAIPUR	616	406021	MR MANISH GOEL	BAREILLY
597	405615	MR SAMARJEET MITRA	RAIPUR	617	406026	MR BHUVAN AHUJA	AGRA
598	405629	MR GAURAV KUMAR SRIVASTAVA	NOIDA	618	406068	MR SACHIN AGARWAL	AGRA
599	405646	MR KAMLESH JHALANI	JAIPUR	619	406128	MS POOJA KHANDELWAL	JAIPUR
600	405658	MR ANURAG SHARMA	UDAIPUR	620	406156	MS SHEELA PARWANI	GWALIOR
601	405678	MR RAJKUMAR RATHI	MUMBAI	621	406157	MS NIKITA PODDAR	INDORE
602	405690	MS D CHANDRAWATI	JAMSHEDPUR	622	406168	MR VIVEK KALANI	GURGAON

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
623	406201	MR VISHAL ARORA	DELHI	643	406460	MR PUNEET CHAWLA	NOIDA
624	406306	MR PRAVEEN KALANI	JAIPUR	644	406500	MR GIRISH SIVARAMAKRISHNAN	JAMSHEDPUR
625	406307	MR ANIL KUMAR KHANDELWAL	JAIPUR	645	406543	MS ARPITA KHANDELWAL	AGRA
626	406308	MR SUNIL KUMAR AGRAWAL	JAIPUR	646	406544	MR MAYANK GUPTA	AGRA
627	406336	MR NITIN BAJAJ	INDORE	647	406557	MR SAKET VIJAYVERGIA	MUMBAI
628	406344	MR KAPIL JOSHI	MUMBAI	648	406581	MR FULESH BANSAL	UDAIPUR
629	406345	MR ADITYA KEDIA	HANUMANGARH TOWN	649	406585	MS NEHA TULSYAN	MUMBAI
630	406348	MR ROHIT GUPTA	GHAZIABAD	650	406591	MS SARITA ROCHWANI	UJJAIN
631	406353	MR VIVEK KUMAR GUPTA	SRIGANGA NAGAR	651	406609	MR ASHUTOSH BAGADIA	JAIPUR
632	406371	MR KAPIL SHARMA	GHAZIABAD	652	406612	MR GHANSHYAM GUPTA	PUNE
633	406376	MR KAPIL KUMAR BHARDWAJ	AJMER	653	406622	MR PEEYUSH NEMA	JABALPUR
634	406388	MS SHALINI JAIN	SRIGANGA NAGAR	654	406670	MR YOGESH KUMAR AGRAWAL	MUMBAI
635	406392	MR VIJAY DASHORE	INDORE	655	406684	MS NEETA TALESARA	JODHPUR
636	406396	MR ANURAG TYAGI	GHAZIABAD	656	406736	MS KHUSHBOO KAPOOR	GURGAON
637	406411	MR YOGESH KUMAR YADAV	JAIPUR	657	406748	MR SANDEEP KUMAR	GHAZIABAD
638	406413	MR DHARMVEER KUMAR	PATNA	658	406750	MS SUDHA SHARMA	GURGAON
639	406424	MR PARAG AGARWAL	GURGAON	659	406754	MR BAL KISHAN BAGLA	PANIPAT
640	406433	MR DEEPAK SINGHI	NEW DELHI	660	406773	MR VIBHOR RAJVANSHI	MEERUT
641	406453	MR AJAY GUMBAR	BHARATPUR	661	406785	MS SWEETY LUNIA	INDORE
642	406455	MR MUKESH KUMAR CHAURASIYA	CHHATARPUR	662	406797	MR SIBI JOSEPH	MUMBAI

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
663	406806	MR ASHOK KUMAR SINGH	ALLAHABAD	683	407140	MR SANDEEP TAYAL	GHAZIABAD
664	406813	MR KAJAL KUMAR SINGH	DHANBAD	684	407147	MR KAN SINGH	JODHPUR
665	406839	MS BHAVNA GUPTA	AJMER	685	407180	MS REKHA SOBHANI	JAIPUR
666	406846	MS NIVRITTI MISHRA	BHOPAL	686	407243	MR ASHISH GUPTA	AJMER
667	406864	MR GAURAV AGARWAL	BAHRAICH	687	407270	MR GAGANDHIR SINGH KHURAL	JABALPUR
668	406898	MR PRIYANK KUMAR JAIN	INDORE	688	407279	MR ARUN JAIN	UDAIPUR
669	406906	MR IMTIAZ AHMED SIDDIQUI	ALLAHABAD	689	407287	MR NITIN JAIN	MUMBAI
670	406917	MR KAUSTUBH KUMAR MITTAL	JAIPUR	690	407289	MR AASHISH JAIN	INDORE
671	406923	MS VIJETA SHARMA	JAIPUR	691	407290	MR SUMIT AGRAWAL	BARWANI
672	406992	MR SAURABH MAHESHWARI	AGRA	692	407301	MR MANOJ KUMAR GUPTA	SATNA
673	407011	MS ADITI AGARWAL	AGRA	693	407312	MR VAIBHAV BHAGAT	KANPUR
674	407016	MS RASHI AGARWAL	JHANSI	694	407355	MR NITIN JALAN	GORAKHPUR
675	407032	MS SAMRIDHI PAREEK	JAIPUR	695	407358	MS TANISHA BANGAR	BHILWARA
676	407054	MR PRABHAT KUMAR	PATNA	696	407361	MR MRIGANK SINHA	GHAZIABAD
677	407062	MR ANUJ KUMAR	GHAZIABAD	697	407375	MR ABHINANDAN KEDAWAT	JAIPUR
678	407074	MR MOHD HASAN ZAIDI	LUCKNOW	698	407381	MR SUJIT KUMAR	PATNA
679	407087	MS REENA LACHHIRAMKA	MADHUPUR	699	407400	MR RASHIM MEHTA	JODHPUR
680	407091	MS SWATI TIWARI	GWALIOR	700	407404	MR PRAVEEN JAISWAL	INDORE
681	407094	MR GORA GOSWAMI	RAMGARH	701	407406	MR RAJESH BIRLA	JAIPUR
682	407125	MR ANUJ GUPTA	JHANSI	702	407490	MR ANKIT PARIKH	CHENNAI

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
703	407522	MR SARFARAZ AHMAD	RANCHI	723	408023	MR ANKIT AJMERA	JAIPUR
704	407568	MR MOHIT AGARWAL	AGRA	724	408053	MR PRIYANSHU JAIN	FIROZABAD
705	407595	MR SANDEEP MISHRA	KANPUR	725	408059	MR SHIVENDRA	BHIWADI
706	407618	MS RASHMI BHANSALI	JAIPUR	726	408063	MR VARUN TOMAR	LUCKNOW
707	407633	MR VIKAS JAIN	JAIPUR	727	408117	MR SOURABH MEHTA	JODHPUR
708	407642	MS SONAL KEJRIWAL	KANPUR	728	408128	MR MANOHAR SINGH RATHORE	JODHPUR
709	407647	MR JAI KUMAR SAHANI	BANGALORE	729	408175	MR ASHUTOSH SAHU	ALLAHABAD
710	407671	MR RAHUL RASTOGI	LUCKNOW	730	408177	MR KULDEEP CHOUHAN	INDORE
711	407707	MR NITIN KUMAR GUPTA	AGRA	731	408201	MR DEEPAK BABBAR	BUNDI
712	407710	MR VIRENDRA KUMAR SHARMA	TUNDLA	732	408203	MR MANJEET KUMAR	LUCKNOW
713	407743	MR JOY DAS	GHAZIABAD	733	408206	MR SACHIN KAPOOR	BAREILLY
714	407756	MR ANSHU SHARMA	LUCKNOW	734	408214	MR ACHIN KUMAR BHATI	MUMBAI
715	407761	MR SHIVA JAISWAL	GURGAON	735	408277	MR MANISH JAIN	CHITTORGARH
716	407765	MR HIMANSHU NAGPAL	GURGAON	736	408279	MR PARUL AGARWAL	GURGAON
717	407798	MR VIPIN BOHRA	SOJAT CITY	737	408309	MR ASHISH AGARWAL	JAIPUR
718	407803	MR MANISH AGARWAL	BIKANER	738	408343	MR MOHAMMAD ARSHAD	LUCKNOW
719	407848	MR NIKHIL GUPTA	JAIPUR	739	408385	MR VISHAL JAISWAL	LUCKNOW
720	407926	MR ASHISH JAIN	JAIPUR	740	408423	MR MAHESH KUMAR GOYAL	NOHAR
721	408017	MR KUHOON SONI	RAISEN	741	408424	MR JITENDER JHAMNANI	AJMER
722	408020	MR NAVEEN JAIN	BANGALORE	742	408456	MR AJAY JAIN	NEW DELHI

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
743	408463	MR ANUJ KUMAR MATHUR	JAIPUR	763	408823	MR SATYENDRA KUMAR RAI	VARANASI
744	408475	MR GAURAV GUPTA	AGRA	764	408843	MR HARPREET SINGH	NEW DELHI
745	408492	MR MUKESH KUMAR AGRAWAL	ALWAR	765	408920	MR GAURAV GUPTA	KHARAGPUR
746	408497	MS NUPUR GUPTA	ALWAR	766	408946	MR NITIN AGRAWAL	MATHURA
747	408500	MR PRADEEP KALATHIL	JAIPUR	767	408960	MR MANOJ KUMAR DHUREJA	INDORE
748	408504	MS NIDHI KHANNA	JABALPUR	768	408963	MR MAYANK KHANDELWAL	BARWAHA
749	408509	MR PRIYANK AGARWAL	BAREILLY	769	408967	MR RAJEEV AGRAWAL	GWALIOR
750	408519	MR WASEEM MEHMOOD KHAN	MUMBAI	770	408971	MR ANIL KUMAR JAIN	JAIPUR
751	408537	MR SANDEEP KUMAR JETHALIYA	INDORE	771	408986	MS SHEETAL KEJRIWAL	SIKAR
752	408547	MS NIDHI KAKKAR	MUMBAI	772	408997	MR ANKUR MEHROTRA	JAMSHEDPUR
753	408585	MR AMIT AGRAWAL	NOIDA	773	409022	MR SANKALP K AGRAWAL	HYDERABAD
754	408588	MR MANISH KUMAR GARG	GHAZIABAD	774	409025	MR NITIN SHARMA	JAIPUR
755	408651	MR HITESH DHADDHA	JODHPUR	775	409027	MR MANISH KUMAR KAYAL	NEW DELHI
756	408684	MR SUMEET SHARMA	JAIPUR	776	409040	MR NEELIMA KHANDELWAL	KANPUR
757	408693	MR PRASHANT SACHAN	BIKANER	777	409041	MS APARNA AGRAWAL	VARANASI
758	408706	MR PUNEET KUMAR AGRAWAL	ANUPSHAHR	778	409042	MR DEEPAK BHATIA	GHAZIABAD
759	408740	MR ALOK PANDAY	ALLAHABAD	779	409085	MR AMIT AGGARWAL	JAIPUR
760	408765	MR RAHUL GUPTA	MEERUT	780	409092	MR SAMIR NIJHAWAN	GURGAON
761	408772	MR JATINDER PAL SINGH	NEW DELHI	781	409113	MR SHASHI KANT	PATNA
762	408809	MR AJAY KRISHNA HARIT	CHURU	782	409128	MS AGYA KHURDELIA	BHOPAL

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
783	409137	MS SUMAN JINDAL	JAIPUR	803	409422	MR SARVESH MITTAL	MATHURA
784	409139	MR SANJAY PD BARANWAL	GOMIA	804	409426	MR DEEPAK PAGARIA	CHITTORGARH
785	409143	MR SACHIN JAIN	MEERUT	805	409486	MR ANU POPLI	JAIPUR
786	409159	MR ANIL KUMAR SHARMA	JABALPUR	806	409569	MR KAPIL BOKADIA	UDAIPUR
787	409167	MS AANCHAL SETH	JABALPUR	807	409581	MR GYANENDRA SWARNKAR	BHOPAL
788	409169	MS NEHA AGARWAL	NOIDA	808	409611	MS SHIKHA JAIN	JAIPUR
789	409171	MR NEERAJ PATHAK	RANCHI	809	409630	MR KAMLESH MANPURIA	RANCHI
790	409172	MR ABHISHEK	ALLAHABAD	810	409664	MR RUCHIR JAIN	JAIPUR
791	409176	MR YASER SHAHID	DARBHANGA	811	409707	MR MAHESH MANIHAR	JODHPUR
792	409181	MR SRIKANT K	DURG	812	409712	MR MAYANK VARSHNEY	CHANDAUZI
793	409208	MS MANPREET KAUR TUTEJA	INDORE	813	409730	MR DEEPAK NENWANI	BHOPAL
794	409215	MS KARUNA BHAMBHANI	AJMER	814	409767	MR KRISHNA SHARMA	JAIPUR
795	409223	MR SUBHDEEP JOHRI	BAREILLY	815	409789	MR ANSHUL JAIN	JAIPUR
796	409236	MS SHEETAL SANKHALA	NAGDA	816	409798	MS NIDHI MALANI	JAIPUR
797	409262	MR SUDHIR KUMAR	JAMSHEDPUR	817	409827	MR SANJAY KUMAR SHARMA	SIKAR
798	409293	MR VISHNU KHANDELWAL	JAIPUR	818	409870	MR RAHUL OJHA	INDORE
799	409311	MS KAMNA NIGAM	BHOPAL	819	409880	MR VIKAS AGARWAL	LAKHIMPUR KHERI
800	409356	MR VIKRAM KUMAR	SHEOGANJ	820	409904	MS RADHIKA ARORA	GURGAON
801	409364	MR SUSHIL KUMAR	FAIZABAD	821	409906	MR PRAMOD KUMAR GUPTA	GURGAON
802	409399	MS RUCHIKA AGARWAL	JAMSHEDPUR	822	409921	MR PRAMOD KUMAR JAIN	AURANGABAD (MH)



SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
823	409925	MR RAJ KUMAR NADER	NEW DELHI	843	410327	MR SANJEEV KUMAR PODDAR	JAMSHEDPUR
824	409959	MR FIROZ ALI BARNAGARWALA	INDORE	844	410328	MS NEHA THAKUR	RANCHI
825	409999	MR GAURAV BHATIA	AGRA	845	410329	MR KIRTEYA JAIN	JAIPUR
826	410023	MR KUMAR SAURABH	LUCKNOW	846	410330	MR RITESH KOTHARI	BHOPAL
827	410036	MR GYANDEEP MITTAL	KANPUR	847	410349	MR MAHESH KUMAR BIRLA	INDORE
828	410064	MR GAJENDRA KUMAR CHATURVEDI	MATHURA	848	410358	MR SHASHANK GUPTA	NEW DELHI
829	410079	MR ASHUTOSH JOSHI	JAIPUR	849	410368	MR DURGESH SACHDEV	KANPUR
830	410174	MR JITENDRA KUMAR KHANDELWAL	JAIPUR	850	410401	MR SHASHANK GARG	KOTA
831	410182	MS SHIKHA SHARMA	ALWAR	851	410410	MR SANJEEV KUMAR VARSHNEY	ALIGARH
832	410187	MR NIKHIL MEHTA	JODHPUR	852	410489	MR PIYUSH MITTAL	NEW DELHI
833	410192	MR RAJUL DUBE	KANPUR	853	410490	MR SUMIT KUMAR	JODHPUR
834	410214	MR GAURAV PANCHOLIA	PUNE	854	410541	MR VISHAL KUMAR	DHANBAD
835	410242	MR GAURAV LODHA	JAIPUR	855	410547	MR VIVEK KUMAR ARORA	MEERUT
836	410246	MS VINEETA MEHRA	VARANASI	856	410559	MR RAHUL JAIN	INDORE
837	410247	MR SHIVENDRA KUMAR GUPTA	VARANASI	857	410565	MR SHUBHAM AGARWAL	BHOPAL
838	410255	MR SHRENIK JAIN	BHILWARA	858	410567	MR VINOD KUMAR PANDEY	ALLAHABAD
839	410292	MS POOJA JAIN	JODHPUR	859	410575	MR RAM SINGH YADAV	JAIPUR
840	410300	MR MIRZA JAMIR BEG	GURGAON	860	410579	MS PALLAVI JHAJHARIA	KANPUR
841	410301	MR AKSHAY AGARWAL	BAREILLY	861	410629	MR ANKUR WADHWA	JAIPUR
842	410320	MR SANJEEV KUMAR MANGAL	BHOPAL	862	410641	MR AVINASH GOYAL	ALWAR

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
863	410653	MS REKHA BHANSALI	JODHPUR	883	410990	MR PRAVEEN KUMAR SINGH	KANPUR
864	410654	MR VIKAS KUMAR JAIN	INDORE	884	410996	MS SHIPRA KHANDLWAL	JAIPUR
865	410661	MR ARVIND KUMAR JAISWAL	GORAKHPUR	885	411015	MR HUSSAIN HAIDRY	INDORE
866	410684	MR NOOPUR GARG	ALLAHABAD	886	411036	MR DEEPAK GUPTA	LUCKNOW
867	410688	MR MUKESH SONI	CHHINDWARA	887	411108	MR SAURABH HARLAKA	INDORE
868	410699	MR HEMANT BHANDARI	JHABUA	888	411130	MR GIRISH GOYAL	MUMBAI
869	410701	MR PAWAN GUPTA	MEERUT	889	411175	MS JAYA MANSUKHANI	BHOPAL
870	410711	MR BHARAT KUMAR GOYAL	ALWAR	890	411186	MR VIJAY KUMAR	BHADOHI
871	410718	MR BINAY KRISHNA	PATNA	891	411203	MS SHWETA MEHTA	GHAZIABAD
872	410727	MS PRIYANSHI GOYAL	JAIPUR	892	411206	MR GAURAV SOMANI	MUMBAI
873	410730	MS JYOTI CHOUHAN	INDORE	893	411219	MR ABHINAV SHARMA	JAIPUR
874	410746	MR MUKUL JAIN	MUZAFFARNAGAR	894	411246	MR CHANDAN MATHUR	JODHPUR
875	410763	MR OM PRAKASH PANDEY	JAMSHEDPUR	895	411251	MR MUKESH RATHI	NATHDWARA
876	410784	MR NEETA SHEVKANI	NEW DELHI	896	411287	MR NAVIN KUMAR	JAIPUR
877	410789	MR SUSHIL KUMAR DEVTA	THANE	897	411290	MR VIRENDRA SINGH SOLANKI	DHAR
878	410877	MR ANKIT JAIN	LUCKNOW	898	411325	MR MOHAMMAD FAHAD KHALID	LUCKNOW
879	410883	MS VANDANA MAHESHWARI	INDORE	899	411369	MR NARESH MAGHANI	JAIPUR
880	410900	MS SHWETA AGARWAL	KANPUR	900	411380	MS MEENAL LODHA	JODHPUR
881	410922	MR RAKESH AGARWAL	JODHPUR	901	411399	MS KARISHMA JAIN	JASHPUR NAGAR
882	410948	MR DEEPAK BAGRECHA	GANDHIDHAM	902	411474	MR RAMANDEEP MADHOK	PUNE

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
903	411487	MR GAURAV AGARWAL	AJMER	923	411974	MS SONAL JAIN	JAIPUR
904	411495	MR SHASHIKANT PALADIA	BHILAI	924	411981	MR ABHISHEK AGRAWAL	SIKAR
905	411533	MR ATUL JAIN	DAMOH	925	412006	MR MANISH JAIN	INDORE
906	411617	MR PAVNEET SINGH SALUJA	INDORE	926	412054	MS POOJA BATWAL	INDORE
907	411637	MR ASHISH RAIKWAR	SAGAR	927	412062	MS POOJA SHRIVASTAVA	JABALPUR
908	411714	MR RISHI PRAKASH	ALLAHABAD	928	412075	MR ABHISHEK BAHETI	THANE
909	411742	MR ARUN SINGH	JAIPUR	929	412087	MR GAURAV GARG	AGRA
910	411765	MR PRATIKSHIT PAREEK	JAIPUR	930	412091	MR ASHWANI KUMAR JAIN	TONK
911	411768	MR AMRTANSH DUBEY	INDORE	931	412105	MR GAGANDEEP SINGH	SAHARANPUR
912	411771	MS SHWETA SHARMA	JAIPUR	932	412156	MR HIMANI ARORA	JAIPUR
913	411791	MR SANTOSH KAG	MUMBAI	933	412168	MR GANESH KUMAR KESHRI	ARRAH
914	411802	MR RAVI RANJAN	MUZAFFAR PUR	934	412212	MS NEHA JAIN	BANGALORE
915	411834	MR AMIT NATH	RANCHI	935	412223	MR GAJESH BHANDARI	JODHPUR
916	411836	MR KARAN MITTAL	JAIPUR	936	412255	MR TARKESHWAR SINGH	THRISSUR
917	411852	MR ASHISH JAIN	INDORE	937	412257	MS RADHA JAJU	MAINPURI
918	411862	MR UCEE CHHABRA	LUCKNOW	938	412267	MS POOJA AGARWAL	HYDERABAD
919	411869	MR NANDI VARDHAN MEHTA	JODHPUR	939	412287	MR RAHUL JAIN	JAIPUR
920	411884	MS MEENAKSHI CHELANI	AJMER	940	412297	MR PRABHAT GUPTA	KOTA
921	411889	MR PRITESH MAHAJAN	KHARGONE	941	412304	MR NEERAJ KHATTRI	INDORE
922	411917	MR LALIT MAKANI	SAHARANPUR	942	412370	MS NIDHI AJMERA	MUMBAI

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
943	412396	MR DEEPTI HEMNANI	UDAIPUR	963	413289	MR ASHISH VAISH	NOIDA
944	412426	MR RAJNEESH JAISWAL	INDORE	964	413298	MR AMOGH GUPTA	KOTA
945	412475	MR AKASH JAJOO	BUNDI	965	413303	MR PRAVEEN SHARMA	MUMBAI
946	412496	MR ABHISHEK HARDEY	LUCKNOW	966	413319	MR NIRAJ KUMAR SINGH	PATNA
947	412611	MR BHAWANI SHANKER MODI	JHUNJHUNU	967	413324	MR JITENDRA KUMAR ARORA	MATHURA
948	412701	MR SHARAD GOVINDLAL AGRAWAL	INDORE	968	413347	MR BHISHM NARAYAN SINGH	VARANASI
949	412734	MR ARPIT SINGHAL	NEW DELHI	969	413358	MR NAVEEN KUMAR DWIVEDI	DURG
950	412745	MS NEHA SHUKLA	MUMBAI	970	413383	MS SURABHI AGARWAL	BHOPAL
951	412758	MR ANKESH GOYAL	NEW DELHI	971	500366	MR RANA GOPAL SINGH	GURGAON
952	412853	MR SANJAY KUMAR SINGH	UDAIPUR	972	500404	MR PRADEEP KUMAR	SAHARANPUR
953	412871	MR SUBODH KUMAR GAWANDE	BHOPAL	973	500499	MR VERMA AMIT KUMAR	GHAZIABAD
954	412875	MS JAGRITI AGARWAL	BIKANER	974	500587	MR SANJIT KUMAR	CHHAPRA
955	412900	MR AMIT KUMAR AGARWAL	KANPUR	975	501058	MR SUDHIR	GHAZIABAD
956	412977	MS SWATI BINDAL	JAIPUR	976	501207	MR RAJEEV KUMAR	HARDWAR
957	412984	MR SACHIN BHARGAVA	JAIPUR	977	501497	MS JAIN TINKI	GURGAON
958	413025	MR RAHUL GUPTA	MUMBAI	978	501513	MR SINGH PUSHPINDER	GHAZIABAD
959	413033	MR BHAIRAV KUMAR	PATNA	979	501618	MR AGARWAL MOHIT NARESH	LUCKNOW
960	413132	MR ASHOK KUMAR RAMAWAT	MADANGANJ KISHANGARH	980	501655	MS KWATRA MEENAKSHI	GHAZIABAD
961	413138	MS PAYAL KHANDELWAL	JAIPUR	981	501808	MR BHANSALI NEERAJ	NOIDA
962	413190	MR SHYAM SUNDER JHANWAR	JAIPUR	982	501906	MR SINGH PARMINDER	KANPUR

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
983	501981	MR JAIN TULSI RAJ	DELHI	1003	505402	MR JHA ASHUTOSH	DHANBAD
984	502523	MR GARG SANDEEP	HISAR	1004	505482	MS SHALU RISHIRAJ HALDANKAR	MUMBAI
985	502674	MR RAWAL AMIT	INDORE	1005	505584	MR AMANDEEP SINGH	NOIDA
986	502802	MR SARVESH KUMAR	GHAZIABAD	1006	505767	MR PANKAJ KUMAR	PATNA
987	502901	MR NAGRATH ROHIT RANJAN	DEORIA	1007	505857	MR BHARDWAJ MAYANK	GURGAON
988	503401	MR MOHANTY CHITTARANJAN	GHAZIABAD	1008	505949	MR CHAWLA KAPIL	MEERUT
989	503838	MR SINHA KRISHNA PRATAP	BOKARO STEEL CITY	1009	506052	MR ANURAG RAJAN	NEW DELHI
990	504078	MR MD NASIR HUSSAIN	DARBHANGA	1010	506088	MR SWATANTRA KUMAR SINGH	MANKAPUR
991	504226	MS SHUKLA SWAPNILI	KANPUR	1011	506089	MR PANKAJ SINGHAL	JAIPUR
992	504285	MR KASHYAP MANISH	JAIPUR	1012	506646	MS SUNITA BISWAS	GURGAON
993	504355	MR SHARMA SOHAN KUMAR	PATNA	1013	506709	MR KUSHAL SHARMA	GHAZIABAD
994	504372	MS MITTAL MONIKA	NOIDA	1014	507082	MR AWADHESH KUMAR	BOKARO STEEL CITY
995	504436	MR PRASANT KUMAR SINGH	VARANASI	1015	507114	MS MANSI UPADHYAY	MEERUT
996	504768	MR MANISH KUMAR	PATNA	1016	507272	MR RAHUL KAUSHIK	GURGAON
997	504859	MR MAHAJAN PRAVIN	ALWAR	1017	507355	MR PURUSHOTTAM KUMAR SINGH	GHAZIABAD
998	504924	MR LALL RAMDEV	NOIDA	1018	507487	MS POOJA BHARGAVA	MUMBAI
999	504971	MR SINGH RAJ KUMAR	PATNA	1019	507494	MR KAMAKHYA SHARAN DWIVEDI	GHARWA
1000	505237	MR PATRO B BAPUJEE KUMAR	NOIDA	1020	507548	MR SUJIT KUMAR	GOPALGANJ
1001	505239	MR KARNANI PANKAJ	SRIGANGA NAGAR	1021	507679	MR MANISH KEDIA	JAIPUR
1002	505281	MS SHARMA SARIKA	MODINAGAR	1022	507946	MR SANJAY KUMAR RAI	GHAZIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1023	508134	MR AMRIT PAL SINGH	LUCKNOW	1043	510143	MR SHALIN DESAI	GHAZIABAD
1024	508361	MR DEEPAK RAJ GUPTA	RANCHI	1044	510337	MR SUMIT GAUTAM MISHRA	GORAKHPUR
1025	508548	MR ASHOK KUMAR OJHA	PATNA	1045	510393	MR ANKUR JAIN	AGRA
1026	508712	MR ARPAN JAIN	MEERUT	1046	510422	MR HARS KUMAR	KHURJA
1027	508737	MR ANKUR GARG	NOIDA	1047	510460	MR RAKESH KUMAR	NAGPUR
1028	508792	MS ANUSHRI MEHER	DEWAS	1048	510537	MR HARSH JAIN	GURGAON
1029	508805	MR LAKSHMAN SHARMA	GHAZIABAD	1049	510552	MR SANJAY KUMAR SINHA	NOIDA
1030	509103	MR ANKIT GARG	MUZAFFAR NAGAR	1050	510741	MS ANKITA BHATNAGAR	NEW DELHI
1031	509277	MR RAJESH KUMAR PANDEY	PATNA	1051	510782	MR K S ANURAJ	NOIDA
1032	509361	MS SONIA GUPTA	GHAZIABAD	1052	510869	MR MRINAL SAJWAN	GHAZIABAD
1033	509444	MR RAM RATAN SINGH	GAYA	1053	510872	MS MANJARI AGARWAL	JHANSI
1034	509632	MR RAJAT AGARWAL	ALLAHABAD	1054	510921	MR ABHISHEK MAN SINGH	VAISHALI
1035	509716	MR YUVRAJ SINGH BHOWN	JAIPUR	1055	510923	MR NIKHAR MATHUR	GHAZIABAD
1036	509732	MR ANKUR JAIN	GHAZIABAD	1056	510991	MR VINAY MISHRA	VARANASI
1037	509757	MS SURUCHEE MATHUR	NOIDA	1057	511020	MR PANKAJ GUPTA	JALAUN
1038	509763	MR PRAMOD KUMAR PANDEY	GHAZIABAD	1058	511039	MS MANISHA JAIN	SAHARANPUR
1039	509807	MR PANKAJ KHANDELWAL	HATHRAS	1059	511046	MR AMIT AGGARWAL	GHAZIABAD
1040	509927	MR HEMANT AGARWAL	JHANSI	1060	511115	MR AASHISH AGARWAL	BIKANER
1041	509952	MR GHANSHYAM GOYAL	GURGAON	1061	511120	MR VIPIN KUMAR SHARMA	BHOPAL
1042	510021	MR NAVAL KISHORE DEWANGAN	CHAMPA	1062	511129	MR SACHIN KUMAR	MATHURA

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1063	511196	MR HITESH GUPTA	DELHI	1083	514049	MR VARUN AGARWAL	AGRA
1064	511203	MR RAJ SINGH VERMA	BHOPAL	1084	514113	MS SHIKHA SHARMA	GHAZIABAD
1065	511229	MR AMIT KUMAR GUPTA	SASARAM	1085	514232	MS PRIYA PRABHAKARAN	NOIDA
1066	511352	MR DHARMENDRA KUMAR GUPTA	NOIDA	1086	514267	MR RAJAT AGRAWAL	KASGANJ
1067	511516	MS MONIKA AGARWAL	MEERUT	1087	514341	MS SWATI MITTAL	SRIGANGA NAGAR
1068	511598	MR GAURAV TONK	DELHI	1088	514662	MR SAORABH MODI	NEEMUCH
1069	511896	MR ABHISHEK SHARMA	NEW DELHI	1089	514663	MR PANKAJ KUMAR GUPTA	DHAR
1070	511919	MR VIRENDRA NATH PANDEY	GORAKHPUR	1090	514666	MR SACHIN AGARWAL	GHAZIABAD
1071	511920	MS AANCHAL THAKUR	MORADABAD	1091	514716	MS DEEPIKA MEHRA	DELHI
1072	512044	MR RAM MANOHAR GUPTA	NEW DELHI	1092	514772	MR SANJIV KUMAR SRIVASTAVA	HARDWAR
1073	512403	MR ADITYA KUMAR JHA	DELHI	1093	514867	MR SHOBHIT RASTOGI	AURANGABAD (MH)
1074	512677	MS MANISHA	JAMSHED PUR	1094	515008	MR RAJESH KUMAR	NALANDA
1075	512714	MS KHUSHBOO JAIN	BHOPAL	1095	515035	MR VARUN KUMAR AGARWAL	JAMSHED PUR
1076	512800	MR AMITABH SINGHAL	RAMPUR	1096	515380	MR ALKESH CHAUDHARY	JODHPUR
1077	513130	MR VINEET KUMAR SANCHETI	GHAZIABAD	1097	515762	MR YOGESH HARJAI	GHAZIABAD
1078	513201	MR RAJAN KAYASTHA	NOIDA	1098	516133	MR ANKUR SAXENA	KANPUR
1079	513478	MR NITIN JAIN	MEERUT	1099	516382	MR MD TABISH AHMAD	PATNA
1080	513594	MS ARCHANA JAIN	SAHARANPUR	1100	516458	MS ISHITA AGGARWAL	MEERUT
1081	513723	MR GHANSHYAM DAS GUPTA	CHHATARPUR	1101	516459	MS DEEPA THAPA	NOIDA
1082	513749	MR MANISH NAILWAL	ALMORA	1102	516501	MR SUMIT MAHAJAN	CHIRAWA

SNO-	M.R.N	NAME	PLACE	SNO-	M.R.N	NAME	PLACE
1103	516580	MR ARUN CHAUDHARY	MORADABAD	1110	517274	MR SANDEEP KUMAR	MOTIHARI
1104	516700	MR SANDEEP KUMAR	DELHI	1111	517636	MR MOHD ADIL SIDDIQUI	LUCKNOW
1105	516703	MR JASMEET SINGH CHOUDHARY	DEHRADUN	1112	517875	MR KAUSHLENDRA KUMAR	PATNA
1106	516804	MR KAPIL KUMAR AGRAWAL	BHARATPUR				
1107	516938	MR DHIRAJ AGARWAL	DELHI				
1108	517093	MR SUNEEL KUMAR YADAV	RAE BARELI				
1109	517169	MR RAKESH JAKHAR	BIKANER				

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

3CCA (4) (2)/2011-2012 In pursuance of Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 20 of the Chartered Accountants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has removed from the Register of Members of this Institute the name of the following member on Account of Death with effect from date(s) mentioned against their names:-

S.NO	MRN	Member Name	City	Removal Date	S.NO	MRN	Member Name	City	Removal Date
1	001842	MR. MEHTA MANMOHAN CHAND	INDORE	09/01/2012	13	010988	MR. MEHTA CHAIN RAJ	JAIPUR	18/08/2011
2	002655	MR. JAJODIA NARAIN PRASAD	PATNA	13/07/2011	14	012646	MR. PANDEY RAM KISHORE	LUCKNOW	30/03/2011
3	004079	MR. SHREE RAM SINGH	HAZARIBAGH	23/08/2011	15	013936	MR. TRIVEDI VIRENDRA KUMAR	PATNA	21/05/2011
4	006141	MR. CHADHA JITENDRA MOHAN	MEERUT	04/10/2011	16	015268	MR. AGARWAL SAGAR MAL	JAMSHED PUR	30/05/2011
5	006541	MR. OJHA LAKSHMI	BOKARO STEEL CITY	24/01/2012	17	054512	MR. MOHAMMAD JUNAID EQUEBAL	RANCHI	24/04/2011
6	007908	MR. SODANI MURLIDHAR	UJJAIN	04/06/2011	18	071860	MR. RAM MOHAN	SHAHJAHAN PUR	09/04/2011
7	008561	MR. SINDHI HARISH CHANDRA	AJMER	22/06/2011	19	072040	MR. PATWA MAHENDRA	UJJAIN	05/02/2012
8	009176	MR. GUPTA VIRENDRA KUMAR	KANPUR	13/01/2011	20	072264	MR. SHARMA ASHOK KUMAR	JAGDALPUR	31/10/2011
9	009784	MR. GUPTA RAMANAND	MODINAGAR	22/05/2011	21	073908	MR. KELA PARMANAND	RAIPUR	29/11/2009
10	010452	MR. TAYAL SURENDER KUMAR	MODINAGAR	31/10/2011	22	074306	MR. KODWANI SURESH	BHILWARA	11/07/2011
11	010515	MR. BHANDARI RAMESH CHAND	JAIPUR	19/07/2011	23	076586	MR. SOMANI JITENDRA	JAIPUR	22/01/2012



S.NO	MRN	Member Name	City	Removal Date	S.NO	MRN	Member Name	City	Removal Date
25	095138	MR. GOEL RAJEEV	ALLAHABAD	06/02/2012	28	413681	MR. NIKUNJ MANTRY	KANPUR	12/02/2012
26	107487	MR. GUPTA RADHAKRISHNA	KHARGONE	11/09/2011	29	507512	MR. VIKAS JAIN	FIROZABAD	07/04/2011
27	400453	MR. PAWAN KUMAR SAWHNEY	GHAZIABAD	02/02/2012					

T. KARTHIKEYAN  
Secy.

3CCA (5) (1) / 20011-2012: With reference to this Institute's Notification Nos. 3CCA (4) (1)/1999-2000 Dated 12 Jan 2000, 3CCA (4) (1)/2001-2002 Dated 02 Nov 2001, 3CCA (4) (1)/2003-2004 Dated 10 FEB 2004, 3CCA (4) (1)/2004-2005 Dated 27 Nov 2004, 3CCA (4) (1)/2005-2006 Dated 07 Nov 2005, 3CCA (4) (1)/2006-2007 Dated 16 OCT 2006, 3CCA (4) (1)/2007-2008 Dated 30 OCT 2007, 3CCA (4) (1)/2008-2009 Dated 15 Apr 2009, 3CCA (4) (1)/2009-2010 Dated 28 Apr 2010, 3CCA (4) (1)/2010-2011 Dated 27 Dec 2010, 3CCA (4) (1)/2011-2012 Dated 27 APR 2012, it is hereby notified in pursuance of regulation 20 of the Chartered Accountants Regulation, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members with effect from the dates mentioned against their names, the names of the followings members:-

SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	RSE DATE
1	006638	CA KEDAR MANI FCA	SIWAN	01/04/2011	14	064461	CA ASHISH KUMAR ACA	BANGALORE	04/09/2010
2	041836	CA MICHAEL VINCENT MASCARENHAS FCA	AJMER	28/04/2011	15	070240	CA BATRA UMESH FCA	KANPUR	18/08/2011
3	050470	CA KRISHNAN KAVASSERI VENKATA SUBRAMANI ACA	CHENNAI	26/12/2011	16	070367	CA ARVIND KUMAR ACA	LUCKNOW	28/12/2011
4	051344	CA ROY SHYAM SUNDAR ACA	KOLKATA	14/11/2011	17	070497	CA RAVI KUMAR NIGAM ACA	LUCKNOW	14/06/2011
5	051994	CA MD KHALIQUEZZAMAN ACA	SINGRAULI	23/09/2011	18	071648	CA JAIN PRAVEEN KUMAR FCA	JAIPUR	28/09/2011
6	053259	CA SHAGUN BAGAI ACA	GURGAON	19/08/2011	19	071651	CA SACHDEVA SUNIL KUMAR FCA	GREATER NOIDA	30/05/2011
7	053506	CA JHA ARBIND KUMAR ACA	DHANBAD	18/05/2011	20	072251	CA BHATI ARVIND KUMAR FCA	JODHPUR	11/07/2011
8	057939	CA BAL PRADEEP KUMAR FCA	JAMSHED PUR	10/10/2011	21	072360	CA PRASOON KUMAR BHATTACHARYY A FCA	BHATPARA	03/10/2011
9	058830	CA BANDYOPADHYAY SOMNATH ACA	HALDIA	24/11/2011	22	072370	CA BAIRATHI DINESH ACA	JAIPUR	13/04/2011
10	059802	CA CHATURVEDI VIVEK FCA	LUCKNOW	05/04/2011	23	072391	CA SRIVASTAVA RAJESH FCA	NOIDA	06/04/2011
11	060167	CA CHITLANGIA SACHIN ACA	RANCHI	11/04/2011	24	072769	CA LODHA SUDHIR ACA	JAIPUR	29/08/2011
12	060626	CA GOLCHHA MANISH KUMAR ACA	FORBES GANJ	03/10/2011	25	072772	CA JAIN VINOD FCA	JAMNAGAR	25/07/2011
13	062688	CA ASHISH KUMAR ACA	MUMBAI	23/05/2011	26	072819	CA SABARWAL SUDEEP FCA	LUCKNOW	10/05/2011

SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE
27	073021	CA BANERJEE PRABIR KUMAR ACA	NAVI MUMBAI	14/12/2011	44	077136	CA SINGHVI SHUCHI FCA	JAIPUR	25/04/2011
28	073440	CA THACKER JUGAL CHANDRAKANT FCA	CHANDRA PUR	18/05/2011	45	077659	CA RAJORA CHANCHAL SINGH FCA	HYDERA BAD	14/07/2011
29	073683	CA GUPTA RAM GOPAL FCA	JAIPUR	20/09/2011	46	078248	CA KAPOOR ALOK FCA	MEERUT	14/12/2011
30	073714	CA SHARMA VIVEK ACA	AGRA	16/06/2011	47	078444	CA CHOWDHURY SUMIT ACA	MUMBAI	17/02/2012
31	073749	CA MANOJ KUMAR GUPTA FCA	MEERUT	11/11/2011	48	078698	CA JAIN SANDEEP KUMAR FCA	INDORE	20/10/2011
32	074104	CA GEHANI RAVI FCA	MUMBAI	08/07/2011	49	078706	CA KASLIWAL LALIT KUMAR ACA	MUMBAI	04/10/2011
33	074228	CA BHANDARI KRISHNA FCA	JODHPUR	05/09/2011	50	078974	CA AHMAD KAREEM ACA	ALLAHA BAD	28/11/2011
34	074438	CA LALL EBENEZER SARVANAND FCA	MUSSOORIE	09/01/2012	51	079088	CA DATT GAURAV ACA	JABALPUR	19/09/2011
35	074734	CA SHARDA YOGESH ACA	JODHPUR	13/12/2011	52	079212	CA BHATI SUNIL KUMAR FCA	BHOPAL	29/09/2011
36	074964	CA BRIJ MOHAN SINGH FCA	KANPUR	23/09/2011	53	079287	CA THAKUR VIVEK ACA	PUNE	23/12/2011
37	075224	CA MEHTA SANDEEP ACA	JODHPUR	20/09/2011	54	079353	CA MOHAMMED YUNUS ACA	PALIMAR WAR	26/05/2011
38	075725	CA AJMERA NAVEEN FCA	BHILWARA	13/12/2011	55	080365	CA MAHESHWARI DEEPAK KUMAR FCA	JHANSI	14/09/2011
39	075740	CA TIWARI RAMESHWAR NATH ACA	DHANBAD	09/05/2011	56	080986	CA RAJEEV KUMAR AGARWAL ACA	HARDWAR	28/12/2011
40	076169	CA GUPTA RAJEEV KUMAR ACA	GHAZIABAD	17/01/2012	57	082720	CA ASHOK KUMAR ACA	INDIRA PURAM	21/06/2011
41	076189	CA SHUKLA SHEKHAR FCA	JAIPUR	04/06/2011	58	087178	CA PALIWAL ANIL FCA	KOTA	25/10/2011
42	076380	CA JAISWAL REENA FCA	BHILAI	12/09/2011	59	089836	CA MANOJ KUMAR FCA	HAPUR	08/11/2011
43	076501	CA MASAND AJAY FCA	BANGALORE	12/10/2011	60	092200	CA GUPTA SANJAY KUMAR ACA	HARDWAR	30/06/2010

SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE
61	093434	CA SANJAY KUMAR FCA	AURAIYA	18/11/2011	80	401518	CA PINKY DIWAN FCA	BANGA LORE	07/07/2011
62	093565	CA PANKAJ MOHAN GUPTA ACA	GURGAON	20/05/2011	81	401536	CA AGARWAL HEMANT ACA	BIJAI NAGAR	13/04/2011
63	095538	CA MEHTA ARVIND FCA	GURGAON	28/12/2011	82	402025	CA SINGH ABHILASH ACA	VARANASI	20/09/2011
64	096351	CA RAMAN KUMAR ACA	NEW DELHI	05/07/2011	83	402111	CA SALUJA RITU ACA	GURGAON	06/06/2011
65	097265	CA GOYAL ASEEM ACA	GHAZIABAD	01/04/2011	84	402112	CA UPADHYAY MAYANK ACA	GURGAON	06/06/2011
66	098144	CA DUBEY AMIT KUMAR ACA	LUCKNOW	30/09/2011	85	402230	CA SARIPALLI ARUN ACA	MUMBAI	14/12/2011
67	099593	CA JAY PRAKASH NARAYAN ACA	CHANDER NAGAR	02/01/2012	86	402242	CA AGARWAL SUNAYANA ACA	BEAWAR	28/11/2011
68	107934	CA SHARMA SHAILENDRA ACA	UDAIPUR	23/05/2011	87	402956	CA VIJAY MUKESH ACA	JAIPUR	02/09/2011
69	121292	CA YASHPAL KAMLAPRASAD AGARWAL ACA	BHILWARA	30/09/2011	88	403083	CA BADJATYA SURENDRA ACA	INDORE	10/08/2011
70	125458	CA DEEPAK KUMAR MIDDHA ACA	SRIGANGA NAGAR	24/08/2011	89	403267	CA GARG GAURAV ACA	DELHI	23/12/2011
71	125499	CA RAJAN MUNDRA ACA	AHMEDA BAD	03/07/2011	90	403622	CA SAXENA ASHISH KUMAR ACA	NOIDA	09/06/2011
72	400049	CA JAIN SANJAY PRAKASH ACA	ETAH	28/11/2011	91	404103	CA GOYAL MEGHNA ACA	GODDA	11/07/2011
73	400142	CA SUNIL KUMAR INANI FCA	CHITTOR GARH	28/10/2011	92	404217	CA JAIN VIJENDRA KUMAR ACA	DEI	27/06/2011
74	400171	CA VARSHNEY PARAG ACA	KARNAL	15/06/2011	93	404584	CA AMIT ACA	REWARI	21/11/2011
75	400554	CA MEHANDIRATTA SHRAY ACA	FARIDABAD	03/10/2011	94	404809	CA ANEJA MOHIT ACA	GHAZIABAD	30/01/2012
76	400586	CA MALPANI VIKAS ACA	MUMBAI	21/12/2011	95	404819	CA PANT AMIT ACA	GURGAON	19/08/2011
77	400660	CA MOONDRA YOGESH ACA	JODHPUR	05/09/2011	96	405013	CA JAIN SAURABH ACA	MUMBAI	23/09/2011
78	400670	CA AFTAB GUL ATTARI ACA	UDAIPUR	28/09/2011	97	405033	CA MALAK MUSTANSIR ACA	INDORE	09/06/2011
79	400858	CA SHARMA GAUTAM ACA	PUNE	30/11/2011	98	405094	CA MAHNA AMAN ACA	MUMBAI	09/05/2011

SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE
99	405547	CA AMIT PAREEK ACA	BANGALORE	05/04/2011	117	407323	CA PANKAJ KUMAR S RANKA ACA	KANORE	06/07/2011
100	405562	CA SUBHAL GARG ACA	VAISHALI (UP)	16/08/2011	118	407352	CA HARSH GOPAL MAHESHWARI ACA	UPPAR WAHI	27/12/2011
101	405579	CA SACHIN KHANDELWAL ACA	NAGDA	06/05/2011	119	407525	CA VIPIN KUMAR SHARMA ACA	SAHIBABAD	05/09/2011
102	405589	CA ARPIT BOHARA ACA	UDAIPUR	16/11/2011	120	407823	CA CAIDULA ACA	RANCHI	19/09/2011
103	405663	CA LAXMI KANT UPADHYAY ACA	JAIPUR	30/12/2011	121	407825	CA MANISH KUMAR ACA	JAMSHED PUR	19/09/2011
104	406033	CA RISHI KANT JHA ACA	BANGALORE	17/10/2011	122	407974	CA NITIN JAIN ACA	BHILWARA	13/05/2011
105	406148	CA POOJA MAITRYA ACA	JAIPUR	15/09/2011	123	408260	CA ANURAG SINGH ACA	LUCKNOW	02/06/2011
106	406204	CA MANISH MITTAL ACA	MUMBAI	26/09/2011	124	408316	CA SANJEEV AGARWAL ACA	NEW DELHI	06/06/2011
107	406255	CA ANURAG MAHESHWARI ACA	SEHORE	23/05/2011	125	408353	CA GAURAV MODI ACA	JAIPUR	08/11/2011
108	406269	CA VIVEK AGARWAL ACA	BANGALORE	20/12/2011	126	408417	CA LALIT MERTIA ACA	MUMBAI	06/06/2011
109	406394	CA MONIKA THAKUR ACA	JODHPUR	26/08/2011	127	408460	CA RAJ KUMAR PURSWANI ACA	MUMBAI	23/05/2011
110	406464	CA VIPUL TAPARIA ACA	JAMNAGAR	17/10/2011	128	408567	CA KRISHAN MURARI AGARWAL ACA	JAIPUR	30/04/2011
111	406639	CA DEEPAK GOYAL ACA	NEW DELHI	13/05/2011	129	408811	CA SHAMA KAPIL AGARWAL ACA	JAIPUR	22/12/2011
112	406812	CA GAURAV P AGARWAL ACA	MUMBAI	23/08/2011	130	408991	CA AMIT KUMAR KAUNTIA ACA	JAMSHED PUR	18/08/2011
113	406897	CA RAMJI THAKUR ACA	JAIPUR	08/08/2011	131	409059	CA NEERAJ SURESH BAKLIWAL ACA	DURG	29/12/2011
114	407103	CA NARESH JAIN ACA	AGRA	20/09/2011	132	409080	CA VISHAL SHARMA ACA	HATHRAS	04/05/2011
115	407288	CA ALOK DADHEECH ACA	JAIPUR	19/05/2011	133	409245	CA GAUTAM VASWANI ACA	JODHPUR	04/01/2012
116	407309	CA ANUJ GOEL ACA	SAHIBABAD	05/09/2011	134	409485	CA RAVI KHARBANDA ACA	GHAZIABAD	21/07/2011

SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	RES DATE
135	409597	CA PUNIT GUPTA ACA	GURGAON	14/07/2011	144	502804	CA AHMAD IMRAN ACA	MOTIHARI	10/03/2011
136	410209	CA SAJAL GOYAL ACA	SIKANDRA BAD	16/06/2011	145	505411	CA AGRAWAL ANOOP KUMAR ACA	PATNA	23/06/2011
137	410756	CA SHILPI PRIYANK AGGARWAL ACA	HAPUR	01/09/2011	146	505568	CA BALANI SURESH ACA	JODHPUR	25/07/2011
138	410880	CA NISHITA KARNANI ACA	JAIPUR	22/12/2011	147	505623	CA AGGARWAL ROHIT ACA	DELHI	25/08/2011
139	411447	CA MADHUSUDAN MUNDHRA ACA	SURATGARH	01/09/2011	148	509337	CA SHARAD SAXENA ACA	NOIDA	05/01/2012
140	500326	CA PANDIT SANDIP KUMAR ACA	NOIDA	11/05/2011	149	509514	CA ASHISH MOHTA ACA	BIKANER	03/10/2011
141	500569	CA ANAND PANKAJ ACA	NEW DELHI	09/11/2011	150	510872	CA MANJARI AGARWAL ACA	JHANSI	28/11/2011
142	501913	CA SINGH HARI ACA	NOIDA	25/10/2011	151	512854	CA SHUCHI SANGAL ACA	GURGAON	14/12/2011
143	502276	CA DEVENDRA SINGH ACA	BIJNOR	19/07/2011	152	515157	CA SANJANA SOOD ACA	NEW DELHI	07/07/2011

**T.KARTHIKEYAN**  
(SECRETARY)

3CCA (5)(2)/2011-2012 : With reference to this institute's Notification Nos. 3CCA (4) (1)/2011-2012 dated 20<sup>TH</sup> JUNE 2012, it is hereby notified in pursuance of regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored retrospectively to the Register of Members with effect from 01/10/2011, the names of the followings members:-

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
1	002887	CA D B NAGPAL	FCA	GHAZIABAD	15	036189	CA MULANI GOPAL HARICHAND	FCA	MUMBAI
2	013332	CA GAUR SHIVRAJ SINGH	ACA	KOTA	16	036217	CA SABOO BAJRANG KUMAR	ACA	KOTA
3	14101	CA K M LALWANI	FCA	RAIPUR	17	040312	CA SALEEM MEYAJI	ACA	UDAIPUR
4	014123	CA BIYANI VALLABH PRASAD	FCA	NAVI MUMBAI	18	043050	CA JAIN RAJESH	FCA	BHILWARA
5	014652	CA GHORUI KANAI LAL	ACA	NOIDA	19	043117	CA SOMANI SANJAY KUMAR	ACA	RAMGARH
6	014801	CA GUPTA SHRI PRAKASH	FCA	MEERUT	20	045354	CA SONI ANAND KUMAR	ACA	JAIPUR
7	016572	CA JAGDISH MAL LODHA	FCA	JODHPUR	21	046878	CA SINGHVI SANDEEP	ACA	JODHPUR
8	016988	CA SAIGAL MOHIT KUMAR	FCA	NEW DELHI	22	047366	CA MRIDULA MALPANI	FCA	TONK
9	018558	CA KURUVILA KURIAKOSE	FCA	NOIDA	23	049251	CA ROONGTA JAGDISH G	ACA	DEORIA
10	018574	CA DHAWAN PRAMOD KUMAR	FCA	SHIKOHABAD	24	051387	CA JHANWAR KAILASH CHANDRA	FCA	NAGDA
11	020885	CA KRISHNAN H	FCA	BILASPUR (CH)	25	055541	CA JALAN SANDEEP KUMAR	FCA	VARANASI
12	021475	CA SUBRAMANIAN P R	FCA	NOIDA	26	056553	CA GHOSH SUJIBAN	ACA	SAHIBABAD
13	026413	CA VERMA ASEEM	FCA	ALLAHABAD	27	056898	CA AGRAWAL MANOJ KUMAR	FCA	RAIGARH
14	032190	CA MOMAYA SUBHASHCHANDRA MANILAL	ACA	NOIDA	28	057305	CA PARIK NITIN	FCA	INDORE

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
29	058085	CA CHOUDHURY BIKASH	FCA	PATNA	48	070173	CA NEERAJ KUMAR	FCA	MUZAFFAR NAGAR
30	058380	CA MANISH KUMAR	ACA	MUZAFFAR PUR	49	070478	CA SINGH ASHOK KUMAR	FCA	RANCHI
31	060226	CA AJAY KUMAR SHAH	ACA	NOIDA	50	070489	CA GUPTA SUSHIL KUMAR	FCA	KANPUR
32	060364	CA SINGH JAYA	ACA	LUCKNOW	51	070524	CA HARSH MOHAN	FCA	KANPUR
33	060790	CA RATHI RAKESH	ACA	NEW DELHI	52	070770	CA AGRAWAL GOPAL	FCA	INDORE
34	061213	CA PRASHANT DOKANIA	FCA	PATNA	53	070792	CA GUPTA MUKET BEHARI	FCA	ALWAR
35	061312	CA TULSYAN VIKASH KUMAR	FCA	DHANBAD	54	070859	CA SINGH SEVENDRA BAHADUR	FCA	KANPUR
36	061903	CA BOTHRA SUSHIL KUMAR	FCA	KOLKATA	55	071003	CA ARYA MAHESH CHAND	FCA	BHARAT PUR
37	062804	CA AGARWAL MANOJ KUMAR	ACA	PATNA	56	071343	CA GARG SHELENDRA NATH	FCA	HAPUR
38	062993	CA AGARWAL ABHA	FCA	CHIRKUNDA	57	071566	CA PAWAN KUMAR	FCA	DEHRADUN
39	063355	CA ATUL KUMAR	ACA	BHOPAL	58	072142	CA KHEMKA BINOD KUMAR	ACA	INDORE
40	063391	CA BIYANI NITIN	ACA	KOLKATA	59	072175	CA MATHUR VINAY NARAYAN	ACA	JAIPUR
41	063882	CA BAJPAI MANISH KUMAR	ACA	BHOPAL	60	072242	CA HARSH MOHAN SINGH DUA	FCA	LUCKNOW
42	065052	CA BINOD KUMAR	ACA	HOWRAH	61	072402	CA SHRIVASTAVA BRIJESH KUMAR	FCA	INDORE
43	065278	CA SEEMA TIWARY	ACA	KOLKATA	62	072438	CA MAHESHWARI SHYAM	FCA	MORENA
44	066971	CA NAND LAL PRASAD	ACA	PATNA	63	072468	CA MAHESHWARI KUMOD KUMAR	FCA	MODINAGAR
45	067551	CA RAVI BHUSHAN SINGH	ACA	NAVI MUMBAI	64	072600	CA AGARWAL KISHORE KUMAR	FCA	MATHURA
46	068345	CA SATYA PRAKASH	ACA	MOTIHARI	65	072656	CA MAHAJAN JAGDISH CHANDRA	FCA	KHARGONE
47	069264	CA BIKASH PATWARI	ACA	DUMKA	66	072727	CA AGRAWAL ASHOK KUMAR	FCA	GORAKH PUR

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
67	072748	CA MATHANI GOPICHAND	FCA	RAIPUR	86	074342	CA SURENDRA KUMAR	FCA	DHANBAD
68	072927	CA SINGHVI VIRENDRA	FCA	JODHPUR	87	074388	CA BHOMESHWAR	ACA	JAIPUR
69	073012	CA RAVINDRA SINGH SINGHVI	FCA	VADODARA	88	074459	CA MISHRA JAYANT	FCA	BHOPAL
70	073067	CA JAIN SAURABH	FCA	NOIDA	89	074865	CA AGGARWAL VIKAS KUMAR	FCA	SAHARAN PUR
71	073072	CA AGRAWAL SANJIV	FCA	DELHI	90	075313	CA GUPTA PRAMOD KUMAR	FCA	RAWAT BHATA
72	073114	CA MITTAL ATUL	FCA	LUCKNOW	91	075361	CA KHANNA MUKESH	FCA	MEERUT
73	073209	CA NENAWATI MAHENDRA SINGH	FCA	JAIPUR	92	075426	CA ANUPAM KRISHNA	FCA	LUCKNOW
74	073281	CA BHARGAVA SHYAM NARAYAN	FCA	ALWAR	93	075535	CA AGARWAL TARUN	FCA	JAIPUR
75	073468	CA GUPTA SHIRISH KUMAR	FCA	GORAKH PUR	94	075672	CA AGARWAL KAMAL KUMAR	FCA	GWALIOR
76	073579	CA VIJAY PAL SINGH	ACA	MEERUT	95	075689	CA RAJEEV SHARMA	FCA	JAIPUR
77	073615	CA RAM KISHORE MAHESHWARI	FCA	BEAWAR	96	075865	CA KEDIA ALOK	FCA	RANCHI
78	073628	CA ARORA SUNIL KUMAR	FCA	MEERUT	97	075934	CA KALIKA PRASAD	FCA	AGRA
79	073864	CA SHRINGI ABHAY PRAKASH	ACA	ALWAR	98	076002	CA GUPTA AJAI KUMAR	FCA	UNNAO
80	73910	CA GUPTA RAJUMAL	ACA	LUDHIYANA	99	076137	CA KHANDELWAL ASHWANI KUMAR	FCA	MATHURA
81	073912	CA CHOPDA LALIT KUMAR	FCA	RAIPUR	100	076205	CA BHAGAT GIRJESH KUMAR	FCA	KANPUR
82	073942	CA KHANDELWAL VIVEK	ACA	JAIPUR	101	076267	CA GUPTA ATUL	FCA	DEHRADUN
83	074086	CA KAPOOR MANISH	ACA	VARANASI	102	076446	CA POONIA RAGHUVeer SINGH	FCA	JAIPUR
84	074145	CA VYAS MUKESH KUMAR	FCA	JODHPUR	103	076553	CA AGARWAL MANOJ	FCA	JAIPUR
85	074288	CA MITAL RAJESH	FCA	BHOPAL	104	076632	CA ARORA SHIV KUMAR	FCA	RUDRAPUR



SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
105	076643	CA MITTAL NITIN	FCA	GHAZIABAD	124	078329	CA JAIN YOGESH	FCA	JODHPUR
106	076649	CA SUNIL KUMAR	ACA	CHITTOR GARH	125	078368	CA TULSIANI ASHOK KUMAR	FCA	JAIPUR
107	076674	CA SAKSENA RITU	FCA	KANPUR	126	078396	CA VARYANI SANGEETA	FCA	AJMER
108	076696	CA PRAGEET KUNWAR	FCA	GHAZIABAD	127	078416	CA PORWAL RAKESH	FCA	UDAIPUR
109	076851	CA JAIN PRAWAL	ACA	DEHRADUN	128	078483	CA SHARMA HARI NARAYAN	FCA	JAIPUR
110	076869	CA SINGH AJAY KUMAR	FCA	KORBA	129	078551	CA MANTRI RAKESH	FCA	MERTA CITY
111	076914	CA GUPTA SANJAY	FCA	KOTA	130	078596	CA AGRAWAL RAJENDRA	FCA	JAIPUR
112	077104	CA CHAWLA RIMPAL	ACA	BHOPAL	131	078612	CA AGARWAL VINEET	ACA	GURGAON
113	077172	CA RATHI PRASHANT	FCA	GWALIOR	132	078641	CA JHANWAR SURESH KUMAR	FCA	NOIDA
114	077193	CA VIKAS YADAV	FCA	VASUN DHARA	133	078952	CA JAISWAL MUKUL	FCA	VARANASI
115	077327	CA JAIN SANJEEV KUMAR	ACA	DURG	134	078957	CA BALIA VIKAS	ACA	JODHPUR
116	077418	CA AGARWAL ANUP	ACA	BIJAINAGAR	135	078973	CA PRASHANT NYATI	FCA	UDAIPUR
117	077420	CA GUPTA DINESH KUMAR	FCA	JAIPUR	136	079029	CA SINGHAI MONIKA	ACA	JABALPUR
118	077520	CA JAIN NIVEDITA	FCA	GWALIOR	137	079230	CA AGARWAL GYANENDER KUMAR	ACA	AGRA
119	077648	CA ASHISH PUNDHIR	FCA	JAIPUR	138	079380	CA VISHNOI VIBHOR	ACA	NOIDA
120	077728	CA MEHTA TIRUPAT	ACA	MUMBAI	139	079433	CA SACHIN TYAGI	FCA	MEERUT
121	077729	CA GUPTA SACHIN	FCA	JAIPUR	140	079492	CA KASLIWAL ALOK	ACA	JAIPUR
122	077841	CA MAURYA AJAY KUMAR	FCA	LUCKNOW	141	079508	CA LANGAR PARUL	ACA	JAIPUR
123	077927	CA AMIT MODANI	ACA	JAIPUR	142	079513	CA MISHRA SHARAD	ACA	UDAIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
143	079686	CA MEHTA SANJAY	ACA	JAIPUR	162	089698	CA MOHD NAZIM	FCA	KHURJA
144	079841	CA ASHISH ASTHANA	FCA	LUCKNOW	163	090402	CA SHARMA RAJEEV	FCA	GHAZIABAD
145	079906	CA VASWANI JITENDRA KUMAR	ACA	RUDRAPUR	164	090477	CA KHURANA MADHU	FCA	LUCKNOW
146	079930	CA RAJESH BIHARI SHRIVASTAVA	FCA	JAGDALPUR	165	090751	CA BANKA VINOD KUMAR	FCA	KUSHI NAGAR
147	079993	CA GARODIA VIJAY KUMAR	ACA	VARANASI	166	091638	CA MITTAL MAHIM	FCA	NOIDA
148	080646	CA BANSAL PARVEEN KUMAR	FCA	PANAJI GOA	167	092483	CA GOEL RAJIV	ACA	NOIDA
149	081426	CA KAUSHIK MAHAVIR PRASAD	FCA	NOIDA	168	093122	CA JAIN VARDHMAN	FCA	NOIDA
150	081626	CA DHARMENDRA BHANDARI	FCA	JAIPUR	169	094509	CA B MRUDULA VANI	FCA	SAHIBABAD
151	081886	CA AGARWAL HARISH	FCA	GHAZIABAD	170	094872	CA SANJEEV KUMAR GUPTA	FCA	BHOPAL
152	082577	CA RAJESH KUMAR	FCA	KANPUR	171	094908	CA ARORA MAHESH KUMAR	FCA	NOIDA
153	082584	CA JAIN RAKESH KUMAR	FCA	BHIWADI	172	095064	CA BYAHUT AJOY KUMAR	ACA	SEHORE
154	083669	CA ROY OINDRILA	ACA	NOIDA	173	095183	CA SINGHANIA AMITABH	ACA	KANPUR
155	084007	CA GOPALAKRISHNAN MADAN MOHAN	FCA	JAGGAYYA PET	174	095242	CA AGARWAL SUNIL	ACA	INDIRA PURAM
156	086610	CA BAJPAI TUMUL	ACA	GREATER NOIDA	175	095437	CA VERMA PRADEEP KUMAR	FCA	NEW DELHI
157	087398	CA HITENDRA PAL SINGH	FCA	NEW DELHI	176	095479	CA AGGARWAL MAYANK	ACA	INDIRA PURAM
158	088234	CA LADDHA RAJESH	FCA	KISHAN GARH	177	095688	CA MATHUR SAURABH	ACA	JAIPUR
159	088551	CA SHARMA ASHOK DEEP	FCA	MODI NAGAR	178	095791	CA AGRAWAL ASHISH	ACA	NOIDA
160	088665	CA AGARWAL PRAVEEN KUMAR	FCA	JHANSI	179	096560	CA GUPTA SUBASH CHANDRA	FCA	SAHIBABAD
161	089302	CA BHARAT BHUSHAN	FCA	RAISINGH NAGAR	180	096726	CA MAHESHWARI VIPUL KUMAR	FCA	KASGANJ

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
181	096841	CA VIKAS CHANDRA	FCA	HAZARI BAGH	200	121076	CA ABHISHEK SINGH	ACA	REWA
182	097014	CA KATHURIA RAJIV	FCA	NOIDA	201	122949	CA UDAY CHANDRAKANT CHAURASIYA	FCA	SHAHNOL
183	98009	CA SINHA ROY SANCHITA	ACA	NEW DELHI	202	123396	CA AMIT MUNDRA	ACA	UJJAIN
184	098150	CA PATRO TANUJ	ACA	GURGAON	203	127057	CA VINEET KUMAR JALAN	ACA	HARDWAR
185	098185	CA GARG PRADEEP KUMAR	FCA	KHURJA	204	127299	CA SUVIDHA NAROTTAM PAREEK	ACA	JAIPUR
186	098363	CA ANWANI NARAYAN	ACA	NOIDA	205	128092	CA MURTAZA ALI MOTI	ACA	UDAIPUR
187	098411	CA CHAWLA SAMEER	ACA	NOIDA	206	130136	CA SAPNA PRATEEK GOLCHHA	ACA	RAIPUR
188	099032	CA MOON PRAVEEN	ACA	NOIDA	207	132642	CA ROHIT SUNIL GANDHI	ACA	PRATAP GARH
189	099752	CA GUPTA SANJIVE KUMAR	ACA	GHAZIABAD	208	134450	CA CHANDRA SHEKHAR PARMESHWAR SAH	ACA	MUMBAI
190	103898	CA ASHUTOSH PARASRAMPURIA	ACA	INDORE	209	137555	CA MAYANK AGRAWAL	ACA	SAGAR
191	104850	CA KOTHARI ALOK KUMAR	FCA	JAIPUR	210	139891	CA NAVNEET KUMAR SONI	ACA	JODHPUR
192	105266	CA PITTU VINOD KUMAR	ACA	JODHPUR	211	203787	CA VIDHI MANIHAR	FCA	JAIPUR
193	105668	CA VEERWANI AKASH HARIRAM	ACA	BHILAI	212	207257	CA PRAVEEN KUMAR T	ACA	NIZAMABAD
194	106614	CA RATHI BARKHA MANISH	FCA	RAIPUR	213	211343	CA SANDEEP SURANA	ACA	JAIPUR
195	109290	CA MANOJ AGARWAL	FCA	JAIPUR	214	214660	CA VINITA KEDIA	ACA	GURGAON
196	109770	CA RAJNISH SUWALKA	FCA	BHILWARA	215	223288	CA AMARENDRA KUMAR	ACA	RANCHI
197	113591	CA ARUN KUMAR SINGH	FCA	JAMSHED PUR	216	400020	CA ISHWAR CHAND RAI	FCA	LUCKNOW
198	119036	CA NEHA ASHOK ARORA	ACA	MUMBAI	217	400030	CA SINGHAL RUCHI	ACA	AGRA
199	119422	CA KANCHAN VIPIN MALHOTRA	ACA	NAGPUR	218	400070	CA KHANNA PALUK	ACA	BANGA LORE

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
219	400245	CA PARAKH RITU	ACA	JAIPUR	238	401264	CA GUPTA LALIT KUMAR	ACA	SHAHJAHAN PUR
220	400270	CA SHARMA KAMAL KANT	ACA	INDORE	239	401276	CA SWAMI HEMKANT	ACA	GWALIOR
221	400307	CA AGARWAL SWETA	ACA	NOIDA	240	401284	CA MALPANI BHAWANI SHANKAR	ACA	JAIPUR
222	400367	CA RATHI ASHISH	ACA	UJJAIN	241	401336	CA GUPTA AMIT	ACA	AHMEDA BAD
223	400368	CA RATHI MANISH	ACA	UJJAIN	242	401487	CA RATHORE DUSHYANT SINGH	ACA	UDAIPUR
224	400427	CA SENGAR PRAVEEN SINGH	ACA	LUCKNOW	243	401512	CA MAHESHWARI RADHIKA	ACA	JAIPUR
225	400476	CA GUPTA VARUN	ACA	DEHRADUN	244	401565	CA VIJAY VINOD KUMAR	ACA	JAIPUR
226	400569	CA JITENDRA TADI	FCA	JAIPUR	245	401580	CA GOURAV VALLABH	ACA	JAMSHED PUR
227	400699	CA SHARMA SUMIT	ACA	INDORE	246	401594	CA AGARWAL PARUL	ACA	GHAZIABAD
228	400773	CA AGRAWAL VIBHUTI	ACA	JAIPUR	247	401628	CA CHOUDHARY RAVI	ACA	BHAGAL PUR
229	400800	CA DARUKA MANISHA	ACA	MUMBAI	248	401631	CA LEENIKA SINGH	FCA	KANPUR
230	400889	CA MISHRA ANURAG	ACA	NEW DELHI	249	401687	CA KOSHIK RITESH	ACA	BHOPAL
231	400898	CA KHATRI SAMIR	ACA	KANPUR	250	401709	CA RASTOGI NAVEEN	ACA	JAIPUR
232	400994	CA MUBEEN KHAN	FCA	JABALPUR	251	401723	CA SHAKTI SINGH SHEKHAWAT	FCA	JAIPUR
233	401023	CA ALPESH SURANA	FCA	UDAIPUR	252	401827	CA GUPTA AMIT KUMAR	ACA	AGRA
234	401040	CA SHARMA DHIRAJ	ACA	INDORE	253	401868	CA BAJAJ ABHISHEK	ACA	SAHARAN PUR
235	401050	CA AGARWAL SAURABH	ACA	KANPUR	254	401966	CA SAXENA MAN MOHAN KUMAR	FCA	CHANDAUSI
236	401140	CA ARORA ROHIT	ACA	GURGAON	255	401978	CA KAMLESH KUMAR GOYAL	ACA	SIKAR
237	401217	CA AGARWAL DURGA	FCA	BIKANER	256	402011	CA MUKESH KUMAR CHOUDHARY	ACA	JAIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
257	402085	CA SRIVASTAV SACHIN ASHA	ACA	NEW DELHI	276	402978	CA TIWARI BIPIN	ACA	NOIDA
258	402102	CA KHANDLWAL SHILPI	ACA	ALWAR	277	403062	CA KHANDLWAL RISHI KUMAR	FCA	JAIPUR
259	402171	CA JOSHI ARCHI	ACA	UDAIPUR	278	403088	CA GOEL ROHIT	FCA	GHAZIA BAD
260	402245	CA BOTHRA RAJESH	ACA	BIKANER	279	403106	CA AGRAWAL SUNIL	ACA	JAIPUR
261	402266	CA DARUKA AMIT KUMAR	ACA	BHUBANE SHWAR	280	403148	CA CHANDRA CHANDAN	ACA	JAIPUR
262	402295	CA AJEET MUNDRA	FCA	BEAWAR	281	403169	CA SINGH VISHAL	FCA	RANCHI
263	402406	CA NIKHIL AGARWAL	ACA	INDORE	282	403233	CA KUSHAWAHA SUNIL KUMAR SINGH	FCA	ALLAHABAD
264	402439	CA GUPTA SHIPRA	ACA	JAIPUR	283	403265	CA SHAH NEERA ASHISH	ACA	UJJAIN
265	402474	CA MODI MANJARI	ACA	RANCHI	284	403271	CA JAIN NEMI CHAND	ACA	JAIPUR
266	402484	CA AGARWAL SUMIT	ACA	JAIPUR	285	403318	CA NAGPAL AMIT	ACA	GURGAON
267	402507	CA SHEKHAWAT NARENDRA SINGH	FCA	JAIPUR	286	403344	CA JAIN MITU	ACA	JAIPUR
268	402510	CA SAPNA TULSYAN	FCA	DALTON GANJ	287	403380	CA JAIN SUBHASH KUMAR	FCA	JAIPUR
269	402546	CA GOYAL SHWETA	FCA	NOIDA	288	403444	CA YADAV DISHA	ACA	JAIPUR
270	402634	CA MAHESHWARI MANISH	ACA	GURGAON	289	403517	CA DEEPAK SEERUWANI	ACA	GWALIOR
271	402635	CA MANISH GUPTA	ACA	ALWAR	290	403536	CA JAIN ROOPAK	ACA	GURGAON
272	402687	CA GOYAL ANJALI	FCA	BHOPAL	291	403564	CA SIROTHIA SHARAD	ACA	NOIDA
273	402696	CA GUPTA MOHIT	ACA	KOTA	292	403576	CA JAITHLIA MUKESH	ACA	AHMED ABAD
274	402821	CA JAIN GAURAV KUMAR	ACA	INDORE	293	403609	CA BAJPAI PADMESH KUMAR	FCA	KANPUR
275	402866	CA HABLANI SUSHIL	ACA	MUMBAI	294	403611	CA VERMA SHWETA	ACA	LUCKNOW

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
295	403656	CA CHOUBEY SATISH	FCA	GWALIOR	314	404763	CA AJMERA SACHIN	ACA	JAIPUR
296	403720	CA IMTIYAZ SHAIKH	ACA	BHOPAL	315	404852	CA DANI PRIYANKA	ACA	JAIPUR
297	403761	CA KAPUR SUMIT	ACA	AGRA	316	404862	CA NAHAR PRANAY MAHENDRA	ACA	MUMBAI
298	403879	CA JAIN SACHIN	ACA	JHANSI	317	404964	CA AGARWAL AJAY	ACA	AJMER
299	403888	CA CHANDAK NIRMAL	ACA	MUMBAI	318	404989	CA PRIYESH MANDOWARA	ACA	INDORE
300	404057	CA LODHA ASHISH	ACA	MUMBAI	319	405130	CA KHAN SHARIQ	FCA	JAIPUR
301	404083	CA ROONGTA RAHUL	ACA	UDAIPUR	320	405138	CA AGARWAL VIJEYTA	ACA	JAIPUR
302	404140	CA AJIT KUMAR	ACA	PATNA	321	405283	CA DANGAYACH GIRISH	ACA	JAIPUR
303	404204	CA KHUTETA SURABHI	ACA	NEW DELHI	322	405369	CA DINESH KUMAR VERMA	FCA	BHOPAL
304	404212	CA SIDDIQUI AKRAM WASIM	FCA	RAIPUR	323	405390	CA NEHA VED	ACA	BHOPAL
305	404311	CA PRIYANKA SINGHAL	FCA	JAIPUR	324	405499	CA PRAVEEN KUMAR JAIN	ACA	INDORE
306	404318	CA KHADELWAL SHIVA	ACA	JAIPUR	325	405518	CA AYUSHI SINGH	ACA	RANCHI
307	404397	CA BANSAL ANIL	FCA	UDAIPUR	326	405545	CA VIVEK GOYAL	ACA	BHARAT PUR
308	404428	CA JAIN VAISHALI	FCA	BHOPAL	327	405549	CA ANKITA JAIN	ACA	GHAZIABAD
309	404562	CA AGARWAL ANIRUDH	ACA	JAIPUR	328	405565	CA ASHISH LODHA	ACA	JAIPUR
310	404586	CA JAIN NITIN SAJJAN	ACA	UDAIPUR	329	405591	CA ANAND SONI	ACA	JODHPUR
311	404587	CA JAIN RAHUL HIRALAL	ACA	BANSWARA	330	405597	CA DEEPAK GARG	ACA	SRIGANGA NAGAR
312	404614	CA GULATI SUMIT	ACA	CHENNAI	331	405615	CA SAMARJEET MITRA	ACA	RAIPUR
313	404705	CA JOSHI HEMANT	ACA	JAIPUR	332	405646	CA KAMLESH JHALANI	FCA	JAIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
333	405658	CA ANURAG SHARMA	ACA	UDAIPUR	352	406396	CA ANURAG TYAGI	ACA	GHAZIABAD
334	405678	CA RAJKUMAR RATHI	ACA	MUMBAI	353	406411	CA YOGESH KUMAR YADAV	ACA	JAIPUR
335	405708	CA RAKESH KUMAR AGRAWAL	ACA	RANCHI	354	406424	CA PARAG AGARWAL	ACA	GURGAON
336	405765	CA VIPIN KUMAR SRIVASTAVA	ACA	CHANDI GARH	355	406433	CA DEEPAK SINGHI	ACA	NEW DELHI
337	405780	CA VARUN VINAY GARG	FCA	AGRA	356	406460	CA PUNEET CHAWLA	ACA	NOIDA
338	405796	CA NISHANT TANDON	ACA	BAREILLY	357	406543	CA ARPITA KHANDELWAL	ACA	AGRA
339	405931	CA CHITIN SAPARIA	ACA	HATHRAS	358	406544	CA MAYANK GUPTA	ACA	AGRA
340	405970	CA ANURAG KUMAR SRIVASTAVA	ACA	KANPUR	359	406557	CA SAKET VIJAYVERGIA	ACA	MUMBAI
341	405978	CA SHIKHA PANDEY	ACA	LUCKNOW	360	406585	CA NEHA TULSYAN	ACA	MUMBAI
342	406021	CA MANISH GOEL	ACA	BAREILLY	361	406609	CA ASHUTOSH BAGADIA	ACA	JAIPUR
343	406026	CA BHUVAN AHUJA	ACA	AGRA	362	406670	CA YOGESH KUMAR AGRAWAL	ACA	MUMBAI
344	406068	CA SACHIN AGARWAL	ACA	AGRA	363	406684	CA NEETA TALESARA	ACA	JODHPUR
345	406128	CA POOJA KHANDELWAL	ACA	JAIPUR	364	406736	CA KHUSHBOO KAPOOR	ACA	GURGAON
346	406156	CA SHEELA PARWANI	ACA	GWALIOR	365	406748	CA SANDEEP KUMAR	FCA	GHAZIABAD
347	406201	CA VISHAL ARORA	ACA	DELHI	366	406750	CA SUDHA SHARMA	ACA	GURGAON
348	406308	CA SUNIL KUMAR AGRAWAL	ACA	JAIPUR	367	406754	CA BAL KISHAN BAGLA	ACA	PANIPAT
349	406344	CA KAPIL JOSHI	ACA	MUMBAI	368	406773	CA VIBHOR, RAJVANSHI,	ACA	MEERUT
350	406371	CA KAPIL SHARMA	ACA	GHAZIABAD	369	406797	CA SIBI JOSEPH	ACA	MUMBAI
351	406392	CA VIJAY DASHORE	ACA	INDORE	370	406806	CA ASHOK KUMAR SINGH	FCA	ALLAHA BAD

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
371	406839	CA BHAVNA GUPTA	ACA	AJMER	390	407301	CA MANOJ KUMAR GUPTA	ACA	SATNA
372	406864	CA GAURAV AGARWAL	ACA	BAHRAICH	391	407312	CA VAIBHAV BHAGAT	ACA	KANPUR
373	406898	CA PRIYANK KUMAR JAIN	ACA	INDORE	392	407355	CA NITIN JALAN	ACA	GORAKH PUR
374	406906	CA IMTIAZ AHMED SIDDIQUI	ACA	ALLAHA BAD	393	407375	CA ABHINANDAN KEDAWAT	ACA	JAIPUR
375	406923	CA VIJETA SHARMA	ACA	JAIPUR	394	407381	CA SUJIT KUMAR	ACA	PATNA
376	406992	CA SAURABH MAHESHWARI	ACA	AGRA	395	407400	CA RASHIM MEHTA	ACA	JODHPUR
377	407011	CA ADITI AGARWAL	ACA	AGRA	396	407404	CA PRAVEEN JAISWAL	ACA	INDORE
378	407016	CA RASHI AGARWAL	ACA	JHANSI	397	407490	CA ANKIT PARIKH	ACA	CHENNAI
379	407087	CA REENA LACHHIRAMKA	ACA	MADHUPUR	398	407522	CA SARFARAZ AHMAD	ACA	RANCHI
380	407091	CA SWATI TIWARI	ACA	GWALIOR	399	407568	CA MOHIT AGARWAL	ACA	AGRA
381	407094	CA GORA GOSWAMI	ACA	RAMGARH	400	407595	CA SANDEEP MISHRA	ACA	KANPUR
382	407125	CA ANUJ GUPTA	ACA	JHANSI	401	407618	CA RASHMI BHANSALI	ACA	JAIPUR
383	407147	CA KAN SINGH	ACA	JODHPUR	402	407633	CA VIKAS JAIN	ACA	JAIPUR
384	407243	CA ASHISH GUPTA	ACA	AJMER	403	407642	CA SONAL KEJRIWAL	ACA	KANPUR
385	407270	CA GAGANDHIR SINGH KHURAL	ACA	JABALPUR	404	407647	CA JAI KUMAR SAHANI	ACA	BANGALORE
386	407279	CA ARUN JAIN	ACA	UDAIPUR	405	407671	CA RAHUL RASTOGI	ACA	LUCKNOW
387	407287	CA NITIN JAIN	ACA	MUMBAI	406	407707	CA NITIN KUMAR GUPTA	ACA	AGRA
388	407289	CA AASHISH JAIN	ACA	INDORE	407	407710	CA VIRENDRA KUMAR SHARMA	ACA	TUNDLA
389	407290	CA SUMIT AGRAWAL	ACA	BARWANI	408	407761	CA SHIVA JAISWAL	ACA	GURGAON



SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
409	407765	CA HIMANSHU NAGPAL	ACA	GURGAON	428	408920	CA GAURAV GUPTA	ACA	KHARAG PUR
410	408017	CA KUHOON SONI	ACA	RAISEN	429	408946	CA NITIN AGRAWAL	ACA	MATHURA
411	408059	CA SHIVENDRA	ACA	BHIWADI	430	408960	CA MANOJ KUMAR DHUREJA	ACA	INDORE
412	408128	CA MANOHAR SINGH RATHORE	ACA	JODHPUR	431	408971	CA ANIL KUMAR JAIN	ACA	JAIPUR
413	408177	CA KULDEEP CHOUHAN	ACA	INDORE	432	409022	CA SANKALP K AGRAWAL	ACA	HYDERA BAD
414	408214	CA ACHIN KUMAR BHATI	ACA	MUMBAI	433	409025	CA NITIN SHARMA	ACA	JAIPUR
415	408279	CA PARUL AGARWAL	ACA	GURGAON	434	409027	CA MANISH KUMAR KAYAL	ACA	NEW DELHI
416	408309	CA ASHISH AGARWAL	ACA	JAIPUR	435	409041	CA APARNA AGRAWAL	ACA	VARANASI
417	408385	CA VISHAL JAISWAL	ACA	LUCKNOW	436	409042	CA DEEPAK BHATIA	ACA	GHAZIABAD
418	408423	CA MAHESH KUMAR GOYAL	ACA	NOHAR	437	409092	CA SAMIR NIJHAWAN	ACA	GURGAON
419	408456	CA AJAY JAIN	ACA*	NEW DELHI	438	409137	CA SUMAN JINDAL	ACA	JAIPUR
420	408463	CA ANUJ KUMAR MATHUR	ACA	JAIPUR	439	409139	CA SANJAY PD BARANWAL	ACA	GOMIA
421	408492	CA MUKESH KUMAR AGRAWAL	ACA	ALWAR	440	409143	CA SACHIN JAIN	ACA	MEERUT
422	408537	CA S K JHALOLIA	ACA	INDORE	441	409159	CA ANIL KUMAR SHARMA	ACA	JABAL PUR
423	408547	CA NIDHI KAKKAR	ACA	MUMBAI	442	409169	CA NEHA AGARWAL	ACA	NOIDA
424	408706	CA PUNEET KUMAR AGRAWAL	ACA	ANUP SHAHR	443	409171	CA NEERAJ PATHAK	ACA	RANCHI
425	408740	CA ALOK PANDAY	ACA	ALLAHABAD	444	409176	CA YASER SHAHID	ACA	DAR BHANGA
426	408772	CA JATINDER PAL SINGH	ACA	NEW DELHI	445	409181	CA SRIKANT K	ACA	DURG
427	408823	CA SATYENDRA KUMAR RAI	ACA	VARANASI	446	409223	CA SUBHDEEP JOHRI	ACA	BAREILLY

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
447	409236	CA SHEETAL SANKHALA	ACA	NAGDA	466	410064	CA GAJENDRA KUMAR CHATURVEDI	ACA	MATHURA
448	409262	CA SUDHIR KUMAR	ACA	JAMSHED PUR	467	410079	CA ASHUTOSH JOSHI	ACA	JAIPUR
449	409293	CA VISHNU KHANDELWAL	ACA	JAIPUR	468	410174	CA JITENDRA KUMAR KHANDELWAL	ACA	JAIPUR
450	409311	CA KAMNA NIGAM	ACA	BHOPAL	469	410187	CA NIKHIL MEHTA	ACA	JODHPUR
451	409364	CA SUSHIL KUMAR	ACA	FAIZABAD	470	410192	CA RAJUL DUBE	ACA	KANPUR
452	409422	CA SARVESH MITTAL	ACA	MATHURA	471	410214	CA GAURAV PANCHOLIA	ACA	PUNE
453	409569	CA KAPIL BOKADIA	ACA	UDAIPUR	472	410246	CA VINEETA MEHRA	ACA	VARANASI
454	409611	CA SHIKHA JAIN	ACA	JAIPUR	473	410247	CA SHIVENDRA KUMAR GUPTA	ACA	VARANASI
455	409707	CA MAHESH MANIHAR	ACA	JODHPUR	474	410300	CA MIRZA JAMIR BEG	ACA	GURGAON
456	409730	CA DEEPAK NENWANI	ACA	BHOPAL	475	410301	CA AKSHAY AGARWAL	ACA	BAREILLY
457	409789	CA ANSHUL JAIN	ACA	JAIPUR	476	410327	CA SANJEEV KUMAR PODDAR	ACA	JAMSHED PUR
458	409880	CA VIKAS AGARWAL	ACA	LAKHIMPUR KHERI	477	410329	CA KIRTEYA JAIN	ACA	JAIPUR
459	409904	CA RADHIKA ARORA	ACA	GURGAON	478	410330	CA RITESH KOTHARI	ACA	BHOPAL
460	409906	CA PRAMOD KUMAR GUPTA	ACA	GURGAON	479	410358	CA SHASHANK GUPTA	ACA	NEW DELHI
461	409921	CA PRAMOD KUMAR JAIN	ACA	AURANGABAD (MH)	480	410368	CA DURGESH SACHDEV	ACA	KANPUR
462	409925	CA RAJ KUMAR NADER	ACA	NEW DELHI	481	410401	CA SHASHANK GARG	ACA	KOTA
463	409959	CA FIROZ ALI BARNAGARWALA	ACA	INDORE	482	410410	CA SANJEEV KUMAR VARSHNEY	ACA	ALIGARH
464	409999	CA GAURAV BHATIA	ACA	AGRA	483	410489	CA PIYUSH MITTAL	ACA	NEW DELHI
465	410023	CA KUMAR SAURABH	ACA	LUCKNOW	484	410490	CA SUMIT KUMAR	ACA	JODHPUR

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
485	410541	CA VISHAL KUMAR	ACA	KOLKATA	504	411015	CA HUSSAIN HAIDRY	ACA	INDORE
486	410567	CA VINOD KUMAR PANDEY	ACA	ALLAHABAD	505	411175	CA JAYA MANSUKHANI	ACA	BHOPAL
487	410575	CA RAM SINGH YADAV	ACA	JAIPUR	506	411186	CA VIJAY KUMAR	ACA	BHADOHI
488	410579	CA PALLAVI JHAJHARIA	ACA	KANPUR	507	411203	CA SHWETA MEHTA	ACA	GHAZIABAD
489	410661	CA ARVIND KUMAR JAISWAL	ACA	GORAKHPUR	508	411219	CA ABHINAV SHARMA	ACA	JAIPUR
490	410684	CA NOOPUR GARG	ACA	ALLAHABAD	509	411287	CA NAVIN KUMAR	ACA	JAIPUR
491	410699	CA HEMANT BHANDARI	ACA	JHABUA	510	411290	CA VIRENDRA SINGH SOLANKI	ACA	DHAR
492	410718	CA BINAY KRISHNA	ACA	PATNA	511	411325	CA MOHAMMAD FAHAD KHALID	ACA	LUCKNOW
493	410727	CA PRIYANSHI GOYAL	ACA	JAIPUR	512	411399	CA KARISHMA JAIN	ACA	JASHPUR NAGAR
494	410730	CA JYOTI CHOUHAN	ACA	INDORE	513	411474	CA RAMANDEEP MADHOK	ACA	PUNE
495	410746	CA MUKUL JAIN	ACA	MUZAFFAR NAGAR	514	411487	CA GAURAV AGARWAL	ACA	AJMER
496	410763	CA OM PRAKASH PANDEY	ACA	JAMSHED PUR	515	411533	CA ATUL JAIN	ACA	DAMOH
497	410784	CA NEETA SHEVKANI	ACA	NEW DELHI	516	411617	CA PAVNEET SINGH SALUJA	ACA	INDORE
498	410789	CA SUSHIL KUMAR DEVTA	ACA	THANE	517	411714	CA RISHI PRAKASH	ACA	ALLAHABAD
499	410877	CA ANKIT JAIN	ACA	LUCKNOW	518	411791	CA SANTOSH KAG	ACA	MUMBAI
500	410883	CA VANDANA MAHESHWARI	ACA	INDORE	519	411852	CA ASHISH JAIN	ACA	INDORE
501	410922	CA RAKESH AGARWAL	ACA	JODHPUR	520	411862	CA UCEE CHHABRA	ACA	LUCKNOW
502	410948	CA DEEPAK BAGRECHA	ACA	GANDHI DHAM	521	411869	CA NANDI VARDHAN MEHTA	ACA	JODHPUR
503	410990	CA PRAVEEN KUMAR SINGH	ACA	KANPUR	522	411889	CA PRITESH MAHAJAN	ACA	KHARGONE

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
523	411917	CA LALIT MAKANI	ACA	SAHARAN PUR	542	412984	CA SACHIN BHARGAVA	ACA	JAIPUR
524	411974	CA SONAL JAIN	ACA	JAIPUR	543	413132	CA ASHOK KUMAR RAMAWAT	ACA	MADANGANJ KISHANGARH
525	411981	CA ABHISHEK AGRAWAL	ACA	SIKAR	544	413289	CA ASHISH VAISH	ACA	NOIDA
526	412006	CA MANISH JAIN	ACA	INDORE	545	413298	CA AMOGH GUPTA	ACA	KOTA
527	412054	CA POOJA BATWAL	ACA	INDORE	546	413303	CA PRAVEEN SHARMA	ACA	MUMBAI
528	412075	CA ABHISHEK BAHETI	ACA	THANE	547	413319	CA NIRAJ KUMAR SINGH	ACA	PATNA
529	412091	CA ASHWANI KUMAR JAIN	ACA	TONK	548	413324	CA JITENDRA KUMAR ARORA	ACA	MATHURA
530	412156	CA HIMANI ARORA	ACA	JAIPUR	549	413347	CA BHISHM NARAYAN SINGH	ACA	VARANASI
531	412168	CA GANESH KUMAR KESHRI	ACA	ARRAH	550	500366	CA RANA GOPAL SINGH	ACA	GURGAON
532	412212	CA NEHA JAIN	ACA	BANGA LORE	551	500404	CA PRADEEP KUMAR	ACA	SAHARAN PUR
533	412255	CA TARKESHWAR SINGH	ACA	THRISSUR	552	500499	CA VERMA AMIT KUMAR	ACA	INDIRA PURAM
534	412257	CA RADHA JAJU	ACA	MAINPURI	553	501058	CA SUDHIR	ACA	VAISHALI (UP)
535	412267	CA POOJA AGARWAL	ACA	HYDERA BAD	554	501207	CA RAJEEV KUMAR	FCA	HARDWAR
536	412287	CA RAHUL JAIN	ACA	JAIPUR	555	501497	CA JAIN TINKI	ACA	GURGAON
537	412370	CA NIDHI AJMERA	ACA	MUMBAI	556	501618	CA AGARWAL MOHIT NARESH	ACA	LUCKNOW
538	412611	CA BHAWANI SHANKER MODI	ACA	JHUNJHUNU	557	501981	CA JAIN TULSI RAJ	FCA	DELHI
539	412734	CA ARPIT SINGHAL	ACA	NEW DELHI	558	502523	CA GARG SANDEEP	ACA	HISAR
540	412758	CA ANKESH GOYAL	ACA	NEW DELHI	559	502802	CA SARVESH KUMAR	ACA	GHAZIABAD
541	412871	CA SUBODH KUMAR GAWANDE	ACA	BHOPAL	560	503838	CA SINHA KRISHNA PRATAP	ACA	BOKARO STEEL CITY

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
561	504226	CA SHUKLA SWAPNILI	ACA	KANPUR	580	509361	CA SONIA GUPTA	ACA	CHANDER NAGAR
562	504285	CA KASHYAP MANISH	ACA	JAIPUR	581	509444	CA RAM RATAN SINGH	ACA	GAYA
563	504768	CA MANISH KUMAR	FCA	PATNA	582	509716	CA YUVRAJ SINGH BHOWN	ACA	JAIPUR
564	504971	CA SINGH RAJ KUMAR	FCA	PATNA	583	509757	CA SURUCHEE MATHUR	ACA	NOIDA
565	505239	CA KARNANI PANKAJ	ACA	SRIGANGANAGAR	584	509952	CA GHANSHYAM GOYAL	ACA	GURGAON
566	505482	CA SHALU RISHIRAJ HALDANKAR	ACA	MUMBAI	585	510021	CA NAVAL KISHORE DEWANGAN	ACA	CHAMPA
567	505857	CA BHARDWAJ MAYANK	ACA	GURGAON	586	510422	CA HARS KUMAR	ACA	KHURJA
568	505949	CA CHAWLA KAPIL	ACA	MEERUT	587	510460	CA RAKESH KUMAR	ACA	NAGPUR
569	506052	CA ANURAG RAJAN	FCA	NEW DELHI	588	510537	CA HARSH JAIN	ACA	GURGAON
570	506088	CA SWATANTRA KUMAR SINGH	FCA	MANKAPUR	589	510741	CA ANKITA BHATNAGAR	ACA	NEW DELHI
571	506646	CA SUNITA BISWAS	ACA	GURGAON	590	510923	CA NIKHAR MATHUR	ACA	KAUSHAMBI
572	507082	CA AWADHESH KUMAR	FCA	BOKARO STEEL CITY	591	510991	CA VINAY MISHRA	ACA	VARANASI
573	507272	CA RAHUL KAUSHIK	ACA	GURGAON	592	511039	CA MANISHA JAIN	ACA	SAHARANPUR
574	507946	CA SANJAY KUMAR RAI	ACA	GHAZIPUR	593	511120	CA VIPIN KUMAR SHARMA	ACA	BHOPAL
575	508134	CA ACAIT PAL SINGH	FCA	LUCKNOW	594	511129	CA SACHIN KUMAR	ACA	MATHURA
576	508361	CA DEEPAK RAJ GUPTA	ACA	RANCHI	595	511196	CA HITESH GUPTA	ACA	DELHI
577	508548	CA ASHOK KUMAR OJHA	ACA	PATNA	596	511203	CA RAJ SINGH VERMA	ACA	BHOPAL
578	508792	CA ANUSHRI MEHER	ACA	DEWAS	597	511229	CA AMIT KUMAR GUPTA	ACA	SASARAM
579	509103	CA ANKIT GARG	ACA	MUZAFFAR NAGAR	598	511516	CA MONIKA AGARWAL	ACA	MEERUT

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	CITY
599	511598	CA GAURAV TONK	ACA	DELHI	618	515008	CA RAJESH KUMAR	ACA	NALANDA
600	511896	CA ABHISHEK SHARMA	ACA	NEW DELHI	619	515035	CA VARUN KUMAR AGARWAL	ACA	JAMSHEDPUR
601	511919	CA VIRENDRA NATH PANDEY	ACA	GORAKHPUR	620	515762	CA YOGESH HARJAI	ACA	GHAZIABAD
602	512403	CA ADITYA KUMAR JHA	ACA	NEW DELHI	621	516382	CA MD TABISH AHMAD	ACA	PATNA
603	512714	CA KHUSHBOO JAIN	ACA	BHOPAL	622	516458	CA ISHITA AGGARWAL	ACA	MEERUT
604	512800	CA AMITABH SINGHAL	ACA	RAMPUR	623	516459	CA DEEPA THAPA	ACA	NOIDA
605	513130	CA VINEET KUMAR SANCHETI	ACA	VAISHALI (UP)	624	516501	CA SUMIT MAHAJAN	ACA	CHIRAWA
606	513201	CA RAJAN KAYASTHA	ACA	NOIDA	625	516703	CA JASMEET SINGH CHOUDHARY	ACA	DEHRADUN
607	513478	CA NITIN JAIN	ACA	MEERUT	626	516804	CA KAPIL KUMAR AGRAWAL	ACA	BHARATPUR
608	513594	CA ARCHANA JAIN	ACA	SAHARANPUR	627	516938	CA DHIRAJ AGARWAL	ACA	DELHI
609	513723	CA GHANSHYAM DAS GUPTA	ACA	CHHATARPUR	628	517169	CA RAKESH JAKHAR	ACA	BIKANER
610	513749	CA MANISH NAILWAL	ACA	ALMORA	629	517636	CA MOHD ADIL SIDDIQUI	ACA	LUCKNOW
611	514113	CA SHIKHA SHARMA	ACA	VAISHALI (UP)	630	517875	CA KAUSHLENDRA KUMAR	ACA	PATNA
612	514267	CA RAJAT AGRAWAL	ACA	KASGANJ					
613	514662	CA SAORABH MODI	ACA	NEEMUCH					
614	514663	CA PANKAJ KUMAR GUPTA	ACA	DELHI					
615	514716	CA DEEPIKA MEHRA	ACA	DELHI					
616	514772	CA SANJIV KUMAR SRIVASTAVA	ACA	HARDWAR					
617	514867	CA SHOBHIT RASTOGI	ACA	AURANGA BAD (MH)					

**T. KARTHIKEYAN  
(SECRETARY)**

3CCA (5)(3)/2011-2012: with reference to this institute's Notification No. 3CCA (4) (1)/2000-2001 DT 02-02-2001, 3CCA (4) (1)/2002-2003 DT 29-11-2002, 3CCA (4) (1)/2003-2004 DT 10-02-2004, 3CCA (4) (1)/2005-2006 DT 07-11-2005, 3CCA (4) (1)/2006-2007 DT 16-10-2006, 3CCA (4) (1)/2007-2008 DT 30-10-2007, 3CCA (4) (1)/2008-2009 DT 15-04-2009, 3CCA (4) (1)/2009-2010 DT 28-04-2010, 3CCA (4) (1)/2010-2011 DT 27-12-2010, 3CCA(4)(1)/2011-2012 dated 04-11-2011, it is hereby notified in pursuance of regulation 20 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, that in exercise of the powers conferred by Regulation 19 of the said Regulation, the Council of the Institute of Chartered Accountants of India has restored to the Register of Members retrospectively with effect from the dates mentioned against their names, the names of the following members:-

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	RES DATE	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	RES DATE	CITY
1	039606	CA SAMEER LAL	FCA	01/10/2008	JABALPUR	17	076808	CA PODDAR MURARI LAL	ACA	08/12/2000	JAIPUR
2	057409	CA DWIVEDI RAM KISHORE	ACA	01/10/2010	RANCHI	18	077505	CA TANDON RAJIV	FCA	01/10/2002	NOIDA
3	058308	CA CHAKRABORTY RATUL	ACA	01/10/2010	NEW DELHI	19	078165	CA BHANDARI AMIT	ACA	01/10/2007	JAIPUR
4	062522	CA KUMKUM TIWARY	ACA	01/10/2009	RATLAM	20	079680	CA RAHUL GUPTA	FCA	01/10/2010	JAIPUR
5	062803	CA PRAWAL MANISHA	ACA	01/10/2010	BAREILLY	21	079681	CA TIBREWAL ARVIND	ACA	01/10/2009	JAIPUR
6	066414	CA NISHANT KUMAR	ACA	01/10/2010	NEW DELHI	22	079860	CA SARIPALLI UDAY	ACA	01/10/2010	THANE
7	071103	CA SATYAVIR SINGH DAGAR	FCA	01/10/2010	JAIPUR	23	081480	CA AJAY KUMAR	ACA	01/04/1983	DURGA PUR
8	071174	CA MALVIYA BHANWER LAL	FCA	01/10/1996	JODHPUR	24	088013	CA NARAIN JAI PRAKASH	ACA	22/12/2003	NOIDA
9	072343	CA AGGARWAL VINEET	FCA	01/10/2009	VARANASI	25	093116	CA MANEESH GUPTA	ACA	01/10/2010	BAREILLY
10	073015	CA GARG SHASHI KUMAR	FCA	01/10/2010	INDORE	26	104002	CA PERIWAL SUNITA	FCA	01/10/2010	JAIPUR
11	074143	CA SHATRUGHNA RAI	FCA	01/10/2010	KHARGONE	27	110994	CA VIJAY MAHESHWARI	ACA	01/10/2010	JODHPUR
12	074801	CA JAIN SWAPNIL	FCA	01/10/2010	MEERUT	28	120424	CA FIROZ ALIHUSAIN MAMULA	ACA	01/10/2009	BANS WARA
13	075316	CA VINEET KUMAR	ACA	01/10/2010	RAIPUR	29	125431	CA SURABHI KOURAW	ACA	01/10/2010	BHOPAL
14	075453	CA GAGGAR SURESH CHANDRA	ACA	22/12/2003	MUMBAI	30	127327	CA ARVIND KHANDLWAL	ACA	01/10/2008	GHATGOR GARA
15	075633	CA BAGGA AJIT SINGH	ACA	01/10/2008	UJJAIN	31	134213	CA VISHAL MAHESHWARI	ACA	01/10/2010	KOTA
16	076726	CA KHARE HARSH	ACA	01/10/2007	GWALIOR	32	400377	CA AJMERA DHEERAJ	ACA	01/10/2010	JAIPUR

SNO-	M.R.N	NAME	A/F	RES DATE	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	RES DATE	CITY
33	401160	CA SHARMA ANKITA	ACA	01/10/2010	MUMBAI	54	408085	CA PRAKASH ARORA	ACA	01/10/2010	GURGAON
34	401378	CA JAIN VIKAS	ACA	01/10/2010	MUMBAI	55	408183	CA KARAMVEER SINGH KAURAW	ACA	01/10/2010	MUMBAI
35	402100	CA GUPTA ASHISH	ACA	01/10/2010	JAIPUR	56	408530	CA RAHUL KAPILA	ACA	01/10/2010	MEERUT
36	402259	CA SEWANI KANHAIYALAL	ACA	01/10/2006	INDORE	57	408575	CA TARUN KUMAR	ACA	01/10/2009	GHAZIA BAD
37	402404	CA MANTRI BRIJ MOHAN	ACA	01/10/2007	AJMER	58	408786	CA DEEPAK KUMAR CHHAJER	ACA	01/10/2009	MUMBAI
38	402604	CA BHOI SUNIL KUMAR	ACA	01/10/2010	KORBA	59	409015	CA PRAVEEN GUPTA	ACA	01/10/2010	DURG
39	402610	CA BHAGCHANDANI RAVI	ACA	01/10/2010	JAIPUR	60	409208	CA MANPREET KAUR TUTEJA	ACA	01/10/2010	INDORE
40	403520	CA AGARWAL MANISH	ACA	01/10/2010	MUMBAI	61	409263	CA ANKUR GUPTA	ACA	01/10/2010	GURGAON
41	403581	CA SINGH GOPAL	ACA	01/10/2005	RANCHI	62	409347	CA SANDEEP KARWA	ACA	01/10/2010	INDORE
42	404481	CA NEWATIA YADU NANDAN	ACA	01/10/2010	GURGAON	63	409922	CA SUMIT KUMAR MAHESHWARI	ACA	01/10/2010	INDORE
43	404503	CA ANKUR BANSAL	ACA	01/10/2010	LUCKNOW	64	410165	CA ASHISH KUMAR YADAV	ACA	01/10/2010	JAIPUR
44	404702	CA MITTAL LAV	ACA	01/10/2010	JAIPUR	65	410984	CA PRIYA SHARMA	ACA	01/10/2010	INDORE
45	404823	CA DASHOTTAR SURYA	ACA	01/10/2010	UJJAIN	66	411177	CA MANISH KUMAR GOYAL	ACA	01/10/2010	JAIPUR
46	405203	CA RASTOGI SUNEET	ACA	01/10/2010	LUCKNOW	67	500298	CA DEEPAK KUMAR	ACA	01/10/2010	DELHI
47	405723	CA PANKAJ TIWARI	ACA	01/10/2010	BHARAT PUR	68	500944	CA SHASHI BHUSHAN KUMAR	FCA	01/10/2010	GAYA
48	405737	CA SHIKHA KAPOOR	ACA	01/10/2010	KANPUR	69	503447	CA PAREEK MUKESH	ACA	01/10/2007	LUDHIANA
49	406224	CA SAGAR NIGAM	ACA	01/10/2010	LUCKNOW	70	505041	CA JAIN NITIN K	ACA	01/10/2010	NEW DELHI
50	406488	CA RAJENDRA GUPTA	ACA	01/10/2010	NEW DELHI	71	505378	CA THAKKAR AMIT KUMAR	ACA	01/10/2010	INDIRA PURAM
51	406597	CA ANUBHAV SHARDA	ACA	01/10/2010	JAIPUR	72	506848	CA RAHUL JAISWAL	ACA	01/10/2010	NOIDA
52	407055	CA DEEPAK BIRLA	ACA	01/10/2010	INDORE	73	508556	CA VIJAYPAL SINGH GULYA	ACA	01/10/2010	RAIPUR
53	407162	CA NEERAJ JAIN	ACA	01/10/2010	INDORE	74	508813	CA DINESH KUMAR	ACA	01/10/2010	VASUN DHARA



SNO-	M.R.N	NAME	A/F	RES DATE	CITY	SNO-	M.R.N	NAME	A/F	RES DATE	CITY
75	510709	CA PURTI KOTHARI	ACA	01/10/2010	INDORE	79	511637	CA DESH BANDHU	ACA	01/10/2010	GURGAON
76	511059	CA BUDHI BHASKAR SRIVASTAVA	ACA	01/10/2010	DELHI	80	512686	CA GEETIKA MALIK	ACA	01/10/2010	NOIDA
77	511266	CA NEERAJ KUMAR	ACA	01/10/2009	DELHI	81	514628	CA VATIKA ARORA	ACA	01/10/2010	GURGAON
78	511591	CA SAMEER ARORA	ACA	01/10/2010	GURGAON						

**T. KARTHIKEYAN**  
**(SECRETARY)**

3CCA (8) (1)2011-2012: in pursuance of Regulation 10(I)(IV) read with Regulation 10(2) (b) of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from 01<sup>st</sup> October 2011, as they had not paid their annual fees for Certificate of Practice.

S.No.	MRN	Member Name	City	S.No	MRN	Member Name	City
1	14016	CA. TUSHARENDU GUPTA ACA	JAMSHEDPUR	16	73641	CA. VIVEK UBEROI ACA	BHOPAL
2	14110	CA. SATYA NARAIN KHUNTETA FCA	JAIPUR	17	73967	CA. GOYAL MOHAN LAL FCA	BHARATPUR
3	16426	CA. AMIT KUMAR PAL FCA	RANCHI	18	74918	CA. NARESH KUMAR ACA	JAIPUR
4	43769	CA. LAKHOTIA ANIL KUMAR ACA	AJMER	19	75044	CA. TREHAN RAJAN ACA	GORAKHPUR
5	49625	CA. PUNJABI SURESH MAHADEV ACA	MUMBAI	20	76485	CA. MAHESHWARI VIVEK FCA	HOSHANGABAD
6	56254	CA. KAMALAKANTA NAYAK FCA	GHAZIABAD	21	76491	CA. CHAWLA ANIL KUMAR ACA	KOTA
7	67620	CA. RAMESH CHANDRA GIRI ACA	BHAWANI	22	76614	CA. DHARMENDRA KUMAR JAIN FCA	INDORE
8	68604	CA. RAJUL BEGANI ACA	BHILAI	23	79166	CA. AGRAWAL PUNEET FCA	KANPUR
9	70328	CA. HARBANS SINGH AJMANI FCA	LAKHIMPUR	24	79365	CA. RANKA SHEELU FCA	JAIPUR
10	70343	CA. GOEL SUREDNRA KUMAR FCA	GHAZIABAD	25	82137	CA. BHATTNAGAR MAN MOHAN LAL ACA	GHAZIABAD
11	70506	CA. RAJENDRA MOHAN JAIN ACA	JAIPUR	26	83402	CA. JUNEJA SANJEEV FCA	NOIDA
12	70647	CA. SETH BASANT FCA	KANPUR	27	84031	CA. BHASIN PRAVEEN KUMAR ACA	NOIDA
13	72239	CA. GUPTA SUDHA FCA	JAIPUR	28	86476	CA. GARG AJAY FCA	GHAZIABAD
14	72462	CA. VIVEK SINGH ACA	GWALIOR	29	87862	CA. RATNAM SUJATHA ACA	NOIDA
15	72734	CA. AGRAWAL RAJESH KUMAR FCA	GHAZIABAD	30	88844	CA. ARUN KUMAR AGRAWAL FCA	GORAKHPUR

S.No.	MRN	Member Name	City	S.No.	MRN	Member Name	City
31	97707	CA. BHALLA AKSHAY FCA	NOIDA	53	406131	CA. RAJESH KHATRI ACA	BANSWARA
32	98455	CA. BANKA RAVINDRA KUMAR ACA	GHAZIABAD	54	406478	CA. AVDHESH JOSHI ACA	JAIPUR
33	121185	CA. SHAILESH KUMAR GOYAL ACA	GURGAON	55	406824	CA. VIJAY KUMAR TANK ACA	JAIPUR
34	126893	CA. MANEESH JAIN ACA	BHILWARA	56	407124	CA. AKHIL BHANDARI ACA	JODHPUR
35	137197	CA. KHUSHBOO JAIN ACA	BHILWARA	57	407252	CA. SUMAN SAURABH ACA	PATNA
36	400053	CA. JAIN ANIL KUMAR ACA	GWALIOR	58	409271	CA. NIMISHA MOHAN ACA	JAMSHEDPUR
37	400263	CA. NILESH MAHESHWARI FCA	UDAIPUR	59	409410	CA. SANJEEV KUMAR BAJPAI ACA	KANPUR
38	400793	CA. JAORAWALA LIYAQUAT ALI ACA	NEEMUCH	60	409566	CA. GHANSHYAM PERIWAL ACA	BHIWADI
39	400913	CA. KRISHNA GOPAL BAJPAI FCA	KANPUR	61	409602	CA. NEELESH R JAIN ACA	SAGAR
40	400979	CA. BHATIA SANDHYA KUMAR ACA	UDAIPUR	62	410494	CA. HEMANT RAMRAKHIYANI ACA	JODHPUR
41	401386	CA. GUPTA KAMAL KUMAR ACA	JAIPUR	63	410651	CA. UTKARSH KHANDELWAL ACA	GURGAON
42	401388	CA. SARDA ROHIT KUMAR ACA	JAIPUR	64	410759	CA. SANDEEP MITTAL ACA	JAIPUR
43	401462	CA. RUQAIYA PACHISA ACA	UDAIPUR	65	411241	CA. MONA DWIVEDI ACA	BHOPAL
44	401609	CA. AGARWAL ABHISHEK ACA	JAIPUR	66	411252	CA. SACHIN KESARWANI ACA	ALLAHABAD
45	401895	CA. AMISH DUGAR FCA	JAIPUR	67	411516	CA. KULDEEP SINGHVI ACA	UDAIPUR
46	402083	CA. ASHISH JASORIA ACA	BAREILLY	68	412193	CA. SWATI AGARWAL ACA	JAMSHEDPUR
47	402495	CA. NEHA KALIA ACA	GHAZIABAD	69	412276	CA. SONAL SUKHEEJA ACA	JAIPUR
48	403738	CA. SUDHANSHU DEO ACA	BHOPAL	70	412556	CA. MAHESH KUMAR OJHA ACA	BIKANER
49	403967	CA. MISRA MAITRI ACA	AGRA	71	412629	CA. SHASHI SHEKHAR ACA	MUZAFFARPUR
50	404281	CA. SHYAM AGARWAL ACA	JAIPUR	72	412743	CA. SIDDHARTH SINGHVI ACA	UDAIPUR
51	404482	CA. KEDIA MAHESH FCA	KANPUR	73	412762	CA. RAMESHWAR CHOUKHADA ACA	INDORE
52	405418	CA. BALVIR SINGH GANDHI ACA	SINGRAULI	74	412843	CA. ABDUL SAMAD ACA	AZAMGARH

S.No.	MRN	Member Name	City	S.No.	MRN	Member Name	City
75	413087	CA. SIDDHARTH BAM ACA	BAMNIA	81	510203	CA. UMESH PRASAD BARNWAL ACA	NEW DELHI
76	413344	CA. ANKUSH LODHA ACA	KOTA	82	511048	CA. ASHISH SAXENA ACA	NOIDA
77	413405	CA. ANIL AGARWAL ACA	SIKAR	83	512490	CA. GAURAV JAIN ACA	GHAZIABAD
78	506832	CA. URVASHI JAIN ACA	SAHIBABAD	84	514882	CA. VENKATA SUBBA RAO GURRAM ACA	GHAZIABAD
79	506952	CA. ANUJ GARG ACA	BULANDSHAHR	85	515150	CA. PRANSHU BISARIA ACA	CHANDAUSI
80	509603	CA. RANJAN DUTTA ACA	JAMSHEDPUR				

**T.KARTHIKEYAN  
(SECRETARY)**

3CCA (8) (2)/2011-2012: In pursuance of Clause (iii) Regulation 10(I) of the Chartered Accountants Regulation, 1988, it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following members have been cancelled with effect from the dates mentioned against their name as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
1	053826	CA SHARMA SANDEEP FCA	INDORE	22/02/2012	17	076066	CA VARMA RAJESH KUMAR FCA	INDORE	11/02/2012
2	056308	CA SANTOSH SARDA ACA	BHILWARA	31/03/2011	18	076505	CA MALKA SANDEEP MAHESHWARI ACA	MUMBAI	20/05/2011
3	064933	CA AVISHEK GUPTA ACA	NOIDA	09/03/2012	19	077298	CA KAPLISH KAMAL DEV FCA	BHOPAL	28/10/2011
4	065832	CA BIRENDRA KUMAR ACA	DARBHANGA	01/04/2011	20	077301	CA BAJPAI PRAVEEN ACA	JHABUA	01/05/2011
5	068120	CA SANGEET KUMAR TODI ACA	PATNA	25/11/2011	21	077406	CA JAIN DILIP KUMAR FCA	BHILAI	14/06/2011
6	069608	CA RUCHI AGARWAL ACA	DHANBAD	06/02/2012	22	078099	CA MOTI LAL LAXKAR FCA	INDORE	23/06/2011
7	073029	CA BILLAIYA NARENDRA KUMAR FCA	JABALPUR	20/01/2012	23	078463	CA LAMBORE ABHAY FCA	PUNE	06/06/2011
8	073331	CA VINOD KUMAR FCA	DEWAS	12/06/2011	24	078682	CA ASHISH BANSAL FCA	KHURJA	20/06/2011
9	073814	CA RAJESH KUMAR FCA	PATNA	17/09/2011	25	078716	CA LOYA BALKISHAN FCA	JODHPUR	16/10/2011
10	073906	CA BAJPAI ANAND KUMAR FCA	KANPUR	29/03/2011	26	078828	CA MANOHAR SINGH BHANDARI FCA	KISHAN GARH	17/10/2011
11	074279	CA MANDEEP SINGH FCA	LUDHIANA	03/05/2011	27	079472	CA OJHA ABHILESH ACA	RATLAM	07/10/2011
12	074708	CA GOYAL SHYAM SUNDER FCA	JAIPUR	25/06/2011	28	079600	CA GAUTAM JAIN FCA	JAIPUR	24/12/2011
13	074806	CA JHAWAR MOHAN FCA	INDORE	11/07/2011	29	082821	CA SARAF MURLI MANOHAR FCA	CHURU	01/04/2011
14	075173	CA SAKLECHA PRAFULL FCA	MUMBAI	01/04/2011	30	087474	CA AKHIL KUMAR FCA	GHAZIA BAD	30/09/2011
15	075186	CA GOYAL ASHISH SOHAN FCA	INDORE	31/05/2011	31	089653	CA ANSHU KUMAR FCA	GHAZIA BAD	30/09/2011
16	075847	CA DUGAR MANOJ KUMAR FCA	BADNOR	01/01/2012	32	093125	CA KATYAL ASHOO FCA	GHAZIA BAD	26/09/2011

SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
33	096599	CA KIRAN ACA	NOIDA	01/11/2011	55	403171	CA MITTAL KUSH FCA	JAIPUR	01/04/2011
34	097388	CA DIVYA FCA	DELHI	26/03/2012	56	403638	CA ARORA RUCHI FCA	KANPUR	09/01/2012
35	115569	CA PATIDAR RAMCHANDRA FCA	RATLAM	12/12/2011	57	403910	CA NAVNEET KALANI FCA	JAIPUR	04/08/2011
36	119052	CA NITIN KUMAR JINDAL ACA	HANUMAN GARH TOWN	01/04/2011	58	404773	CA PURNIMA DEVPURA ACA	UDAIPUR	09/08/2011
37	136658	CA ANKUR MISHRA ACA	BHILAI	06/05/2011	59	404956	CA RACHANA BOTHRA ACA	LUCKNOW	19/03/2012
38	400360	CA NIRESH MAHESHWARI FCA	INDORE	22/06/2011	60	405207	CA GUPTA SUSHIL ACA	KANPUR	27/03/2012
39	400570	CA SATENDRA DUSAD FCA	JAIPUR	22/12/2011	61	405569	CA RAGHWENDRA AGARWAL ACA	PATNA	19/09/2011
40	400640	CA TRUPTI SONI FCA	INDORE	11/03/2011	62	405687	CA PANKAJ MITTAL ACA	AGRA	11/01/2012
41	400782	CA SANJAY SWAMI FCA	DADRI	01/04/2011	63	405791	CA SAURABH GUPTA ACA	SURAT	31/03/2011
42	400783	CA SALECHA ROHAN ACA	JAIPUR	12/09/2011	64	406080	CA ANKIT TOTUKA FCA	JAIPUR	11/01/2012
43	400860	CA VIMAL KUMAR PAREEK FCA	RANCHI	20/07/2011	65	406087	CA SHETA TAK ACA	JODHPUR	22/08/2011
44	400965	CA PRATEEK BHARGAVA FCA	JAIPUR	24/12/2011	66	406120	CA PAWAN KARWA ACA	BHAYAN DAR	05/05/2011
45	401031	CA PADAM CHAND JAIN FCA	SWAIMADHOPUR	13/02/2012	67	406121	CA PRATEEK KHANDLWAL ACA	JAIPUR	22/12/2011
46	401146	CA ALKA GUPTA FCA	ALWAR	28/05/2011	68	406143	CA LALIT JAIN ACA	JODHPUR	11/08/2011
47	401369	CA GUPTA SUSHIL FCA	BULAND SHAHR	01/04/2011	69	406277	CA SHANTANU MANI SINGH ACA	MEERUT	16/11/2011
48	401686	CA JAIN MUKESH KUMAR FCA	BHOPAL	29/11/2011	70	406474	CA RAJINDAR LUTHRA ACA	RAIPUR	03/08/2011
49	401720	CA ATUL KUMAR AGRAWAL FCA	AGRA	23/03/2012	71	406715	CA RAJESH SINGH RANA ACA	KANPUR	25/11/2011
50	402339	CA ANCHAL AGRAWAL FCA	RAIPUR	01/08/2011	72	406766	CA ASHISH GUPTA ACA	DELHI	29/08/2011
51	402951	CA AGARWAL VISHAL FCA	KANPUR	17/02/2012	73	406791	CA SARAJU PRASAD RATHOUR ACA	BIHAR (CH)	02/06/2011
52	402962	CA JAIN PARUL FCA	JAIPUR	19/11/2011	74	406821	CA SHAILESH RAJORIA FCA	JAIPUR	24/12/2011
53	402985	CA SINGH KIRTI KUMAR FCA	JAIPUR	26/12/2011	75	406911	CA VISHNU KUMAR AGARWAL ACA	CHOMU	24/01/2012
54	403149	CA NIZAM TASNEEM ACA	BAREILLY	15/03/2012	76	406918	CA AMIT SINGH JHALA FCA	KOTA	13/02/2012

SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
77	407146	CA DHARMENDRA KUMAR ACA	BALOTRA	26/03/2012	99	409154	CA AMIT GHIYA ACA	JAIPUR	26/12/2011
78	407264	CA NAVEEN SINGHAL ACA	HAPUR	28/02/2012	100	409304	CA JAGRATI MALVIYA ACA	JABALPUR	11/11/2011
79	407326	CA BHAWNA GUPTA ACA	JAIPUR	02/11/2011	101	409342	CA RAJESH RATHI ACA	VARANASI	16/02/2011
80	407387	CA SUPRIYA MEWARA ACA	JODHPUR	06/03/2012	102	409377	CA DIVYA KIRAN BANSAL ACA	HARDWAR	12/08/2011
81	407515	CA MANISH KUMAR JAIN ACA	HOSHANGABAD	01/04/2011	103	409504	CA JAYASHREE ROY ACA	KANPUR	28/02/2012
82	407597	CA MANISH YADAV ACA	BEHROR	25/07/2011	104	409548	CA SHIVA SHARMA ACA	GURGAON	01/04/2011
83	407606	CA PARUL BAJPAI ACA	KANPUR	31/10/2011	105	409739	CA NITIN KUMAR PATEL ACA	JABALPUR	28/09/2011
84	407695	CA GHANSHYAM AGARWAL ACA	JAIPUR	01/04/2011	106	409933	CA KOSHAL GUPTA ACA	JODHPUR	01/09/2011
85	407783	CA KAVITA BHANAWAT ACA	UDAIPUR	03/10/2011	107	410019	CA MAHENDRA SINGH TOMAR ACA	INDORE	31/03/2011
86	407786*	CA KRISHAN GOPAL SHAH ACA	JAIPUR	12/11/2011	108	410076	CA MANOJ KUMAR VAISH ACA	BAREILLY	07/02/2012
87	408013	CA SUNIL KUMAR KHANDELWAL ACA	JAIPUR	01/04/2011	109	410124	CA SUMIT KUMAR SULTANIA ACA	DHANBAD	20/03/2012
88	408040	CA RASHI GOYAL ACA	SAHARANPUR	30/03/2011	110	410287	CA PIYUSH AGRAWAL ACA	JHALAWAR	25/11/2011
89	408215	CA MANISH KUMAR JAIN ACA	INDORE	19/05/2011	111	410317	CA ASHISH GOYAL ACA	KOTPUTLI	27/12/2011
90	408274	CA YOGESH SHARMA ACA	JAIPUR	25/06/2011	112	410322	CA RAJAT SINGHAL ACA	AGRA	16/03/2012
91	408406	CA MOHIT AGARWAL ACA	AGRA	01/04/2011	113	410350	CA RAHUL NAREDA ACA	JAIPUR	07/03/2011
92	408450	CA ANUP KUMAR JAIN ACA	LALITPUR	05/09/2011	114	410376	CA ANSHUL SHISHODIA ACA	CHITTORGARH	01/04/2011
93	408472	CA DIPTI JAIN ACA	PUNE	12/06/2011	115	410386	CA ARVIND KUMAR SHUKLA ACA	BAREILLY	07/12/2011
94	408545	CA ITI GUPTA ACA	KOTA	13/07/2011	116	410388	CA PRIYANKA AGRAWAL ACA	JAMSHEDPUR	01/06/2011
95	408753	CA NIDHI BHARDWAJ ACA	NOIDA	27/06/2011	117	410477	CA ASHISH KUMAR BEEYANI ACA	JAIPUR	07/02/2012
96	408763	CA SACHIN KUMAR ACA	HAPUR	29/12/2011	118	410575	CA RAM SINGH YADAV ACA	JAIPUR	17/02/2012
97	408778	CA PUSHKAR GOYAL ACA	BAREILLY	30/06/2011	119	410628	CA RAJAT KUMAR JAIN ACA	JAIPUR	31/08/2011
98	409095	CA MANOJ GOYAL ACA	BILASPUR (CH)	15/12/2011	120	410652	CA SATISH KHATOD ACA	JAIPUR	29/02/2012

SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
121	410853	CA HARI KUMAR ACA	PATNA	07/11/2011	142	412300	CA DEEPAK AGARWAL ACA	PILIBHIT	31/03/2011
122	410862	CA ANU GUPTA ACA	JAIPUR	15/08/2011	143	412332	CA HARGUN SINGH SODHI ACA	DEHRADUN	14/09/2011
123	410963	CA HITESH AGRAWAL ACA	BHARATPUR	15/10/2011	144	412347	CA ARVIND KUMAR ACA	PATNA	08/11/2011
124	411028	CA ANKUR LODHA ACA	KOTA	02/07/2011	145	412382	CA ABHISHEK PRAHLADKA ACA	VARANASI	16/08/2011
125	411132	CA MOHAMMAD ARIF ANSARI ACA	RAE BARELI	02/01/2012	146	412393	CA RICHA KHANDELWAL ACA	INDORE	01/04/2011
126	411199	CA GAURAV VANI ACA	BHOPAL	27/03/2012	147	412405	CA NEHA GUPTA ACA	BHOPAL	07/02/2011
127	411221	CA NIRANJAN LAL SONI ACA	JAIPUR	05/09/2011	148	412411	CA AMIT KUMAR GUPTA ACA	KANPUR	22/03/2012
128	411368	CA RAHUL SHARMA ACA	SIKAR	01/04/2011	149	412466	CA PAVAN KUMAR CHAKRAWORTY ACA	JABALPUR	09/10/2011
129	411497	CA KAPIL BANSAL ACA	AJMER	20/11/2011	150	412545	CA NARENDER PAL SINGH ACA	GHAZIABAD	07/07/2011
130	411663	CA RAVINDRA KUMAR KAKANI ACA	INDORE	10/10/2011	151	412592	CA CHARUL SHRIMAL ACA	JAIPUR	14/12/2011
131	411682	CA ISHA SHUKLA ACA	KANPUR	22/12/2011	152	412634	CA NUPUR DAGA ACA	JAIPUR	05/09/2011
132	411688	CA ANKITA BHAGAT ACA	KOTA	18/11/2011	153	412654	CA AMIT AHIR ACA	BEAWAR	22/01/2012
133	411713	CA ASHISH KUMAR ACA	KANPUR	27/12/2011	154	412687	CA PRIYANKA LADDHA ACA	RAIPUR	01/11/2011
134	411815	CA MANISH AGARWAL ACA	JAMSHED PUR	01/11/2011	155	412703	CA AANSHIKA SURANA ACA	BHOPAL	01/04/2011
135	411831	CA SHRUTI AGARWAL ACA	KANPUR	01/04/2011	156	412709	CA NIRMAL JAIN ACA	NAGAUER	01/04/2011
136	411833	CA RAKTIMA AGARWAL ACA	LUCKNOW	01/04/2011	157	412786	CA NIDHI ACA	FAIZABAD	01/04/2011
137	411839	CA SHUBHASHISH RAHA ACA	SURGUJA	13/02/2012	158	412887	CA AJAY GOYAL ACA	ALWAR	01/04/2011
138	411969	CA SIDDHARTH SEHGAL ACA	GHAZIABAD	31/08/2011	159	412891	CA PRIYANKA TAPRIA ACA	KOTA	21/11/2011
139	412015	CA NIKHIL AGARWAL ACA	RANCHI	24/07/2011	160	412907	CA EKTA BHARGAVA ACA	JHANSI	09/05/2011
140	412051	CA GAURAV AGARWAL ACA	AGRA	23/01/2012	161	412914	CA SIDDHARTHA MEHROTRA ACA	KANPUR	20/12/2011
141	412209	CA SANDEEP DHING ACA	UDAIPUR	28/11/2011	162	413060	CA MOHD ASIF ACA	LUCKNOW	14/11/2011

SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
163	413173	CA E ANAND KRISHNAMURTHY ACA	JABALPUR	30/05/2011	184	414227	CA NEHA GUPTA ACA	JABALPUR	29/03/2012
164	413207	CA ANKIT JAIN ACA	AGRA	05/01/2012	185	414240	CA ARUN SAKUJA ACA	BAREILLY	10/10/2011
165	413209	CA KAMAL GULATI ACA	MORADABAD	19/03/2012	186	414245	CA MAHAVEER CHAND ANCHALIYA ACA	BEAWAR	07/12/2011
166	413259	CA MANISHA BHARDWAJ ACA	JAIPUR	30/11/2011	187	414278	CA GAURAV HIMATSINGKA ACA	VARANASI	14/03/2012
167	413404	CA CHETAN KUMAR AGRAWAL ACA	BHAGALPUR	30/10/2011	188	414288	CA RAVI JAIN ACA	JAIPUR	01/02/2012
168	413548	CA SHRAWAN KUMAR ACA	CHHAPRA	17/11/2011	189	414348	CA PRACHI AGARWAL ACA	MORADA BAD	08/10/2011
169	413586	CA SANTOSH KUMAR SINGH ACA	INDORE	01/08/2011	190	414609	CA RAJENDRA KUMAR PANDEY ACA	PRATAP GARH	20/10/2011
170	413610	CA SUMEDH SEN ACA	JAMSHED PUR	13/10/2011	191	414668	CA NARESH AHUJA ACA	BHOPAL	15/10/2011
171	413708	CA MADHAVI VYAS ACA	JODHPUR	25/10/2011	192	414784	CA SHREY BHATNAGAR ACA	DURG	27/01/2012
172	413765	CA MANISH SONI ACA	SURATGARH	24/02/2012	193	414804	CA PANKAJ AGRAWAL ACA	MATHURA	11/01/2012
173	413801	CA ASHISH JAIN ACA	NEW DELHI	18/07/2011	194	414859	CA SWETA AGRAWAL ACA	KORBA	25/11/2011
174	413937	CA ANKIT PALIWAL ACA	SAGAR	28/11/2011	195	414958	CA <del>NAKTA</del> AGRAWAL ACA	MUMBAI	05/12/2011
175	413945	CA ANKIT AGRAWAL ACA	JAIPUR	02/10/2011	196	415182	CA SANTOSH KUMAR CHHALOTRE ACA	HARDA	24/10/2011
176	413947	CA SHIV KUMAR AGARWAL ACA	JAIPUR	03/01/2012	197	415237	CA ARPIT PORWAL ACA	MANDSAUR	12/12/2011
177	413981	CA RIMISHA KOTHARI ACA	BEAWAR	05/09/2011	198	415285	CA MUDIT GOGIA ACA	MEERUT	24/02/2012
178	413987	CA ANKITA RATHI ACA	JAIPUR	09/01/2012	199	415424	CA PARAG MODANI ACA	RAJGARH	27/12/2011
179	414056	CA AKSHAY KUMAR AGARWAL ACA	AGRA	14/02/2012	200	415466	CA GAURAV MAKHIJANI ACA	VARANASI	27/01/2012
180	414066	CA NIMITA AGARWAL ACA	CHOMU	19/01/2012	201	415472	CA DEEPAK GOYAL ACA	DIDWANA	20/11/2011
181	414158	CA PULKIT KAPOOR ACA	JAIPUR	21/12/2011	202	415703	CA RAJ KUMAR MOHATA ACA	MANDSAUR	19/01/2012
182	414165	CA PANKAJ KUMAR MEENA ACA	BARAUNI	01/09/2011	203	415884	CA SHALINI ACA	BHAGAL PUR	05/03/2012
183	414209	CA SHALU KEDIA ACA	RANCHI	27/12/2011	204	501098	CA PRADEEP KUMAR FCA	GHAZIABAD	31/03/2011

SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE	SNO	M.R.N	NAME	CITY	CANCEL DATE
205	507969	CA AKANKSHA GUPTA FCA	FAIZABAD	01/10/2011	214	514776	CA SHARAD KUMAR KARNANI ACA	BIKANER	01/08/2011
206	509061	CA DEEPAK KUMAR SHARMA ACA	GHAZIABAD	01/02/2012	215	515268	CA AKHIL KUMAR RASTOGI ACA	MEERUT	13/10/2011
207	509754	CA HARSH VIJAYVARGIYA ACA	NOIDA	19/08/2011	216	515809	CA TARUN KUMAR GARG ACA	DELHI	26/02/2011
208	510054	CA GYANENDRA KUMAR ACA	KANPUR	16/03/2012	217	515835	CA SANJEEV KUMAR ACA	SRIGANGA NAGAR	22/07/2011
209	511781	CA MUDIT MATHUR ACA	NOIDA	01/12/2010	218	516046	CA ROHIT SUNEJA ACA	BHOPAL	19/06/2011
210	511904	CA NITIN AGARWAL ACA	JAIPUR	15/12/2011	219	517117	CA NIKITA GUPTA ACA	JABALPUR	19/04/2011
211	512290	CA SAURABH GUPTA ACA	VAISHALI (UP)	02/12/2011	220	517521	CA SAURABH AGRAWAL ACA	KANPUR	11/08/2011
212	512458	CA SHOBHIT AGARWAL ACA	KAUSHAMBI	01/04/2011	221	518637	CA VISHAL MAROTI ACA	NEW DELHI	30/01/2012
213	513935	CA ABHAY NANDAN TYAGI ACA	BULAND SHAHR	07/12/2010					

**T.KARTHIKEYAN**  
(SECRETARY)

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित  
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2012  
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND  
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2012